



७२५

सकलमन्त्र-तन्त्र-यन्त्राधिराजराजेश्वरशेखरकेयो नमो नमः ॥

## श्रीजाताधर्मकथाङ्गि—

द्वितीयो विभागः (अध्य० ९ यो १९), अने द्वितीयश्रुतस्कन्ध सम्पूर्णः ।



संपादकः—  
प. पू. आचार्यदेव-चन्द्रसागरसूरिवरः

प. पू. आचार्यदेव-चन्द्रसागरसूरिवरः



श्रीआनन्दचन्द्रग्रन्थाब्धौ (ग्रन्थरत्नाकरे) ग्रन्थारत्नम्-१८.

शाश्वतानन्ददायक-श्रीयन्त्राधिराजराजेश्वर-श्रीसिद्धचक्रेभ्यो नमो नमः ।

सकलसमीहित-श्रीशङ्खेश्वरपाश्वनाथो विजयतेतमाम् । शासनसञ्चालक-सूत्रकृच्छ्रीसुधर्मगणभृते नमः ॥

वर्तमानशासनमान्यसूत्रकार-पञ्चमगणधरप्रवरश्रीसुधर्मस्वामिसंहबन्धं, तत्सूत्रार्थहरस्यकार-श्रीमद्भद्रबाहुस्वामिनिर्मितनिर्युक्तियुतं, नवाङ्गीवृत्तिकार-श्रीमद्भयदेवसूरिविहितविवरणसुशोभितं; संपादकीयविधप्रत्यन्तरपाठाद्यनेकपरिशिष्टसमलङ्कृतं च—

## ॥ श्रीज्ञाताधर्मकथाङ्गम् ॥

[ तस्य प्रथमश्रुतस्कंधस्यानवमाष्ययनतः एकोनविंशतितमपर्यन्तेन द्वितीयश्रुतस्कंधेन च परिसमासेद् द्वितीय-धर्मभागम् ]

संशोधकः सम्पादकश्च

प्रातःस्मरणीयपूज्यानां गीताईतार्वाभौमानाभागमोहकारकाणां श्रीवर्द्धमानजैनागममन्दिरसंस्थापकानां प्रावचनिकधुरन्धराणां

स्व० श्रीआनन्दमागारधुरीश्वराणां विद्वद्द्विनेयः आचार्यश्रीचन्द्रसागरसूरिः ।

प्रकाशिका—“ श्रीसिद्धचक्रसाहित्यप्रचारकसमिति ” इति संस्था ।

वीरसंवत् २४७९ ।

विक्रमसंवत् २००९ ।

पण्यम् ७-०-० ।

क्राइस्टाब्द १९५२ ।

प्रकाशिका :—

श्रीसिद्धचक्र-साहित्य-समिति-संस्था,  
C/o. संघवी चीमनलाल सवाईचन्द्र,  
गोलकेशरी, गल्लेमंठी छुरत W. By.

द्रव्यदयानुं भव्य-फल ।

“पाणानुकंपयाए, भूयाणुकंपयाए, जीवाणुकंपयाए, सत्ताणुकंपयाए सो पाए अंतरा च्चैव संघारिए, नो च्चैव णं णिचिखत्ते, तते णं तुमं मेहा! ताए पाणानुकंपयाए जाव सत्ताणुकंपयाए सो पाए अंतरा च्चैव संघारिए, नो च्चैव णं णिचिखत्ते।”

श्रीज्ञाना० अ० १, पृ० ७१-पंक्ति ७ ।

भावार्थः—श्रीवीरप्रभु मेघकुमारने कहे छे के-हे मेघ ! प्राण-भूत-जीव-सत्त्वनी अनुकम्पाए-दयाधी (हाथीना भवमां) तें पग अछरज राख्यो पण मूक्यो नहिं, तेथी करी-प्राण-भूत-जीव-सत्त्वनी दयाधी तें भवसंसार लघुकर्गो यावत् मनुष्यनुं आयुष्य बांछुं.

मुद्रक-शाह गुलाबचंद लल्लुभाई,

श्रीमहोदय प्रिन्टींग प्रेस,

दाणापीठ-भावनगर ( सौराष्ट्र ).

शाश्वतानन्ददायक-सकलमन्त्र-तन्त्राघिराजराजेश्वर-श्रीसिद्धचक्रेभ्यो नमो नमः ।  
सकलसमीहितपूरक-श्रीशङ्खेश्वरपार्श्वनाथो विजयतेतमाम् ॥

## ॥ श्रीज्ञाताधर्मकथाङ्गे द्वितीयविभागे प्रस्तावना ॥

दुर्लभ मानवजीवन—

अनादिअनंतकाल्थी परिअमण करनार जीवोने जन्म-जरा-मरण-शोक-दुःख-दरिद्रता-दौर्भाग्य-आधि-व्याधि-उपाधि आदि अनेकविध दुःखदायि भवचक्रनी परंपरामां अनुकूल साधन-सामग्री-संयोगोथी भरपूर मानवजीवन मल्लुं ते अतीव दुर्लभ छे, छतां आ प्राप्त थयेल मनुष्यजीवनमां आर्यदेश-उत्तमकुल-उत्तमजाति-दीर्घआयुष्य-परिपूर्णशक्तिशालिपांचइन्द्रियो-देवगुरुधर्मनी जोगवाह-वीतरागवाणीनुं श्रवण-शासनमान्यश्रद्धा-श्रद्धानुसारपरिणति केळवीने प्रवृत्ति-निवृत्तिमय जीवन जीवुं ए विगेरे सर्वनी प्राप्ति थवामां तथाभव्यत्व-प्रबलपुरुषार्थ-प्रकृष्टपुण्यादि विगेरे अमोघ कारणो भाग भजवे छे, ए भूलवा जेवुं नथी.

मोक्षप्राप्तियो प्रकार—

शासनमान्य साधन-सामग्री-संयोगोथी भरपूर मानवजीवनने उजाळनाराओए समर्थ गीतार्थ ज्ञानीओना समागममां रहीने स्वयं ज्ञानी बनवुं अगर ते गीतार्थ भगवन्तोनी निश्रा स्वीकारीने हेय-उपादेय पदार्थोनो विवेक करीने अनुक्रमे निवृत्ति-प्रवृत्तिमय

જીવન જીવડું, કારણ કે-તેનું જીવન જીવ્યા વગર કોઈ પળ જીવ મોક્ષમાર્ગને અનુકૂલ કર્યાણ સાધી શક્યો નથી, અને સાધી શકશે જ નહિં. આ પ્રસંગને સ્પષ્ટ કરતાં શાસ્ત્રકારોએ જણાવ્યું છે કે “ પદમો ગીયસ્થો વીઓ ગીયત્થનિસ્સિઓ મળિઓ ” આ પદનો માર્વાર્થ એ છે કે-મોક્ષમાર્ગના અમિલાષિઓ માટે ત્રૈલોક્યનાથ મગવંતોએ ચાર ઘનઘાતી કર્મ તોડીને કેવલજ્ઞાન પામવાના, અને તે પછી સકલ કર્મના ક્ષયપૂર્વક મોક્ષ મેલવવાના વેજ માર્ગ કહેલા છે, ત્રીજા માર્ગની અનુજ્ઞા તે મગવંતોએ આપીજ નથી. તે વે માર્ગ કયા !, પ્રથમ માર્ગ ગીતાર્થનો, અને વીજો માર્ગ ગીતાર્થની નિશ્રાનો છે. આથી જેઓ મોક્ષે ગયા છે, જાય છે અને જશે તે વઘાઓએ ઉપરના વે માર્ગ સ્વીકારેલા છે, સ્વીકારે છે, અને સ્વીકારશે એ વીના નિઃસંદેહપણે સ્વીકાર્ય છે.

કર્યાણકારિ સમાગમ—

જૈનશાસનમાન્ય-મોક્ષતત્ત્વની પરિણતિપૂર્વકના તત્ત્વસંવેદનનું આસ્વાદન કરીને મોક્ષમાર્ગે ગયેલાઓની અને મોક્ષ સન્મુલ્ક થયેલાઓની પરંપરાનું વિવેકપૂર્વક અવલોકન કરીએ તો ઉપરની સ્પષ્ટ વાત નજર સન્મુલ્ક સ્વહી થાય છે. હન્દ્રમૂતિને પ્રમુ મહાવીરનો, નયસારને મુનિસમાગમનો, ઘનાસાર્થવાહને ધર્મબોધસૂરિજીનો, જમ્બૂસ્વામિને શ્રીસુધર્માસ્વામિનો, અને પંદરસો ત્રણ તાપસોને શ્રીહન્દ્રમૂતિનો સમાગમ થયો તે સમાગમની સાથે વીતરાગની વાળીનું શ્રવણ, શ્રદ્ધાપૂર્વકની પરિણતિ, અને વીર્યોછાસપૂર્વક સંયમનું સેવન થવાથી અનુક્રમે પામવા લાયકની અમોઘ ચીજ પામી ગયા છે; એમાં ચતુર્વિઘસંઘની કોઈપણ વ્યક્તિને આ નિઃશંક-સત્ય સમજાયા વગર રહેતુંજ નથી. જિનેશ્વરોનો, કેવલિઓનો, પૂર્વધરોનો, અને બહુશ્રુતધર-ગીતાર્થનો સમાગમ થવો એ એક અલૌકિક પુણ્યનો પ્રમાવ છે, તે પ્રવલ પુણ્યાવિપ્રમાવનાના જોરે સાધન-સામગ્રી-સંયોગ પામીને ઉત્કૃષ્ટ કોટિના પુણ્યના-સંવરના-નિર્જરાના માગી વચીને તેઓ સ્વજીવનને

અને તે પછી સમાગમમાં આવનારા અનેક જીવોને કલ્યાણમર્ગી પમાડવામાં પ્રબલ ઉદ્યમવન્ત થાય છે. પ્રસુ મહાવીરના કલ્યાણકારિ-સમાગમથી ઇન્દ્રમૂર્તિ અને સુધર્માનામના બ્રાહ્મણો શાસનના માલીક-સંચાલક બન્યા, પ્રસુ સુધર્માસ્વામિ ગણધરના કલ્યાણકારિ સમા-ગમથી શ્રીજન્મ્બૂસ્વામિ નવાણું ક્રોડ સૈન્યા-ઘાટ સ્ત્રીઓ છોડવાનું સામર્થ્ય કેળવીને શાસનમાં અન્તિમ કેવલી બન્યા; શાસનમાન્ય મહાપુરુષોના કલ્યાણકારિ સમાગમથી પ્રાદુર્ભાવ પામેલ શ્રુતગંગા-સરિતાઓ આજે પણ શાસનમાં ઠામઠામ અસ્વલિત્તપણે વહી રહી છે, કે જે સરિતાના સુધાસમ જલનું પાન કરીને પાપી આત્માઓ પોતાનાં પાપો સ્વપાવતા અઘ્યાપિ-પર્યંત પાવન થઈ રહ્યા છે, અને માવિમાં પણ જરૂર યોગ્ય આત્માઓ પાવન થશે એમાં લ્વલેશ શંકાને સ્થાન જ નથી.

**શ્રુતગંગાનું મૂલ—**

વર્તમાનશાસનમાં સઘઠીંપ શ્રુતસંપદાઓના પદ્મહૃદસમાન મૂલ તરીકે ત્રૈલોક્યનાથ ભગવન્ત શ્રીવીરવિમુ છે, અને શાસનસંચાલક-પંચમગણધર શ્રીસુધર્માસ્વામિજી છે; કારણ કે અર્થથી આદ્યદેશના દેનારા ભગવન્ત શ્રીમહાવીર મહારાજા છે, તે દેશનાને અનંતર શ્રીલનારા શ્રી સુધર્માસ્વામિજી છે, અને તે દેશનાને પરંપરાપ શ્રીલનારા શ્રી જન્મ્બૂસ્વામિજી વિગેરે છે. આથી જ અર્થથી-દુત્રથી આત્મા-ગમ-અનંતરાગમ-પરંપરાગમના મેદ સમજનારને સ્પષ્ટ માલમ પડે છે કે અર્થથી આત્માગમ શ્રીમહાવીર મહારાજાને છે, અને સૂત્રથી આત્માગમ પંચમગણધર શ્રી સુધર્માસ્વામિજીને છે.

આસન્નોપકારિ શ્રીમહાવીરમહારાજાના નિર્વાણસમયને ૨૪૭૯ લગભગ વર્ષો પસાર થઈ ગયા છતાં શાસન સ્થાપનાના અવસરે અર્થથી-સૂત્રથી આત્માગમોદિ મેદોને અનુસરીને અસ્વલિત પ્રવાહરૂપે પરંપરાગત તે તે સર્વજ્ઞમાણિત-અર્થોને અને ગણધરમાણિતસૂત્રોને



પ્રાપ્ત કરવાનું સુંદરતમ-સૌભાષણ પ્રાપ્ત કરનાર હોય તો વર્તમાનકાલીન શાસનમાન્ય-સૂત્ર અર્થ અને પરંપરાયે પ્રમાણમૂલ શ્લેનામ્બર-મન્દિરમાર્ગિય સંપ્રદાય હતો, છે, અને રહેશે.

ધર્મકથાનુયોગની વિશિષ્ટતા—

વર્તમાનમાં શ્રુતસંપદાઓને સાચવી રાલનારા અનેકવિધ ગ્રન્થોમાં અગીઆર અંગોનું પ્રધાનપણું અતીવ પ્રસિદ્ધ છે. તે અંગોનાં છઠ્ઠું અંગ “ શ્રીજ્ઞાતાધર્મકથાજ્ઞ ” નામે પ્રસિદ્ધ છે, અને સાથે સાથે શાસ્ત્રકારોએ ઠામ ઠામ જણાવેલું છે કે આ છઠ્ઠું અંગ સર્વેશ્વરપરક-યોગની ગરજ સારે છે. શાસનમાં પ્રવેશ કરનારાઓ માટે, પ્રવેશ કરેલાઓના વીર્યોહાસની વૃદ્ધિ માટે, અને શાસનાભિમુલ્ક બનાવવાના આશયથી અનેકાનેક મન્યાત્માઓ માટે આ છઠ્ઠું અંગ વધુ ને વધુ ઉપકારક થયેલ છે, થાય છે અને થશે તે નિઃસંદેહ વીના અર્થિઓએ સ્મૃતિપટ પર સ્થિર કરવા જેવી છે. સર્વજ્ઞકથિત સિદ્ધાન્તોમાં શું રહસ્ય છે !; તે તે સિદ્ધાન્તોનું પાલન કરનારાઓને કેવો લાભ થયો !; તેની વિરુદ્ધ વર્તનારાઓને કેવું નુકશાન થયું !; આપત્તિકાલમાં ધૈર્ય ગુમાવનારની શી હાલત થઈ !; અને વિદ્વોનો વિજય કરનાર કઈ રીતિએ આગલ વધ્યો !; વિગેરે વિગેરે ચરણકરણાનુયોગાદિના અનેકવિધ પ્રસંગોથી શ્રોતાના, વાંચકોના, તથા અધ્યાસકોના જીવનને નવપલ્લવિત બનાવનાર હોય તો આ ધર્મકથાનુયોગ સ્વરૂપ-શ્રીછઠ્ઠું અંગ શ્રીજ્ઞાતાસૂત્ર છે.

દ્વિતીયવિભાગની સામગ્રીઓ—

આ છઠ્ઠા અંગ-‘ શ્રી જ્ઞાતાધર્મકથાજ્ઞની પ્રથમ આદ્યત્તિ સ્વ. પૂજ્ય ગુરુદેવ આગમોદ્ધારકાર્યની પુનીત દૃષ્ટિથી ચહાર પહેલી હતી, પરન્તુ અનેક વાંચકોની માંગણીના સદ્ભાવમાં આ ગ્રન્થનું પુનઃ દ્વિતીય આદ્યત્તિરૂપે બે વિભાગમાં વહેંચીને પ્રકાશન કરેલ છે. આ અંગના

પ્રથમ શ્રુતસ્કંધના પ્રથમ અધ્યયનથી આઠ અધ્યયનો સંપૂર્ણ સાથે તેને અનુકૂલની પ્રસ્તાવના-પરિશિષ્ટો અને આઠ અધ્યયનોના સારાંશ - વિષયાનુક્રમયુક્ત-શ્રીસિદ્ધચક્રસાહિત્યપ્રચારકસમિતિએ ગત વર્ષમાં પ્રસિદ્ધ કર્યો છે, અને વાંચકો-વિચારકો-અભ્યાસકોની માંગણી બીજામાગની શરૂ થતાં આ બીજો ભાગ પણ તેજ સમિતિએ પ્રસિદ્ધ કર્યો છે.

આ બીજા ભાગમાં વાકી રહેલા પ્રથમ શ્રુતસ્કંધના નવમા અધ્યયનથી ઓગણીસમા અધ્યયન સુધીના નવે અધ્યયનોના મૂલસૂત્ર-વૃત્તિ સાથે અને ધર્મકથાબોધી भरपूर बीजा श्रुतस्कंध पैकी दश वर्गोंना सर्व अध्ययनोंना मूलसूत्रवृत्ति साथे आ द्वितीय विभाग संपूर्ण आय છે. સાથે સાથે આ બીજા વિભાગમાં આવેલ અધ્યયનોનો સારાંશ વાંચકોને અનુકૂલ પહે તે હેતુથી આપવામાં આવેલ છે.

**પ્રથમ વિભાગ સાથેનો સંબંધ—**

આ છઠ્ઠા અંગના પ્રથમ વિભાગમાં પ્રથમ શ્રુતસ્કંધના આઠ અધ્યયનો મૂલ સૂત્ર-વૃત્તિ-સારાંશ પરિશિષ્ટો આવેલાં છે, તે અવસરે વિસ્તૃત પ્રસ્તાવનાનું આલેક્ષન કરેલું છે. આ દ્વિતીય વિભાગની પ્રસ્તાવનાની સાથે પ્રથમ વિભાગની તે પ્રસ્તાવના સંબંધ રાખે છે, માટે વિવેકિ-વાંચકોને તે સ્થલે વાંચવા આગ્રહપૂર્વકની અત્ર મલામણ કરવામાં આવે છે; અને તેથી આ ચાલુ પ્રસ્તાવનામાં ઉપયોગિ પ્રકરણોનું આલેક્ષન કરીને પુનરાવર્તન કર્યું નથી. પ્રથમ વિભાગની પ્રસ્તાવનામાં આલેક્ષન કરેલા માનવજીવનની મહત્તા, શ્રવણની આવશ્યકતા, સમર્થ વક્તાનો યોગ, આદ્ય સદુપદેશક, આદ્ય સંચાલક-શ્રીસુઘર્માસ્વામિજીનું જીવન, અંતિમ કેવલિની જીવનવર્ચા, સૂત્રરચનાની મર્યાદા, શ્રુતસંપદાના માલીક, અંગોનો અનુસ્યૂત સંબંધ, આ ગ્રન્થનું નામ, આ ગ્રન્થના વૃત્તિકાર, અને ગ્રંથસામગ્રીના પ્રકારો વિગેરે પ્રકરણોને વાંચવાથી આ ગ્રન્થના રચયિતા સૂત્રકારની, સૂત્રોને અનંતર શ્રીલનારા શ્રીજમ્બૂસ્વામિજીની, અને વૃત્તિકારના વિશાલ-આશયોની સાથે

अतीव महत्त्वा स्पष्ट समझाशे ते ध्यानमां राखवा जेवुं छे.  
उपसंहार—

आ प्रस्तावचानी परिसमाप्ति साथे वांचकोए, विचारकोए अने अभ्यासकोए एक वात स्मृतिपट-पर स्थिर करवा जेवी छे, अने ते ए छे के स्याद्वाद-जैनदर्शने एकला ज्ञानने अपनाव्युं नथी, परंतु ज्ञानना अर्थिओ माटे ज्ञानाचारना आठे आचरोने अपनाव्या छे, अने तेनी किंमत पण एकसरखी आंकिली छे. शब्दशुद्धि, उच्चारशुद्धि, अर्थशुद्धि अने वांचनशुद्धिना नामे “ काले भणवुं, अकाले नहिं भणवुं, विनय-बहुमानपूर्वक भणवुं अने एक अक्षरना देनार गुरुओनो अपलाप पण न करवो ” ए विगोरे पांच आचार प्रत्ये बेदरकारी सेवनाराओ स्व-परहित साधी शक्या नथी, साधी शक्यता नथी ते निर्विवाद छे. आथी आठ आचारोना सेवन साथे आ ग्रन्थने भणशे-भणावशे ते आत्माओ उत्तरोत्तर सुन्दर साधन-सामग्री-संयोगो पासीने भाविमां कल्याण-मांगलिकमालाओ क्रमशः प्राप्त करीने अव्याबाध सुखना भोक्ता बनो, एज एक शुभेच्छा.

सावरकुण्डला ( सौराष्ट्र )  
सौभाग्यपंचमी वि. संवत् २००९  
ता. २३-१०-५२

लि० स्व० गुरुदेव प. पू. आगमोद्धारक—  
श्रीआनन्दसागरस्वामी-चरणारविन्दचञ्चरीकः—  
चन्द्रसागरस्वरिः ।

## श्रीज्ञाताधर्मकथाङ्गद्वितीयविभागे— प्रकाशिकानुं निवेदन.



नूतनवर्षमां प्रवेश—

प्रातःस्पर्णीय—पूज्यपाद—तपागच्छगानदिनमणि—श्रीदेवसुरसंघपरम्परासंरक्षक—श्रीसिद्धक्षेत्र—सूर्यपूरस्थितश्रीजैनागममन्दिरतीर्थ-  
संस्थापक, आगमोद्धारक, स्वर्गस्थ—श्रीआनन्दसागरद्वारीश्वरजीना हादिक आशीर्वादी अने तेओश्रीना परमविद्वद्दिनेय, श्रीसिद्ध-  
चक्राराधनतीर्थ—श्रीचन्द्रप्रभासपाटणतीर्थोद्धारक, श्रीसिद्धचक्र—नवपदाराधकसमाजसंस्थापक, वैयाकरणकेशरी, श्रीआनन्दबोधिनी वृत्तिकार,  
श्रीवर्द्धमानतपोमाहास्य अने विंशतिविशिका—पंचाशकशालसारांशादिविधिसामग्रीरूप साहित्यना आलेखनकार—पूज्यपाद—आचार्य-  
देवश्री—चन्द्रसागरद्वारिजीनी शासनसंरक्षक प्रेरणाथी अमारी समितिना मुखपत्र श्रीसिद्धचक्र मासिकनो प्रादुर्भाव थयो, अने  
आराधकोनी आराधना आराध्यपदने अनुसरवानी साथे अतीव उज्वल बने ते हेतुथी शासनमान्य साहित्यना प्रकाशनार्थे साथे साथे  
अमारी श्रीसिद्धचक्रसाहित्य—प्रचारक—समितिनो पण जन्म थयो. आ समितिनी अने आ मासिकनी सुन्दर कार्यवाहीओथी चतुर्विधसंघना  
आशीर्वाद साथे तन—मन—धननी अनेकविध सहायथी ते बन्ने ( समिति अने मासिक ) प्रफुल्ल बनीने ओगणीसमा नूतन वर्षमां  
प्रवेश करेल छे.

हार्दिक सन्मान—

विशेषमां हमारी समितिना मुखपत्र श्रीसिद्धचक्रमासिकमां मुख्यत्वे स्व० आगमोद्धारकनी अमोधदेशनादि विगरेनुं चांगन एक सरस्वी रीते मलवाथी अने पू० आचार्यदेवश्री-चन्द्रसागरस्वरिजीनी विवेकभरी नजर नीचे शासनमान्य अनेकवित्र साहित्य सामग्रीओनुं साथे साथे वांचकोने सुधास्वादन थनुं रहेवाथी वांचकोनी संख्यामां दिनप्रतिदिन बृद्धि थयां ज करे छे, अने प्रकाशनीने वेगवंता बनाववा माटे आर्थिकसहायकोनी हरिफाइ थइ रही छे; तेथी बन्नेनी (समितिनी अने मासिकनी) उच्चल कार्यवाहिओनी नोभनी अतीव आदरभर्यो सत्कार आपवा माटे शासनमान्य-चतुर्विधसंघनी व्यक्तिओने आदरपूर्वक हार्दिक सन्मानीये छीए.

ग्रन्थप्रसिद्धि अने उपसंहार—

“समितिनो अने मासिकनो जन्म, बन्नेनी प्रशंसनीय कार्यवाहि अने संचालननुं पुण्यकार्य” आ त्रणे प्रकरणो आ ग्रन्थना प्रथम विभागनी प्रस्तावनामां आपेलां छे, तेने वांचकोए पुनः पुनः विवेकपूर्वक विचारवानी जरूर छे, एम तेओने आग्रहपूर्वकनी गलागण छे, कारण के तेमां समितिना-मासिकना विशाल उद्देशो-हेतुओ स्पष्टपणे मालूम पडे छे, साथे साथे पुण्यबन्ध करवाना परमनिमित्तरूप संचालना सुन्दर कार्यनी रहारी जवाबदारीनुं अने ते बन्ने साथेना सेवाभावना सम्बन्धनुं ज्ञान वांचकोने स्पष्टरीतिए थइ शके छे.

आ द्वितीय विभागरूपे छहुं अंग श्रीज्ञाताधर्मकथाङ्ग नामे प्रकाशन थतो आ ग्रन्थ द्वितीय आवृत्तिरूपे प्रसिद्ध थाय छे, अने तेथी प्रथमावृत्तिना सम्बन्धमां विस्तृत आलेखन प्रथम विभागनी प्रस्तावनामां करेल छे, तेथी अत्र ते संबन्धना आलेखननुं पुनरावर्तन करवुं उचित नथी.

आ द्वितीय विभागना प्रकाशनार्थे पू० आचार्यदेव-श्रीचन्द्रशागरस्वरिजीना परमत्रिनेय पू० उपाध्याय श्रीदेवेन्द्रसागरजी गणिवरना सदुपदेशी अमदावाद शाहपुर-मंगल परिलेना खांचा विषे आवेल उपाश्रयना वहीवटदारोए रू० २५०) बसो ने पचास रूपीआ आपेल छे, ते सिवाय मददना अमावे पडतर किमतना भावे अमारी समिति तरफथी आ ग्रन्थ वांचको माटे अने अभ्यासीओ माटे प्रसिद्ध कराय छे.

आ ग्रन्थने प्रकाशक करवामां संपादननुं भगीरथ कार्य पू. आचार्यदेव श्री चन्द्रशागरस्वरिजीए कोरल होवाथी, प्रुफादि संशोधन अने सारांशनुं कार्य करनार पू. सुनिश्री चन्दनसागरजी म. ने, नियमित अवसरे प्रकाशन करवामां श्री महोदय प्री. प्रेस मालीकने अने प्रेस-माणसोने अत्र याद करीने वांचको-विचारको-अभ्यासको वांचवा पहेलां शुद्धिपत्रकथी शोधीने वांचे-विचारे-अभ्यास करे एज एक शुभेच्छा.

१२४ शेखमेसण स्ट्रीट,

मुंबई नं. २.

सौभाग्यपञ्चमी. २००९

निवेदक—

पानाचन्द रूपचन्द झंहेरी

श्रीसिद्धचक्र-मासिकना-तन्त्री अने श्रीसिद्धचक्रसाहित्यप्रचारकसमितिना प्रधान-संचालक.

## हमारा प्रकाशनो ।

१ श्रीहेमचन्द्रकृतिकुसुमावली.	१-८-०	— नूतन प्रकाशनो —	
२ श्रीवर्द्धमानतपोमाहात्म्य.	३-०-०	१२ श्रीआनंदचन्द्रसुधासिन्धु विभाग० ३	२-८-०
३ श्रीपंचप्रतिकमणस्त्राणि विधिसह (कमीशन वगर)	१-२-०	१३ श्री ज्ञातासूत्र भा. १-२ नो सारांश तथा	
४ श्रीपंचाशकशास्त्रसारांश-विभाग० १,	३-०-०	श्रीसूयङ्गसूत्र भा. १ नो सारांश.	२-८-०
५ श्रीआनंदचन्द्रसुधासिन्धु-विभाग० १,	४-०-०	— पत्राकार —	
६ श्रीआनंदचन्द्रसुधासिन्धु-	३-०-०	१४ श्रीज्ञाताधर्मकथाङ्ग सटीक भाग १, सारांशसह	८-०-०
७ श्रीभगवतीसूत्रनी शाल्मयस्तावनाथी शर	६-१२०	१५ श्रीज्ञाताधर्मकथाङ्ग " भाग २, "	७ ०-०
१०८ व्याख्यानो.	३-०-०	१६ श्रीसिरिवालचरितम्	३-०-०
८ श्रीभागमोक्षारक.	१ १२०	— व्याकरणानि —	
९ अतपोद्यापन.	०-५-०	१७ श्रीसिद्धहेमचन्द्र शब्दानुशासनम्	३०-०-०
१० श्रीप्रभासपाटणतीर्थमाहात्म्य.	१ ११ थी १८	( श्रीआनंदबोधिनी टीका ) भाग १,	९-०-०
११ श्रीसिद्धचक्रनी बांधेली फाईलो. वर्षे ११ थी १८	प्रत्येकना. ४-०-०	१८ श्रीसिद्धहेमचतुष्कवृत्तिस्यादिसमुच्चययुतम्	

प्राप्तिस्थान—श्रीसिद्धचक्र-साहित्य-प्रचारक-समिति  
C/o. संघवी चीमनलाल सवाईचंद, गलेमंदी गोलखेरी, सुरत ( गुजरात ). W. Ry.

श्रीशङ्खेश्वरपार्श्वनाथाय नमः ।

## ॥ श्रीज्ञाताधर्मकथाङ्गे द्वितीयविभागस्य सारांशः ॥

### १-श्रीमाकन्दीदारकाध्ययन-सारांशः ।

पूर्वे आठमा अध्ययनमा मायाशी अनर्थ कही गया, हवे आ नवमा अध्ययनमा भोगोशी पाछा नहि हठनारने थतो अनर्थ, अने भोगोशी पाछा हठनारने थतो लाम अत्र दर्शावाय छे.

हे जम्बू ! ते फाले अने ते समये चंपा नामनी नगरी हती. त्यां माकंदी नामनो सार्थवाह बसतो हतो, तेने भद्रा नामनी भार्या हती; अने तेने जिनपालित अने जिनरक्षित नामना बे पूत्रो हता. ते बन्ने पूत्रोए अन्योअन्य विचार करीने लवणसमुद्रना वाहणवटावाला धंधामाटे आपणे बारमी वखत पण जवुं तेवुं नकी कर्नु, अने मातापितानी रजा मागी. मातापिताए घणुं समजावुं पण मान्नुं नही, आशी अनिच्छाए मातापिताए रजा आपी; अने ते बन्ने गया. समुद्रमा घणे दूर गया पछी वावंटोलीआ विगेरेनो सखत उपद्रव थयो, अने वहाणो मांगी गया, अने घणा माणसो डूबी गया; तथा लवेला करीयाणां पण बर्धाए समुद्रने तळीए गयां. माकन्दीना ते बन्ने पुत्रोना हाथमां एक पाटीउं आवुं ते पाटीयानी सहायशी तरता तरता रत्नद्वीपे गया. रत्नद्वीपना पर्वतविषे शाक खाइने फलादिनी शोध करीने मेळवी-खाइने नालीयेरनां पाणीशी चुप्त थया, अने नालीयेरनुं तेल काढी अन्योअन्य मालीश करी वावोना पाणीशी स्नान करी स्वस्थ



थया- एक शिला पर बेसीने “ चंपानगरीमां मातापितानी पासे समुद्रनी मुसाफरीना वहेवार माटे जवानी मांगणी करवी, मातापितानुं निषेध करवुं, अने अति आग्रहथी रजा मेलववी, लवणसमुद्रमां उतरवुं, वावंटोलीयाना उपद्रवथी जानमालनी श्येली नुकशानी, तरतां तरतां अहि आववुं अने खोराकमां फलादिनुं खावुं विगरेने ” विचार करे छे—

ते समये आ रत्नद्वीपना मध्यभागमां रत्नद्वीप देवता नामे देवी वसे छे, ते अति पापीणी अने स्वभावे भयंकर छे. सदरहु देवी अवधिज्ञानथी आ माकन्दीना बन्ने पुत्रोने त्यां आवेला जोइने भयंकररूप विकुर्वीने त्यां आवीने कठोर वचनोथी ते बन्नेने कहेवा लागी के-हे बन्ने माकंदियदारको ! तमे म्हारी साथे विपुल भोगो भोगवता म्हारी पासे रहो, नहीं तो तमाहं मस्तक आ तलवारथी कापी नाखीश ! भय पामेला ते बन्ने श्रेष्ठीपुत्रोए कबुं के तमारी आज्ञा प्रमाणे हमे रहीशुं. आ कबुलत लइ ते देवी पोताना प्रासादे लइ गइ अने ते बन्नेनी साथे विपुल एवा भोगोने भोगवे छे, अने हमेशां ताजां मीठां फलो लवी-आपीने वृसि करावे छे.

एक समये शक्रेन्द्रना आदेशथी लवणाधिपति सुस्थित नामना देवे रत्नद्वीपनी ते देवीने आदेश कर्यो के “ त्हारे २१ एकवीशवार लवणसमुद्रविषे फरी-फरीने घास-पांदडां-लाकडां-कचरो अने अशुचि वगैरे जे कइ दुर्गन्धवाळुं होय ते चोकखुं करी देवुं ! ” आवा आदेशथी ते बन्ने श्रेष्ठीपुत्रोने ते देवीए कबुं के-हुं शक्रेन्द्रना हुकमथी समुद्रनी शुद्धि माटे जाउं छुं, तमे अत्र सुखे रहेशो. कदाच तमने न गमे तो तमे पूर्व-पश्चिम-उत्तर दिशाओनो वनखंड विषे फरवा जशो तो त्यां जुदी जुदी ऋतुओना फलो छे, तेनाथी वृसि करशो; अने मारी राह अत्रे जोशो. परन्तु दक्षिण दिशामां जशोज नहिं, कारण के त्यां एक भयंकर हस्त्रिविषसर्प रहे छे, ते तमारा शरीरनो नाश करशे. आ प्रमाणे व्रणवार सावचेती आपी ते देवी समुद्र तरफ गइ.

बन्ने श्रेष्ठिपुत्रो त्रणे वनखंडोमां फरे छे अने आनंद करे छे. एक समय त्यां त्रण दिशाना वनखंडोमां पण नहीं आनंद पामता तेमने दक्षिण दिशामां जवा नक्की कर्तुं, अने दक्षिणदिशामां केटलेक दूर गया पछी मरेला सर्प करतां पण वधु दुर्गन्ध आवतां पोताना वक्खवडे नाक बंध करीने आगळ चालवा मांड्युं, आगळ चालतां अनेक हाडकांथी व्यास एवा वधस्थानमां शूलीवडे मेदाएलो करुणस्वरने करतो एक पुरुष जोयो. उत्पन्न थयो छे भय जेने एवा ते बन्ने श्रेष्ठिपुत्रोए हकीकत पूछतां ते शूलीस्थित पुरुषे कब्हुं के-  
 “ हुं भारतवर्षनी काकंदीनो अश्ववणिक छुं. करीयाणा अने अश्वो वहाणोमां भरी लवणसमुद्र विषे धंधा अर्थे आवेलो, पण मार्गमां समुद्रना तोफानथी वहाणो डुबी गयां, अने हुं पाटीयाना आधारे अहीं आवी पहोंच्यो; अने पछी रत्नद्वीप देवता नामनी देवीना भोग-विलासमां सपडायो. घणो समय तेनी साथे भोगादिमां गयो, पण एक समये सामान्य अपराध आवतां आ अवस्था पास्यो छुं, माटे भाविमां तमारा शरीरोनुं कोण जाणे शुं थशे ! ” आ सांभलीने भयभीत थयेला बन्ने माइओए एना संकंजामांथी छूटवानो उपाय पूछ्यो. तेना जवाबमां ते शूलीथी मेदाएला पुरुषे कब्हुं के पूर्वदिशामां शैलक नामना यक्षनुं मन्दिर छे तेमां अश्वरूपने धारण करतो यक्ष वसे छे. ते शैलक यक्ष चौदश-आठम-अमावास्या-पूर्णिमाना दिने प्राप्त थयेला समये मोटा शब्दथी एवी रीते बोले छे के-कोने तारुं !; कोनुं रक्षण करुं !; त्यां तमे जाव अने तेनी सेवा करो अने ज्यारे ते बोले त्यारे जवाबमां कहेजो के हमने तारो ! हमारुं रक्षण करो ! रत्नद्वीप देवताना हाथमांथी हमोने तारो ! आ प्रमाणे ते पुरुषथी श्रवण करी शैलकयक्षना मन्दिरमां गया अने ते पुरुषना कब्हा मुजब सर्वे कर्तुं. शैलकयक्षे तेओनी मागणी कबुली अने कब्हुं के समुद्रमध्ये थइ जतां ते देवी प्रतिकूल-अनुकूल उपसर्गो करशे, तमे जरा पण क्षोभ पामशो नहीं, तेम चलायमान पण थशो तो हुं म्हारी पीठ परथी नीचे नाखी दइश ! आ वातने ते

बन्नेए कबूल करी, एटले अश्वरूप विकुर्वीने ते यक्षे पोतानी पीठ उपर बेसाब्बा अने आकाशमार्गे समुद्र पर थह चाल्यो. हवे ते रत्नद्वीप देवता पोतानुं कार्य संपूर्ण करी ज्यां पोताना प्रासादमां आवी त्यां तेओने देख्या नहीं, अने आजुवाजु तपासतां पण तेमने देख्या नहीं, एटले अवधिज्ञानथी उपयोग मूकतां दरीया पर थइने शैलक यक्षनी साथे जता ते बन्नेने जोया, अने तलवार हाथमां लइ तेमनी पासे आवी.

कइक कोमळ हृदयवाळा जिनरक्षितने जाणी अनेक प्रकारना अनुकूल उपसर्गो करवा लागी अने ज्यां जिनरक्षितनुं गन चलायमान थयुं एटले शैलकयक्षे तेने फेंकी दीधो. ते देवीए अनेक प्रकारे तिरस्कार करी तलवार वडे तेना दूकडे दूकडा करी नांख्या, अने चारे दिशाओने बळिदान अर्पण कर्युं.

अत्र शोचना—

एवी रीते हे श्रमणो ! जे हमारी पासे संयम ग्रहण करी पाछा मनुष्य सम्बन्धि भोगोमां आस्वाद करे छे यावत् तेनी अभिलाषा करे छे, ते आ भवमां घणा एवा साधु, साध्वी, श्रावक अने श्राविकाओने निंदवा लायक थाय छे; यावत् घणो संसार रखडे छे.

रत्नद्वीप देवता नामनी देवीए तेवार पछी जिनपालितने अनुकूल-प्रतिकूल घणा उपसर्गो करवा मांड्या, पण सर्व उपसर्गो सहन करी जिनपालिते निष्फल कर्या, तेना परिणामनुं नहिं चलितपणुं थवाथी थाकीने ते देवी चाली गइ. शैलकयक्षे निर्विघ्ने जिनपालितने चंपाना उद्यानमां लावी पोतानी पीठ परथी उताबो अने जिनपालितनी रजा लइ पोताना स्थाने चाल्यो गयो.

जिनपालित पोताना घेर आव्यो अने मातापिताने मली जिनरक्षितना मरणनी बात करी, सर्वे कुटुम्बे लौकिक कार्यो करी शोक

दूर कर्यो. एक समये मातापिताए जिनपालितने पूछुं के बिनरखितनुं मरण केवी रीते थ्युं ?, त्यारे ते बिनपालिते ठेठ सुधीनी वार्ता करी.

एक समये प्रसु श्रमण भगवान् महावीर त्यां पधार्या-समवसर्या तेमनी पासे बिनपालिते धर्म श्रवण करी संयमने ग्रहण कर्युं अने अगीथार अंग भण्यो; यावत् महीनानुं अनशन करी कालधर्म पसी सौधर्म देवलोकमां बे सागरोपमना आयुष्यवाळो देव थयो. हे जम्बू ! त्यांभी ते च्यवी महाविदेहक्षेत्रविषे मोक्ष पामशे.

योजना:—एवी रीते जे सासुओ मनुष्य सम्बन्धी भोगोनो त्याग करी तेनी वांछा आदि करता नथी ते बिनपालितनी माफक आ भवमां पण सुखी थाय छे, अने परभवमां मोक्षनां अनुपम सुखेने भोगवे छे.

इति नवम-अध्ययन सारांशः समाप्तः

### १० श्री चन्द्रज्ञाताध्ययनसारांशः

पूर्वना अध्ययनमां अविरतिने वरा थनारने थतो अनर्थ, अने वरा न थनारने थतो काम वर्णव्यो, आ दशमा अध्ययनमां प्रमादीने थती गुणनी हानी अने अप्रमादीने थती गुणनी वृद्धि वर्णवाय छे.

ए प्रमाणे निश्चये करीने हे जम्बू ! श्रमण भगवान् महावीर राजगृही नगरीमां समवसर्या हता, त्यारे श्री गौतमस्वामिए तेओश्रीने पूछुं के-हे भगवान् ! जीवो गुणनी हानि केवी रीते पामे छे, अने गुणनी वृद्धि केवी रीते पामे छे ?, आवा प्रकारना प्रश्नना जवाबमां प्रसु कहे छे के:—



રીતે ચન્દ્રમાનો વર્ણાદિ ગુણનો સમૂહ ઘટે છે, તેવી રીતે તે સાધુના ક્ષમાદિ દશ પ્રકારના ધાર્મિક ગુણો ઘટે છે.

પુણ્ણોવિ પદ્મદિગ્ં જહ હાયંતો સઘ્ઘા સસી નસે । તહ પુણ્ણવરિચાવિ હુ કુસીલસંમગ્ગિમાર્હિં ॥ ૩ ॥

માવાર્થ—પૂર્ણ એવો પળ ચન્દ્રમા વદ પક્ષમાં દિને દિને ઘટતો સર્વથા નષ્ટ થાય છે, તેવી રીતે પૂર્ણ એવા ચારિત્રવાલો પળ કુશીલોની સોબતથી સર્વથા નષ્ટ-ચારિત્રવાન્ થાય છે.

અણિયપમાઓ સાહ્ હાયંતો પદ્મદિગ્ં સ્ઘમાર્હિં । જાયહ નદ્ધચરિત્તો તત્તો દુક્કલાહં પાવેહ ॥ ૪ ॥

માવાર્થ—ઉત્પન્ન થયો છે પ્રમાદ જેને એવો સાધુ ક્ષમાદિ ગુણોથી હંમેશાં હીણ થતો નષ્ટ-ચારિત્રી થાય છે, અને દુઃખોને પામે છે.

હીણગુણાવિ હુ હોઝ સુહગુરુજોગાહજ્ઞિયસંવેગો । પુણ્ણસરૂવો જાયહ વિવહ્ઘુમાણો સમહોગેઘ્ઘ ॥ ૫ ॥

માવાર્થ—હીણ ગુણવાલો પળ ઉત્તમ ગુરુમહારાજથી ઉત્પન્ન થયેલો છે સંવેગ જેને તે વધતા એવા ચન્દ્રની જેમ પૂર્ણ સ્વરૂપ-વાલો થાય છે.

इति दशमाध्ययनस्य सारांश समाप्तः


૧૧—શ્રીદાવદ્રવ—અધ્યયન—સારાંશ:

આની પૂર્વના અધ્યયનમાં પ્રમાદિને ગુણહાનિ, અને અપ્રમાદિને ગુણની વૃદ્ધિ જણાવી છે; આ અધ્યયનમાં માર્ગની આરાધના, અને માર્ગની વિરાધનાથી ગુણની હાનિ-વૃદ્ધિ કહે છે.

જે જન્મુ ! તે કાલ અને સમયે રાજગૃહી નગરી વિષે ગોતમસ્વામિએ પ્રશ્ન કર્યો કે—હે પ્રસુ ! જીવો આરાધકો અને વિરાધકો કેવી રીતે થાય છે ?—

હે ગૌતમ ! ( ૧ ) જેવી રીતે સમુદ્રના એક કાંઠે દાવદ્રવ નામનાં વૃક્ષો થાય છે, તે વૃક્ષો પત્ર-પુષ્પો-ફલો આદિથી અલ્યન્ત શોભે છે. જ્યારે દ્વીપ સમન્વીના જુદી જુદી દિશાઓથી હલવા અને મહાવાયરા વાય છે, ત્યારે ઘળા એવા તે વૃક્ષો ફલાદિથી સુશોભિત થાય છે, અને તેમાંના કેટલાક વૃક્ષો સુકાહને મ્લન પામે છે; તેવી રીતે જે સાધુ અથવા સાધ્વી પ્રવજ્યા અંગીકાર કર્યે છે તે ઘળા એવા સ્વશાસનના સાધુ-સાધ્વીથી સહન કરે છે. અને અન્યતિર્થોઓથી તેમ ગૃહસ્થોથી સહન કરવાના અવસરે સહન નથી કરતા તે સાધુ-સાધ્વી દેશવિરાધક થાય છે. ( ૨ ) જેવી રીતે સમુદ્રના એક કાંઠે દાવદ્રવ નામના વૃક્ષો થાય છે તે પત્રાદિથી અતિશય શોભે છે પરન્તુ જ્યારે વાયરાથી ઘળા એવા જૂના સુકાહ ગયેલા વૃક્ષો મ્લન પામે છે, અને કેટલાક વૃક્ષો શોભાને પામે છે તેવી રીતે જે સાધુ અથવા સાધ્વી પ્રવજ્યા અંગીકાર કર્યે છે તે અન્યતિર્થોઓથી તેમ ગૃહસ્થોથી સમ્યક્ પ્રકારે સહન કરે છે, કિન્તુ-સાધુ-સાધ્વીથી સહન કરતા નથી તે દેશઆરાધક થાય છે. ( ૩ ) જેવી રીતે સમુદ્રના કિનારે સર્વ દાવદ્રવ નામના વૃક્ષો પત્રાદિ વહે શોભે છે પરન્તુ વાયરો વાયે સર્વે મ્લન પામે છે, તેવી રીતે જે સાધુ અથવા સાધ્વી, સાધુ-સાધ્વીઓથી તેમ અન્યતિર્થોઓ આદિથી સહન કરતો નથી તે સર્વવિરાધક થાય છે. ( ૪ ) જેવી રીતે સમુદ્રના કિનારે સર્વ દાવદ્રવ વૃક્ષો પત્રાદિવહે શોભે છે, અને જ્યારે વાયરા વાય છે ત્યારે પણ શોભે છે પરન્તુ મ્લની પામતા નથી તેવી રીતે જે સાધુ અથવા સાધ્વી પ્રવજ્યા અંગીકાર કર્યે છે તે સાધુ-સાધ્વીથી તેમ શ્રાવક શ્રાવિકા અને અન્યતિર્થોઓથી થતા પરિષ્હો સહન કરે છે તે સર્વઆરાધક થાય છે.

इति एकादश-अध्ययन-सारांश समाप्तः



## ૧૨--શ્રીઉદક-અધ્યયન-સારાંશ :

પૂર્વે અગીયારમા અધ્યયન વિષે ચારિત્ર ધર્મનું વિરાધકપણું અને આરાધકપણું કહ્યું, અહીં સ્વભાવે કરીને મલીન એવા મલ્ય-આસ્માઓનું સદ્ગુરુના સંસ્કારથી ચારિત્રનું આરાધકપણું થાય છે તે ઉદકના દ્રષ્ટાંતથી કહે છે.

હે જમ્બૂ ! તે કાલે અને તે સમયે ચંપાનગરીના પૂર્ણમદ્ર ચૈત્ય વિષે શ્રીવીરપ્રસુ સમવસર્યા, તે નગરી વિષે જિતશત્રૂ નામનો રાજા રાજ્ય કરે છે, અને તેને ધારિણી નામની રાણી તથા અદીનશત્રૂ નામનો યુવરાજ હતો; તથા શ્રમણોપાસક-સુબુદ્ધિ નામનો મુખ્ય પ્રધાન હતો. તે નગરીની બહાર હશાન દિશાએ એક સ્વાલ છે તે ઘણી ગન્ધાતી છે, તે જોહને ગૌતમસ્વામીએ પ્રસુને પ્રશ્ન કર્યો કે-હે પ્રસુ ! આ આજ રૂપે રહે ? પ્રસુએ કહ્યું કે-પ્ર અર્થમાં સમર્થતા નથી, એથી અતિઅનિષ્ટગન્ધવાળી પળ થાય, અને સુરમિ-ગન્ધવાળી પળ થાય.

એક સમયે જિતશત્રૂ રાજા ઘણા એવા ક્ષત્રિયો-શેઠીઆઓ સાથે સુંદર એવું મોજન કર્યા પછી તે મોજનથી આશ્ચર્ય પામેલા રાજાએ તે મોજનના ઘણા વસ્ત્રાણ કર્યા, અને ઘણા બીજાઓએ પણ વસ્ત્રાણ કર્યા; ત્યારે સુબુદ્ધિ મંત્રીને મૌન રહેલો જોહને બે ત્રણવાર રાજાએ પૂછ્યું. તે સમયે સુબુદ્ધિ મન્ત્રીએ કહ્યું કે-હે રાજન્ ! સારા લાગતા શઠના પુદ્ગલો સ્તરાબપણે પરિણમે છે, અને સ્તરાબ લાગતા શબ્દના પુદ્ગલો સારાપણે પરિણમે છે; સારા લાગતા રૂપવાળા પુદ્ગલો સ્તરાબ રૂપપણે પરિણમે છે, તેમ સ્તરાબ લાગતા રૂપવાળા પુદ્ગલો સારાપણે પરિણમે છે, તેમ સુગંધીદાર પુદ્ગલો દુર્ગન્ધી પુદ્ગલપણે પરિણમે છે, અને દુર્ગન્ધવાળા પુદ્ગલો સુગંધવાળા પુદ્ગલોપણે પરિણમે છે; તેવી રીતે રસ અને સ્પર્શના પુદ્ગલોમાં પણ થાય છે. આથી




आ आहारोमां आश्चर्ये शुं पामवानुं छे ! अर्थात् आधी मने आश्चर्य थतुं नथी. सुबुद्धि मंत्रीनी आवी वाणीने राजाए मौन रहिने स्वीकारी नही. एक समये जितशत्रू राजा घणा परिवार साथे घोडा उपर बेसी फरवा निकळ्यो, नगरनी ( खाळ ) खाइ आवतां तेनी दुर्गन्धथी राजाए पोतानुं नाक कपडाना छेडाथी ढांकी दीधुं, अने बीजी बाजु फरी गया. साथे बधाये कहेवा लाग्या के-मरेला सर्प करतां पण वधु खराब गन्ध आनी छे, तेवी रीते तेनुं रूप, स्पर्श अने रस पण निंदनीय छे. आ समये पण मौन रहेला सुबुद्धि मन्त्रीने राजाए पूछ्युं त्यारे तेणे पहेलानी जेमज जवाब आप्यो. आ वलते राजाए सुबुद्धि मंत्रीने कबुं के-हे सुबुद्धि ! आवी जुडी मिथ्याभिनवेश वातो न कर ! सुबुद्धि मन्त्रीने विचार थयो के-अहो ! आ जितशत्रू राजा-सत्य तथ्य-अवितथ-सद्भूत एवा जिनेश्वरे प्ररूपेल भावोने जाणतो नथी, माटे ते भावो जणाववा कांइक उपाय करुं !!! आ प्रमाणे इच्छीने विश्वासु माणसो द्वारा कुंभारनी दुकानेथी नवा घडा मंगाव्या अने संध्याकाळे मनुष्यनी अवरजवर बंध थये ते खाइ( खाळ )मांथी पाणी मंगान्युं; अने गळावी ते घडाळोमां भयुं. सात रात्रि सुधी तेने झरवा दीधुं अने भस्म-रक्षा विगोरे चूर्ण नांली फरी पण ते रीतिए नवा घडाळोमां भयुं, एम वारंवार सात वलत करतां ते पाणी स्वच्छ-स्फटिकरत्न जेनुं मनोहर अने स्वादिष्ट थयुं. आ पाणीने मन्त्रीए चाली जोइ खात्री करी, अने पाणीने सुगंधी करवावाळा द्रव्योथी ते पाणीने सुगंधीवाळुं कर्युं. जितशत्रू राजाना जलरक्षकने बोलावी भलामण करी के आ पाणी तुं भोजनवेळए राजाने आपले ! जितशत्रू राजाए भोजनवेळए आ पाणी पी ते पाणीनां घणां वलाण कर्या, अने आ पाणी क्या स्थानथी लाववामां आयुं छे, तेनी तपास करतां जलरक्षके सुबुद्धिमन्त्रीए आ पाणी आप्यानुं जाहेर कर्युं. राजाए सुबुद्धिमन्त्रीने बोलाव्यो अने कबुं के-हे मन्त्रीश्वर ! हुं तमने क्या कारणे अनिष्ट थयो लुं के-तमे हमेशां भोजनवेळए आ उदकरलने उपस्थित

करता नथी ! आ पाणी तसे क्यांथी प्राप्त कर्युं ! आ प्रश्नना जवाबमां मंत्रीए सर्व बीना कही. त्यारे ते वात पर विश्वास नहीं लावता राजाए पोताना अभ्यन्तर पुरुषने बोलावी मंत्रीना कह्या प्रमाणे पाणी लावी कह्या प्रमाणे करवा रूचव्युं. ते प्रमाणे तेणे तैयार करेला पाणीनो आस्वाद राजाए करी मन्त्रीना वचन उपर श्रद्धा करी, अने मन्त्रीने बोलावीने आ तसे क्यांथी शील्यया !, जाणुं ! तेवुं पूछ्युं. सुबुद्धि मन्त्रीए जिनवचनथी वस्तुना स्वभावो में जाणया छे तेवुं जणाव्युं. जितशत्रू राजाए जिनवचनो सांभळवानी इच्छा दर्शावाथी सुबुद्धि मन्त्रीए चार प्रकारनो धर्म जिनकथित कबो, तेम महाव्रतो-अणुव्रतो पण जणाव्या. जितशत्रू राजाए जिनधर्म प्रत्ये श्रद्धा प्राप्त थावाथी मन्त्री पासे पांच अणुव्रतो अने बार प्रकारनो श्रावकधर्म स्वीकार्यो.

एक समये पधारेला स्थविर मुनि महात्मा पासे धर्म श्रवण करी सुबुद्धि मन्त्रीने संयम ग्रहण करवानी इच्छा थइ, अने ते हकीकत राजाने जणावी. बन्नेए साथे दीक्षा लेवानुं नकी करीने ते पळी ते राजाए राज्यसुखो बार वर्ष सुधी भोगवीने अदीनकुमारने राज्याभिषेक करी मोटा महोत्सवपूर्वक राजाए मन्त्री साथे संयमने ग्रहण कर्युं यावत् अगीआर अंग भण्या-घणा वर्षो संयम पाली एक मासनी संलेखना करी बन्नेए सिद्धपद प्राप्त कर्युं, अर्थात्-भोक्षे गया.

उपसंहार-मिथ्यात्वथी मोहित मनवाला पापकार्योमां आसक्त अने गुण रहित एवावो पण उत्तम गुरूमहाराजना प्रसादथी-संसर्गथी दुर्गंधवाळी आ खालना पाणीनी जेम गुणवानो थाय छे.

इति द्वादश-उदकाध्ययन सारांशः



### १३-श्रीदर्दुर-अध्ययन सारांशः ।

पूर्वे कहेला अध्ययनमा-संसर्गविशेषथी गुणनो उत्कर्ष थाय छे ते कछुं. आ तेरमा अध्ययनमां संसर्गविशेषना अभावथी छता गुणोनुं ओछुं थहुं जणावे छे.

हे जबू ! ते काल अने समये राजग्रही नगरीमां गुणशैलैत्यविषे प्रभु महावीर समवसर्या हता, त्यारे सौधर्मकल्प नामना देवलोक विषे दर्दुरावतंसक नामना विमानमां सुधर्मा नामनी समा विषे दर्दुर नामना सिंहासनपर दर्दुर नामनो देव हतो. ते सूर्याभ-देवनी जेम लीला करतो हतो ( अत्र वर्णन रायपसेणीयमां जोवुं ), तेने विपुल एवा अवधिज्ञानवडे प्रभुने जोइ समवसरणमां आवी सूर्याभदेवनी जेम नाट्यविधि देखाडीने ते देव चाल्यो गयो. आ समये गौतमस्वामिए वंदन-नमस्कार करी प्रभुने पूछुं के-हे प्रभु ! आ मोटी ऋद्धिवाळा दर्दुर देवनी विर्कुवेली दिव्यसमृद्धि क्यां गह ! अने क्यां समाह गह ! प्रभुए श्री गौतमस्वामिना प्रश्नना उत्तरमां जण्णव्युं के-हे गौतम ! ते दिव्य समृद्धि तेना शरीरमां गह अने तेना शरीरमां समाणी, ते शिखरना आकारवाळा घरना हृष्टांतथी जाणवुं.

पुनः गौतमस्वामिए प्रभुने पूछुं के-हे प्रभु ! दर्दुर नामना ते देवे आवी देवऋद्धि शी रीते प्राप्त करी अर्थात् इयाथी मली ! इदुं देवना पूर्वभचनुं करेलुं वर्णन.

हे गौतम ! आ जंबूद्वीप नामना द्वीप विषे भरतक्षेत्रमां राजगृहीनगरी विषे नंद नामनो मणिआर श्रेष्ठी वसतो हतो. ते काल अने ते समये हे गौतम ! हुं समवसर्यो हतो, ते भवसरे श्रेणिक राजा वगेरे जनो पर्षदामां देशना श्रवण करवा आव्या. आ वात नंदमणिआरे सांमली अने तेने पण देशना श्रवण करी सम्यक्त्वसहित जिनधर्मनो स्वीकार कर्यो. हमे बीजे विहार करी गया पछी

સાધુના નહીં દેખવાથી સેવા રહિત અને શિક્ષામળના અભાવે તથા શ્રવણ ઇચ્છાનો અભાવ થતાં સમ્યગ્માર્ગથી સ્વસવા લાગ્યો અને મિથ્યામાર્ગમાં વશવા લાગ્યો. એક વસ્ત્ર ઉનાળામાં અટ્ટમના પચ્ચક્ષણ કરી પૌષ્ઠશાલામાં રહ્યો હતો, ત્યાં તરસ અને ખૂલથી પરામવ પામ્યો હતો ચિન્તવન કરવા લાગ્યો કે તે શેઠીઆણેને ધન્ય છે કે જેઓએ કૂવા-વાવડી-પુક્લરણી અને તલાવો-સરોવરો કરાવ્યા છે, અને તેમાં લોકો સ્નાન કરે છે, પાણી પીએ છે, હું પણ શ્રેણિકમહારાજાની પાસે જઈ અમચકુમારની રજા લઈ પુક્લરણી કરાવી કલ્યાણ કરું, સવારમાં પૌષ્ઠ પારી મોટું મેટણું લઈ શ્રેણિક રાજા પાસે ગયો અને મેટણું કરીને પુક્લરણી કરાવવાની આજ્ઞા માગી. શ્રેણિક મહારાજાએ તેને આજ્ઞા આપી પટલે તેણે પુક્લરણીને યોગ્ય જગા જોઈને તે લોદાવી, ( ચારે સૂણા સરસાવાળી વિશાલ વાવડીને પુક્લરણી કહે છે ) તે પુક્લરણી શુદ્ધ મિષ્ટજલ અને કમઝોથી શોભવા લાગી. તે વાવડીની ચારે દિશામાં વનસંહ કર્યા, તેમાં ( ૧ ) પૂર્વદિશાના વનસંહમાં એક મોટી ચિત્રસમા કરાવી, અને લોકને બેસવા યોગ્ય તેમાં આસનો કરાવ્યાં. ( ૨ ) દક્ષિણદિશાના વનસંહમાં અનેક શંખલાથી શોભતી મહાનશશાલા-રસોડા સહિતની દાનશાલા કરાવી, તે દાનશાલાને અનેક શ્રમણ-માહજો-અતિથિઓ વગેરે સેવે છે. અર્થાત્ ત્યાં આહારથી તૃપ્તિ મેલવે છે. ( ૩ ) પશ્ચિમદિશાના વનસંહમાં અનેક સ્તમ્ભોથી શોભિત તેમિચ્છિયશાલા-મોટું વૈદ્યોનું ઔષધાલય-અર્થાત્ દવાખાનું કરાવ્યું, તેમાં ઘણા વૈદ્યોનો દરદીઓ લાભ લે છે. ( ૪ ) ઉત્તરદિશાના વનસંહમાં-અલંકારસમા-હજામો વિગેરેની જોગવાઈ કરાવી છે, તેમાં શ્રમાદિ દૂર કરવા વિગેરેનો લાભ લોકો લે છે; અર્થાત્ રાજગૃહીની જનતા અને પરદેશની જનતા તેનો ઉપભોગ કરી આનન્દ માને છે, અને નંદમણીઆરનાં વલ્લાળ કરે છે; નંદમણીઆર પોતાનાં વલ્લાળ સાંમલી પોતાના આ કાર્યને પુણ્યકાર્ય માનવાનો સંતોષ લે છે.

एक समय ते नंदमणीयारश्रेष्ठिने शरीरमां सोल रोगो एक सामटा प्रगट थया, अनेक दवाओ करावी घणा उपायो कराव्या, पण एके रोगनुं शमन थयुं नहिं; अने आर्त्तरौद्रध्यान वश थयो शको नंदा पोक्खरणी पर मूर्छां करतो मरीने तेज वावडीमां देडकीना पेटे देडकापणे उत्पन्न थयो. जन्म पाया पछी यावत् मोटो थयो, ते पोक्खरणीनां अने नंदमणीयारनां वखाण त्यां आवेला जलार्थजो करे छे, ते सांभली उहापोह करतां ते देडकाने जातिस्मरणज्ञान प्राप्त थयुं आथी पोतानो पूर्वभव याद आन्वो, अने पोतानुं जैन धर्मनुं पालवुं, तेम संसर्गना अभावथी सिध्यात्वीओना परिणामो थवा, तेम ते पापयुक्त परिणामथी देडका तरीके जन्मवुं, विचारी घणो पश्चाताप कर्यो, अने पूर्वे स्वीकारेलां पांच अणुव्रतो अने सात शिक्षाव्रतो स्वीकारी अभिग्रह कर्यो के, ज्यांसुधी जीवुं त्यांसुधी छठना पञ्चक्खाणमां रहेवुं अने पारणे फासु जल पीवुं, अने मनुष्योए उतारेला मेलवडे आजीविका निभाववी, आ रीते (देडकना भवमां) जीवन चलाववा लाग्यो.

ते काल अने ते समये हे गौतम ! हुं राजगृही नगरीना गुणशैलचैत्य विषे समोसय्यो, पर्वदा थई. आ वार्तालाप ते वावडी पर बेठेला लोको अन्योअन्य करवा लाग्या. आ वार्तालापने ते देडकाए सांभल्यो, आथी अहि आववा ते वावडीथी बहार निकली उतावलो उतावलो आवी रह्यो हतो; तेवामां श्रेणिक राजा चतुरंगी सेना सहित म्हारी पासे आवतो हतो, तेमां तेमना घोडाना पग नीचे ते आवी गयो, आथी निर्बल बनेलो ते देडको एक बाजु खसी जई कायाने बोसरावी, आराधना करतो शुभ ध्याने काल करी सौधर्म नामना देवलोकविषे दंडुर नामना विमानमां दंडुर नामनो देव थयो. देव थयेला तेने अवधिज्ञानथी उपयोग मूकी अहि आवी ऋद्धि विकुर्वी हती, त्यांथी ते च्यवीने महाविदेह क्षेत्रमां मोक्षने पामरो.

उपसंहार—नंदमणिधारिणी जेम संपूर्ण गुणवालो पण आत्मा उत्तम गुरु महाराजना संसर्गशी रहित थाय तो प्राये गुणनी हानि पामे छे माटे उत्तम गुरुना संसर्गमां सर्वदा रहवुं.

इति १३-श्रीदंडुर-अध्ययनस्य सारांशः समाप्तः ॥

### १४-श्रीतेतलिपुत्र-अध्ययन-सारांशः ।

तेरमा अध्ययनमां सामग्रीना अभावे छत्ता गुणोनी हानि जणावी, आ चौदमा अध्ययनमां तथा प्रकारनी सारी सामग्रीनो योग थाय तो गुणोनी वृद्धि थाय छे ते जणावशे.

हे जबू ! ते काल अने ते समये तेयलिपुर नामतुं नगर हतुं, त्यां प्रमद नामतुं उद्यान हतुं, त्यां कनकरथ नामनो राजा राज्य करतो हतो, तेने पद्मावती नामनी राणी हती अने तेतलिपुत्र नामनो प्रधान हतो; अने त्यां मृषिकादारक नामनो सोनी हतो. ते सोनीने मद्रा नामनी स्त्री हती अने पोड्डिला नामनी पुत्री हती. एक समये तेतलिपुत्र आमात्य केटलाक परिवार साथे फरवा निकळ्यो हतो, तेने एक मकानमां सोनाना दडाए रमती पोड्डिलेने जोई, तेना उपर आसकि थई. आथी स्थाने आवी तपास करी तो ते महेल जेवुं मकान सोनीनुं हतुं, अने ते बालिका सोनीनी छे तेम जाणुं. अमात्ये पोताना विश्वासु माणसो द्वाराए मुषिकादारक सोनीने कहाव्युं के तारी पुत्री पोड्डिला साथे आमात्यने परणवा इच्छा छे. आवनार माणसोने सोनीए कब्जुं के मारी पुत्रीने तेओ बरे तो तमारो उपकार मानीश. एम कही तेओनो सत्कार कर्यो; घणी धामधूमपूर्वक तेतलिपुत्र आमात्य ते पोड्डिला साथे परण्यो, अने तेनी

साथे आनन्दपूर्वक दिवसों गमन करे छे.

रुनकरथ राजा राज्यपर-राष्ट्रपर-भंडारपर अने अन्तेपुरी उपर खुब आसक्तिवाळो थयो तेथी जे कोई पोताने त्यां पुत्रादि थाय छे तेन कोइनी हाथनी आंगळीओ, तो कोइनो अंगुठो, तो कोइनी पगनी आंगळीओ, तो कोइनो अंगुठो, तो कोइनुं नाक, तो कोइना कान; एम अंगोपांग छेदावे छे, अने सराब अंग वाळा-खोडवाला करी दे छे; एटले राज्य भोगववा माटे अयोग्य करी दे छे, तेनी पद्मावती राणीए एक वलत प्रधान तेतल्लिने बोलाव्यो अने राज्यने योग्य एक पुत्र रहे माटे तमे आ वलते गुप्त राखी उछेरवानुं कबुल करे तो आ वलते जे पुत्र जन्मे ते तमने गुप्त रीते आपी दउ, मधाने आ वात कबुल करी. समय प्राप्त थये छते पद्मावती राणीए पुत्ररत्नने जन्म आय्यो, पुत्रना जन्मतानी साथे तेतलिपुत्र आमात्यने गुप्त रीते बोलावी अर्पण कर्यो. देवयोगे ते समये आमात्यपत्नी पोडिलाने मरेली पुत्री जन्मी ते पुत्री राणीने गुप्त रीते अर्पण करी, राजाए मरेली पुत्रीनी मरणक्रिया तमाम करावी, पोडिलाए ते बालकने मोटो कर्बो अने कुटुम्बिजनो समक्ष कनकध्वज नाम पाड्युं.

पोडिलानी दीक्षा --

केटलोक समय गया पछी पोडिला तेतलिपुत्र आमात्यने अनिष्ट थई, आथी उद्देग पामेली पोडिला घणा एवा श्रमण-माहण-मिथुकाने दान आपती-अपावती जीवन निभावी रही छे. एक समये घणा परिवार साथे मुख्य सुव्रता नामनी साध्वी ते नगरमां आवी छे, तेमांथी बे साध्वीओ तेतलिपुत्र प्रधानना महेले भिक्षा-गोचरी अर्थे पधारतां पोडिलाए उभा थइ सन्मान कर्नु, अने आहारादि बहोरानी कहेवा लगी के हे पूज्य साध्वी महाराज ! हुं पहेलां प्रधानने इष्ट हती, हमणां अनिष्ट थइ छुं, तो तमो चूर्ण-

मन्त्र-तन्त्र-वशीकरण-वगैरेमांथी कंहक आपो, जेथी हुं तेमने इष्ट थऊं ! आना जवाबमां साध्वीजीए जणाछुं के हसे ब्रह्मचारिणीओ छीए ! हमोने आबी बातो श्रवण करवी पण कल्पती नथी. आम कही जिनधर्म तेने जणाब्यो-उपदेस्यो. पोहिलने जिनधर्मप्रत्ये श्रद्धा थइ अने तेमनी पासेथी पञ्चअणुत्रतो आदि गृहस्थधर्म स्वीकार्यो यावत् ते श्राविका थइ.

एक वस्तत मध्यरात्रिए पोहिलने संयम लैवाना परिणाम थया, आथी पोताना पति तेतलिपुत्रने पोताना संयमनो भाव कह्यो. तेतलिपुत्र प्रधाने हुं देवलोकमां जा, त्यारे त्हारे मने प्रतिबोध करवो. आबी कबूलत हुं आपे तो हुं तने रजा आपुं, पोहिलाए आना जवाबमां स्वपतिनी आ मांगणीनो स्वीकार कयो. तेतलिपुत्र प्रधाने आडम्बरपूर्वक सुव्रता साध्वीजी पासे दीक्षा अपावी. सुव्रता पासे पोहिला अगीधार अंग अणी, घणा वर्ष संयम पाली, महीनानुं अनशन करी, आलोचन प्रतिक्रमण करी, समाधिपूर्वक आराधना करी अने काल करी देवलोकमां देवी थइ.

कनकध्वजनी राज्याभिषेक अने तेतलिप्रधानने प्रतिबोध—

कनकथ राजा मरण पाग्या त्यारे तेओनी मरणक्रिया कर्या पछी अन्योअन्य विचारवा लग्या के अंगोए करी हीण राजाना पुत्रो छे माटे राजसिंहासन पर क्रोने बेसाडबो ? छेवटे तेतलिपुत्र मन्त्रीने पुछुं त्यारे मन्त्रीए पद्मावती राणीना एक कनकध्वज नामना पुत्रने पोते सुसरीते केवी रीते मोटो कयो विगैरेनुं आसूल वर्णन कर्नु, अने सर्व रीते योग्य एवा ते कनकध्वजकुमारनो राज्याभिषेक सर्वेए मली कयो. पद्मावती माताए पुत्रने तेतलिपुत्र मन्त्रीना उपकारो जणावी सर्वे भलमणो करी. कनकध्वजराजा तेतलिमन्त्रीनुं सर्व रीते विशेषे करी सन्मान करे छे.



पोद्दिलदेवी तेतल्लिने वारंवार जैनधर्मनो बोध करे छे, परन्तु तेतल्लिने प्रतिबोध थतो नथी. आथी देवीने विचार थयो के ज्यांसुधी वृपत्तिनो आदर छे त्यांसुधी वारंवार मारो करतो प्रतिबोध फलीभूत थतो नथी, माटे अनादर प्राप्त थाय तेम करं तेवो विचार करी अनादर उत्पन्न कर्यो.


त्यारवाद तेतल्लिमन्त्री ज्यां राजसभामां गयो त्यां तो राजापू ते महामन्त्री तेतल्लिने जोइने पोते पराङ्गमुख कर्नुं, अने मौन रही मन्त्रीनो अनादर कर्यो. आथी तेतल्लिपुत्र महामन्त्रीने विचार थयो के अप्रीतिवाळो आ राजा मने मारी नंखावशे माटे चाख्या जवुं श्रेय छे, आम धारी मन्त्री घोडा उपर बेसी घर तरफ चाख्यो. मार्गमां आवता शेठीआ वगेरे उभा थइने जे मान आपवुं जोइए ते आपता नथी, तेम हाथ पण जोडता नथी. घरे पण बाह्यपर्वदाना माणसो पण आदर आपता नथी; तेम नोकर-चाकरो अनादर करे छे. पिता-माता वगेरे पण आदर कर्ता नथी. आ प्रकारना असब अनादरथी आपघात करवा माटे मुखमां तालपुट-विष नाखुं पण ते परिणस्युं नहिं, तलवारथी पोतानी खांधे वा कर्यो तो तलवार ज बुठी थइ गइ, गले फांसो खांध्यो तो दोरडुं-रसी ज वृटी गइ. आम मरवा माटे घणा उपायो कर्या पण तेना सर्वे उपायो निष्फल गया त्यारे जिनधर्म प्रत्ये श्रद्धा लाववा लाग्यो. पोद्दिलदेवी तेतल्लिपुत्रमहामन्त्रीने जिनधर्म प्रत्ये स्थिर करी हितशिक्षा आपी स्वस्थाने चाली गइ.

तेतल्लिपुत्रने शुभ अध्यवसायथी जातिस्मरणज्ञान उत्पन्न थयुं. आथी पोताना पूर्वभवो जोया तेमां जोयुं केहुं महाविदेहक्षेत्रमां पोक्खला-वतीविजयविषे पुंडरीगिणी राजधानीमां महापद्म नामनो राजा हतो. त्यां स्थविरमुनिओ पासेथी धर्म श्रवण करी दीक्षा में लीधी हती. चौदपूर्वी थयो हतो. घणा वर्षो संथम पाली मासनी संखेखनापूर्वक काल करी महाशुक्र नामना देवलोकमां देव थयो हतो. त्यांथी

च्यवनि हुं आ तेतलि प्रधाने त्यां पुत्रपणे जन्यो कुं. अपूर्वं वैरायथी स्वयमेव पञ्चमहाव्रतो उच्चरी संयमग्रहण कर्तुं यावत् पूर्वं  
अभ्यास करेला चौदे पूर्वोत्तुं ज्ञान पण स्वाभाविक ज थुं. शुभ परिणामनी वधती धाराए केवलज्ञान पाम्या. आकाशमां देवदुन्दभिवो  
वागवा लागी पंच वर्णना पुष्पोनी वृष्टि थइ, कनकवज राजा आ श्रवण करी त्यां आव्यो अने तेमनो उपदेश श्रवण करी श्रावक  
थयो तेम पांच अणुव्रतो, सात शिक्षाव्रतोने ग्रहण कर्यां. तेतलिपुत्र केवलपणमां घणा वर्षं केवलपिर्याय पाली यावत् मोक्षे सिधाव्या.

उपनय—ज्यांसुधी जीवो अति दुःखने के मानअंशने प्राप्त करता नथी त्यांसुधी तेतलिपुत्रनी जेम प्राये भावथी धर्मग्रहण  
करता नथी.

इति चतुर्दश-अध्ययन-सारांशः समाप्तः ॥



॥ १५—श्रीनन्दीफल-अध्ययनसारांशः ॥

चौदमा अध्ययनमां अपमानथी विषयोने त्याग प्रतिपादन कर्यो, आ पंदरमा अध्ययनमां जिनेश्वर प्रभुना उपदेशथी विषयोने  
त्याग प्रतिपादन कराशे, एटले सर्वज्ञकथित उपदेश प्रमाणे बर्ते तो अर्थनी प्राप्ति थाय अने न बर्ते तो अनर्थनी प्राप्ति थाय  
ते अत्र कहेवारी.

हे जम्बू ! ते काल अने ते समये चंपा नामनी नगरी हती, त्यां पूर्णभद्रयक्षतुं चैत्य छे. अत्र चित्तशत्रू नामनो राजा छे, अने  
धनाढ्य धन नामनो सार्थवाह हतो. चंपानगरीनी पूर्वोत्तरदिशामां घणे दूर अहिछत्रा नामनी नगरी हती, त्यां कनककेतु नामनो

आ बात मारी देराणीओ जो जाणशे तो मारी निन्दा करशे माटे ते न जाणे तेम ते शाकने संताडी दउं एम विचारी ते शाकने संताडी दइ नहुं मधुरतुम्बडाउं स्वादिष्ट शाक तेणीए तैवार कर्युं, ज्यारे ते त्रणे ब्राह्मणे आव्या त्यारे तेमने स्वादिष्ट शाक विगेरेथी भोजन कराव्युं तेओ त्रणे जणा भोजन करी मुखशुद्धि करी पोताना कामे लाग्या, त्यारबाद त्रणे ब्राह्मणीओए पण स्वादिष्ट शाक सहित भोजन कर्युं अने पोताना स्थाने गइ.

नागश्रीए वहोरावेळुं कडवा-तुम्बडांनुं शाक.

ते समये धर्मघोष नामना स्थविरमुनि घणा परिवारयुक्त विहार कर्ता चम्पानगरीना सुभूमिभाग नामना उद्यानमां पधार्या छे, तेमने वंदन करवा माटे घणा लोको आव्या अने पर्षदा थइ. स्थविरमुनिए धर्म कब्यो ते श्रवण करी सर्वे गया.

ते वार पछी धर्मघोषस्थविरना शिष्य तेजोलेश्यानी लब्धवाळा धर्मरुचि नामना अनगारमुनि मास मासनो तप करनारा हता ते श्रीगौतमस्वामिनी माफक पात्रपडिलेहण करी धर्मघोषस्थविरनी आज्ञा लइ भिक्षा माटे चम्पानगरीमां फरता फरता ज्यां नागश्री ब्राह्मणीनुं घर हतुं त्यां प्रवेश्या, ते नागश्री ब्राह्मणीए विषवाळा कडवा तुम्बडांनुं जे शाक गुप्त राखेळं ते बधुंए खुब हर्षपूर्वक साधुना पात्रमां नाखी दीधुं. धर्मरुचि अनगार पण पोताना पुरतो आहार थइ गयो जाणी त्यांथी नीकली गुरुमहाराज पासे पाळा गया अने इयावही प्रतिक्रमी गुरुमहाराजने गोचरी बतावी. गुरुमहाराजे गन्धथी शंकित थया छता ते शाकना एक बिन्दुने चाखी जोडुं, तो ते शाक विषवाळुं जाणी धर्मरुचि अनगारने कहेवा लाग्या के-हे महानुभाव ! आ शाक तुं जो वापरीश तो अकाले सृशु पामीश, माटे शुद्ध भूमि विषे परठवी छो ! अने बीजो आहार लावी आहार करो !

धर्मरुचि अनगारे करेछुं अनशन.

गुरु-आज्ञाथी शुद्ध भूमिनी तपास करी परठवतां, एक बिन्दु भूमिपर नाखतां तेनी गन्धथी हजारो कीडीओ भेगी थह, तेमांथी जे कीडीए तेनो आहार कर्यो ते तूरतज स्यु पामी. आथी धर्मरुचि अनगारेने अधवसाय थयो के-आ बिन्दु नाखतां हजारो कीडीओ मरणने पामी छे, जो आ बधुंये शाक परठवीश तो घणा जीवोनो नाश थरो, अने तेनो वध करनारो हुं थइश. माटे आ सर्वे आहारने हुं खाइ जउं ते कल्याणकारी छे, एवो निश्चय करी सुहपत्तिनुं पडिलेहण करी, आखा शरीरनुं प्रमार्जन करी बीलमां सर्प प्रवेशे तेनी जेम मुखमां आहारनो प्रवेश करान्यो अर्थात् उदरमां नाखी दीछुं. एक अन्तर्मुहूर्तमां आखा शरीरमां विष व्यापी गयुं अने असन्न वेदना थह, आथी स्यु नजदीक छे एम धारी पात्रां एक जगोए स्थापन करी, शुद्ध भूमिनुं पडिलेहण करी, दर्भनो संथारो करी, पूर्वसन्मुख मुख राखी, पर्यंक आसने बेसी, बे हाथ जोडी, मस्तके अंजलि जोडी,-अरिहंत, सिद्धने नमस्कार करी-गुरुने नमस्कार करी फरीथी करोमिभतेनुं पञ्चक्लाण उच्चरी देहने वोसरान्यो अने समाधिपूर्वक कालधर्म पाम्या.

नागश्रीनो थयेलो तिरस्कार—

धर्मदोषस्थविरे धर्मरुचि अनगारेने परठवा गये घणो टाइम थयो छे तेम जाणी साधुओने चारे दिशाए तपास करवा मोकल्या, ते साधु भगवन्तो तपास करतां स्थंडिलभूमिविषे तेमने कालधर्म पामेला जोइ आ अकार्य थयुं छे, तेम करी धर्मरुचि अनगारना कालधर्मनो काउस्सग कर्यो. अने तेमना पात्रां आदि लेइ गुरुमहाराज पासे जइ, इरियावही प्रतिक्रमण करी धर्मरुचि अनगारना कालधर्म पाम्याना समाचार जणाव्या.

धर्मघोषस्थविरे पूर्वमां—(चौदपूर्वमांना कोइ पूर्वमां) उपयोग मेली साधु-साध्वीओने बोलावीने कहुं के-हे आर्यो ! मारो शिष्य धर्मरुचि नामनो साधु-स्वभावथी मद्रक, यावत् विनीत हतो तेम निरंतर मासक्षण तप करतो हतो, ते नागश्री ब्राह्मणीने घेर पारण माटे वहेरवा गयो हतो, नागश्रीब्राह्मणीए तेना पात्रमां कडवीतुम्बडीनुं सर्व शाक नांख्युं.

धर्मरुचि अणगार पूरतो आहार आवी गयो तेम करी अत्र आव्यो यावत् घणा वर्षे साधुपणुं पाली आलोचना प्रतिक्रमण करी समाधिपूर्वक काळ करी तेनीश सागरोपमनी स्थितिवाळा सर्वार्थसिद्ध नामना विमानमां उत्कृष्टस्थितिए देवपणे उत्पन्न थयो छे त्यांथी स्वबीने महाविदेहक्षेत्रमां उत्पन्न थइ मोक्षे जदो. हे आर्यो ! नागश्री ब्राह्मणीने धिक्कार छे, ते निर्मागी पुण्यहीन यावत् लींबोडीना जेवी कडवी छे, कारण के तेणीए धर्मरुचि अणगारने मासक्षणना पारणे कडवा तुम्बडानुं शाक वहेरवावी जीवित रहित कर्यो.

ते वार पछी साधु-साध्वीओए नागश्रीब्राह्मणीनुं आ पापकर्म लोकोने कहुं, आ सांभळी लोको नागश्रीने धिक्कारवा लाग्या, लोको पासेथी ते न्गणे ब्राह्मण भाइओ सांभळीने घेर आवी नागश्रीने कहेवा लाग्या, हे नागश्री ! मरणनी प्रार्थना करनारी ! दुष्ट अने अशुभ लक्षणवाळी ! हीन कृष्ण चौदरो जन्मेली तें मासक्षण करता साधुने आवी रीते मरण पमाड्या !! आम अनेक प्रकारे वचनथी अने चपेटा आदिथी ताडन करी-तिरस्कार करी घरमांथी काढी मूकी, काढी मेलयेली चंपानगरीमां घेर घेर भटकती लोकोए घरना आंगणे मूकेल बळीने खाती, अने अनेक रीते लोकोना तिरस्कारने पामती, भटकती एवी तेणीने-नागश्रीने सोल रोग उत्पन्न थया. भवोभव अनेक असह्य दुःखोने भोगवती नागश्री.

ते सोल रोगोना एकी साथे दुःखो भोगवती आर्त्त-रोद्र ध्यान धरती मरण पामिने छट्टी नारकीमां बावीससागरोपमनी उत्कृष्ट

स्थितिए नारकीपणे उत्पन्न थइ, त्यांथी नीकळीने मत्स्यपणे उत्पन्न थई. त्यां शकवळे वध पामेली सातमी नारकीमां उत्पन्न थइ, त्यांथी नीकळीने पाछी मत्स्यपणे उत्पन्न थई फरीथी पण त्यां तेवां दुःखो भोगवी छ्ठी नारकीमां उत्पन्न थइ. एम गोशालानी जेम वारंवार साते नारकमां नारकीनां दुःखो भोगवी पक्षी; पृच्छीकाय आदि एकेन्द्रियना भवमां उत्पन्न थइ यावत् घणां दुःखो भोगव्यां. नागश्रीनो सुकुमालिका तरीके थयेल जन्म.

त्यांथी उद्धरीने ते नागश्री जम्बूद्वीपना भरतक्षेत्रमां चम्पानामनी नगरीमां सागरदत्त नामना सार्थवाहनी भद्रा नामनी भार्यानी कुक्षिविषे पुत्रीपणे उत्पन्न थइ अने तेतुं सुकुमालिका एतुं नाम पाड्युं. पांच धावमाताओथी लालनपालन कराती ते यावत् यौवन अवस्थाने पामेली एक समये पोताना महेळनी अगासी विषे सुवर्णना दडाने रमी रही हती, ते समये तेज चम्पानगरीनो धनाढ्य-बिनदत्त नामनो सार्थवाह केटलाक मित्रो सह सागरदत्त सार्थवाहना घर नजदीक थइ जतो हतो तेने ते रूप लावण्यभरी सुकुमालिकाने दासीओथी परिवरेली जोइ, तेतुं रूप-लावण्य-यौवन जोइ आश्चर्य पामेल विणदत्त सार्थवाहे कौटुम्बिक पुरुषोने बोलावी पृछ्युं के-आ कोनी पुत्री छे ! अने तेतुं नाम शुं छे ! कौटुम्बिक पुरुषोए जवाबमां जणाव्युं के-आ सागरदत्त सार्थवाहनी सुकुमालिका नामनी कन्या छे. कौटुम्बिक पुरुषो पामेथी आ प्रमाणे श्रवण करी, पोताने घेर जइ, स्नान करी, मित्र ज्ञातिबनो सहित सागरदत्त सार्थवाहने घेर गयो. बिनदत्त सार्थवाहने पोताने घेर आवता जोइ सागरदत्त सार्थवाहे आसनथी उठी बिनदत्त सार्थवाहने बेसाब्बा अने आववानुं प्रयोजन पृछ्युं. बिनदत्त सार्थवाहे जणाव्युं के-तमारी सुकुमालिका पुत्रीने मारा सागरदत्त नामना पुत्रनी भार्यापणे मागणी करं छुं. सागरदत्त सार्थवाह कहेवा लाग्या के-आ मारी सुकुमालिका पुत्री म्हारे एकज

सुखी छे तेम मने वहु गहासी छे. हुं तेनो क्षणभर वियोग इच्छतो नथी माटे जो तमारो पुत्र सागर म्हारा घरजमाइ तरीके रहे तो हुं न्यारी हुबी तेन अपुं. बिनदत्त सार्थवाह धेर गया अने पोताना सागर पुत्रने हकीकत जणावी, ते हकीकत श्रवण करी ' सागर ' भोज लयो. आथी बिनदत्त सार्थवाहे तेनी संभति जाणी, अर्थात् ऋबुलत करे छे तेम निर्णय कर्यो. शुभ मुहूर्त आवुं त्यारे स्वादिष्ट भोजन तैवार करावी ज्ञातिजनने आमन्त्रण करी जमाडी सागरपुत्रने स्नान आदि करावीने आभूषणादिथी शणगारी शिविकामां नैसाथी सर्वज्ञातिजनोसह आडम्बरपूर्वक सागरदत्त सार्थवाहने त्यां गया. सागरदत्त सार्थवाहे तेओनुं यथायोग्य सन्मान कर्नु, सुकुमालिकाने परपासां ( हस्तमेल्यपना समये ) सुकुमालिकाना हस्तनो स्पर्श तलवारनी जेम अने घग्धगता अग्निवा स्पर्शनी जेम सागर अस्तुभववा लाग्यो, सागर इच्छाविना परवशापणे आ स्पर्शने अनुभवतो मुहूर्तमात्र बेसी रबो. सागरदत्त सार्थवाहे सागरपुत्रना मातापिता विगेरेने जमाडी वस्त्रादिथी भक्ति-सन्मान करी विदाय कर्या. सागरपुत्र सुकुमालिकानी साथे शयनगृहे आव्यो. सुकुमालिकाना जामनी अत्यन्त ऋष्टपूर्वक अग्निनी माफक स्पर्श अनुभवतो पराधीनपणे मुहूर्त मात्र थये सुकुमालिका निद्राधीन थइ त्यारे पोतानी जुदी शय्यामां सुइ गयो. सुकुमालिका पोताना पतिने बीजी शय्यामां सुतेला जोइ रागथी त्यां जइ सुती. ते समये पण पूर्वनी जेम सागर कष्ट सहन करवा लाग्यो, त्यां पण सुकुमालिका निद्राधीन थये छते कसाइखानामांथी जेम नाशी छूट्यो न होय तेम नाशी छूट्यो अने पोताना धेर आवतो रबो.

सुकुमालिका जाग्या पछी पोताना पतिने न जोतां सर्वत्र तपास करी तो द्वार खुल्लं जोइ पोताना पतिने चाल्या गया तेम जाणी विचारना लागी, तेनामां तेनी माताए पुत्री तथा जमाइ माटे सुख घोवा पाणी लइने दासीने मोकली. दासीए विचारमग्न थयेली

सुकुमालिकाने जेव्हा छं शत्रुं छे तेम पूळ्युं, सुकुमालिकाए यथास्थित जे वन्युं ते कहुं. दासीए जइ तमाम हकीकत सागरदच सार्थवाहने कही. आ श्रवण करी कोपाग्रमान शयेला सागरदच सार्थवाह बिनदच सार्थवाहने घेर गया अने बिनदच सार्थवाहने ठपको-उपालम्भ अनेकरीते आय्यो. बिनदचसार्थवाहे-स्वपुत्र सागरचे कहुं के आ तें खोडुं कर्युं छे, तुं त्यां जा ! सागरपुत्रे जणाव्युं के-पिताजी. पर्वत उपरथी पडुं ! झाळ परथी पडुं ! मरुदेशमां चाल्यो जडं ! पाणीमां प्रवेश करुं ! विष भक्षण करुं ! गळे फांसो झाडं ! शुद्धप्रथमां प्रवेशुं ! दीक्षा लडं ! चाल्यो जडं ! परन्तु सागरदचने घेर नहि जडुं. आ बहुं भीतना आंतरे रहेल सागरदच सार्थवाह श्रवण करी लक्षाः पामेला पोताना स्थाने चाल्या गया अने पुत्रीने बोलावी आश्वासन आप्युं अने कहुं के-जेने तुं इष्ट-यावत् मनने गमनी थइश तेने आपीश.

ते दार पळी एक समये सागरदच सार्थवाह अगाशीमां बेसी राजमार्गमां जुवे छे तो एक भीखारी साधिला ककडावाळुं वख पहरेलो, हाथमां सरबळ अने हाथमां पाणी माटे घडो राखेलो तेम हजारो माखीओथी विंटायेलो जेयो, सागरदच सार्थवाहे कौटुम्बिक मुखणेने बोलावी भलामणा करी के--आ भीखारीने खोराकथी लोभावी घेर लइ जइ, स्वादिष्ट भोजन करावी, भीक्षाना साधनो दूर करवावी, वख-अलंकारथी विभूषित करी मारी पासे लावो ! कौटुम्बिक पुरुषो तेना भीखारी वेषने ज्यां दूर करवा लाग्या त्यारे ते भीखारी राडो पाडबा लाय्यो अने रडवा लाय्यो. सागरदच सार्थवाहनी सूचनाथी तेना भीखारी वेष आदिने विश्वास उत्पन्न थाय तेवी रीति तेनी पासे स्थापन कराव्यो अने हजामत करावी सहस्रपाक आदि तेलो वडे ते भीखारीने मालीश करावो, स्नान करावी, वख-आभूषण पहारावी ते कौटुम्बिक पुरुषो सागरदच सार्थवाह पासे लइ गया. सागरदच सार्थवाहे ते भीखारीने पोतानीं सुकुमालिका



पुत्रीने भार्या तरीके अर्पण करी, भीखारीनी स्थिति पण सागरनी माफक थतां ते पण पोताना भीक्षाना साधनो लहने सागरनी माफक नाशी छूट्यो.

आ सर्व हकीकत ज्यारे सागरदत्त सार्थवाहे जाणी त्यारे सुकुमालिकाने प्रेमसह कहेवा लाग्या के-तुं पूर्वभवमां आचरेला पापकर्मना फलने अनुभवे छे, तुं आर्तध्यान कर्या. विना हवे हे पुत्री ! तुं मारा रसोडा विषे विपुल एवं अशन-पान खादिम-स्वादिम हंमेशां तैयार थाय छे तेने “पोट्टिलानी” जेम श्रमण-साधु वगैरेने आपती छती रहे. सुकुमालिका पण ते प्रमाणे दान आदि करे छे. सुकुमालिकाए लीधेली दीक्षा.

ते काले ते समये बहुश्रुत गोपालिका नामनी आर्या घणी आर्याओ सह समवसरी, तेमांथी वे आर्याओ भिक्षार्थे आ सुकुमालिकाने त्यां आवी. ते साध्वीओने आहार विगैरे बहोरावी, सुकुमालिका कहेवा लागी के-हे आर्याओ ! हुं सागरने अनिष्ट छुं तेम तेना मनने गमती नथी वगैरे जे बीना बनेली ते कहीने कथन करवा लागी के-तमो घणा ज्ञानवान छो, यावत् मन्त्र-तन्त्र वगैरेना आम्नायने पासेलां छो तेथी तमे मने एवो उपाय दशविो के जेथी हुं सागरने इष्ट थांउं.

बन्ने आर्याओए कर्मनी विपाक-बन्ध विगैरे समजावी तेम जैन धर्म-साधु धर्म जणावी तेने श्राविका बनावी यावत् सुकुमालिकाए गोपालिका आर्या पासे दीक्षा ग्रहण करी. सुकुमालिका आर्या थइ. ईर्यासमिति पाळती यावत् ब्रह्मचर्य धारण करती घणा छट्ट-अट्टम विगैरे तपस्या आचरती थकी विचरवा लागी. एक समय ते सुकुमालिका आर्याए-गोपालिका आर्याने वंदना नमस्कार करी चंपा नगरीनी बहार सुभूमिभाग नामना उबाननी नजदीक छट्टनी तपस्या वडे सूर्यनी सन्मुख आतापना लेती रहेवा माटे आज्ञा मागी.

गुरुब्राह्मणो करेलो भंग, यावत् करेलुं नियाणुं.

सुकुमालिका आर्याए मगेल आज्ञाना जवावमां गोपालिका आर्याए जणानुं के-हे आर्या ! आपणे साध्वीओ निर्भय छीए, ईयासमितवाळी छीए यावत् गुप्त ब्रह्मचारिणी छीए तेथी आपणने गामनी बहार यावत् सन्निवेशनी बहार निरंतर छट्ट आदि तप करी आतापना लेतां रहेवानुं करणनुं नथी, परन्तु वाड के वंडी सहित उपाश्रय विषे रही वल्लवडे काया ढांकी साध्वीओना परिवार साथे रद्दीने पृथ्वी पर पगना सप्त तलीया राखीने आतापना लेवी कल्पे छे. गोपालिका आर्या( गुरुणी )नी आ वात पर श्रद्धा-रुचि-विश्वास नही करती सुकुमालिका आर्या गुरुणीना ना कहेवा छतां सुभूमिभाग उद्यानथी थोडा दूर छट्ट आदि तपस्या करती आतापना लेवा लागी.

ते चंपानगरीमां राजाथी छूट अपायेली एक ललिता नामनी टोळी रहे छे ते माता-पिता-स्वजन विगेरे कोइनी अपेक्षा राखती नथी, अविनयी अने उद्धत एवी ए टोळी वेश्याने त्यां पडी रहे छे.

ते टोळीमांथी पांच गठीआओ देवदत्ता नामनी रूपवान् वेश्यानी साथे एक समये आ उद्याननी शोभा अनुभवता आल्या अने ते देवदत्ता वेश्याने एके खोळामां बेसाडी, बीजो तेना पर छत्र धरवा लाग्यो, बीजो तेणीना मस्तक पर पुष्पनो मुगत रचे छे, चोथो तेणीना पगने अलताथी रंगे छे अने पांचमो पुरुष तेणीने चामर वीझवा लाग्यो यावत् तेओ मनुष्य सम्बन्धी भोगविलास भोगववा लग्या. देवदत्तना आ विलासो-पौद्गलिकसुखो जोइ सुकुमालिका आर्यानुं चित्त चलायमान थयुं अने देवदत्ता वेश्याना पूर्वपुण्योने अनुमोदवा लागी. जो आ मारा तप-नियम-ब्रह्मचर्यनुं कंइ पण फलविशेष होय तो आगामी भवे हुं आवा कामभोगने भोगवती यावत् विचरं ! आम करी नियाणुं करी आतापनानी भूमिथी पाळी फरी, ते बार पळी ते सुकुमालिका आर्या शरीरबकुशा ( शरीरनी शोभा करवी तेने शरीरबकुश

कहे छे ) थइ वारंवार हाथ-याग-मस्तक-मुख-स्तनंतर-काख-गुसभागने घोवा लागी, तेम उभा रहेवाना स्थानने-सुवाना स्थानने-स्वाध्यायना स्थानने-बेसवाना स्थानने प्रथम जलवडे छांटवा लागी. आथी गोपालिका आर्याए आ साध्वीओने करुपतुं नथी वगोरे अमज्जाब्युं पण तेणीए गुरुना ठपकानो आदर कर्यो नहीं, आथी बीबी साध्वीओए पण सुकुमालिकानो अनादर करवा मांड्यो तेम तेनो पराभव करवा लागी. आथी सुकुमालिकाने एवो विचार आव्यो के-हुं घेर हती. संसारमां हती त्यारे स्वतन्त्र हती, हुं दीक्षा लेइने प्रवृत्त थइ, आ साध्वीओ मारो आदर करती, हवे ते आदर करती नथी माटे आवतीकाले हुं एकली जुदा उपाश्रये जइने रहूं. बीजे दिवसे ते जुदा उपाश्रये जइने रहेवा लागी अने स्वच्छंद मतिवाळी पासस्थविहारी-कुशीलविहारी आदि थइने वणा वर्ष संयम प्राळी पंदर दिवसनी संलेखना करी, पोताना दोषोने आलोच्या नहिं, तेम पश्चातापरूप प्रतिक्रमण कर्यो विना काल करी ईशान देवलोकमां गणिकापणे ( अपरिगृहितदेवीपणे ) देवी थई.

**द्रौपदी सरीके थसेल जन्म---**

नव पत्योपमनुं ईशान देवलोकनुं आयुष्य पूर्ण करी सुकुमालिका च्यवीने पंचालदेश विषे कांपील्यपुरना नगरमां द्रुपद राजानी झुळणी राणीनी कुक्षीविषे पुत्रीपणे जन्मी अने तेतुं द्रौपदी एतुं नाम पाड्युं. द्रौपदी बालिका पांच धावमालाओथी लालनपालन करती वृद्धिचे पामी. याबव युवानी अवस्थाने पामी. ते वार पछी द्रौपदीने अन्तःपुरनी राणीओए स्नान करावी, विभूषित करीने द्रुपदराजाना पादने ब्रह्मदन करवा मोकली. द्रौपदी पण पिता द्रुपदराजानी पासे जइ तेमने पगे लागी. द्रुपद नृपतिए पोताना खोळामां बेसाडी, द्रौपदीना-रूप-लावण्यथी आश्चर्य पासेला द्रुपदराजाए द्रौपदीने कंबुं-हे पुत्री ! हुं पोते कोइ राजा के युवराजने परणातुं तो तुं सुखी

अथवा दुःखी थाय तेथी मने जीवनपर्यंत हृदयसां बलतरा थाय साटे हे पुत्री ! आजथी मांडीने हुं त्हारो स्वयंवर रचुं छुं. तुं तारी जाते कोह राजा के खुराजने करीस ते त्हारो मर्ता थरो ! एम कही आश्वासन आपी विदाय करी.

स्वयंवरमां आववा साटे दूतोतुं प्रयाण.

ते चार पछी द्रुपदराजाए दूतने बोलावी कहुं के-हे देवानुप्रिय ! द्वारका नगरि विषे कृष्ण वासुदेव, समुद्रविजय विगरे दस दसरो, बलदेव वगैरे पांच महान् वीरो, उग्रसेन वगैरे सोल हजार राजाओ, प्रद्युम्न विगैरे साडात्रण क्रोड कुमारो, सांब विगैरे साठ हजार उद्धत अने बलवान कुमारो, वीरसेन विगैरे एकवीस हजार वीरपुरुषो, महासेन आदि छप्पन हजार बलवानवर्ग, तेमने तथा बीजा घणा राजा, ईश्वर, तलवर, मांडविक, कौटुबिक, इभ्य, श्रेष्ठी. सेनापति अने सार्थवाह आदिने वे हाथ जोडी दश नखो भेगा करी मस्तक विषे फेरवी अंजली करी जय विजय शब्दोशी वधावी आ प्रमाणे कथन करजे ! हे देवानुप्रियो ! काम्पील्यपुर नगरमां द्रुपदराजानी चुलणी राणीथी उत्पन्न थयेली, धृष्टद्युम्नकुमारनी ब्हेन द्रौपदी नामनी राजकन्यानो स्वयंवर थवानो छे तो आप जल्दी त्यां पधारो ! राजानी आ आज्ञा दूत अंगीकार करी पोताने घेर गयो, घेर जहने पोताना कौटुम्बिक पुरुषोने बोलावी चार घंटा त्रिभेला घोडावाळा रथने तैयार करी लावावा जणाण्डुं. कौटुम्बिकपुरुषोए लवेला रथ पर बेसी आयुषो अने शल्लोवाळा घणा पुरुषो सहित ते दूत पंचाल देशनो सीमाडो उल्लंघन करी सौराष्ट्र देश विषे द्वारका नगरीनी बहार कृष्णमहाराजा-वासुदेवनी बहारनी सभामां जइ उतारो करी पगे चालतो कृष्णवासुदेवनी पासे गयो, अने कृष्णवासुदेव विगैरेने मस्तके अंजलि जोडी स्वयंवर सम्बन्धि सर्व वृत्तान्त कही सर्वेने पधारवानी विनंति करी. आ श्रवण करी हर्षित थयेला कृष्णमहाराजे तेनुं सन्मान कर्युं. यावत् तेने विदाय कर्यो. कृष्ण-

वासुदेवे, समुद्रविजय विगेरे राजाओ महासेन विगेरे तेम बीजाओनी साथे हस्तीरत्न उपर बेसी कांपील्यपुर नगर तरफ प्रयाण कर्युं. हुपदराजाए-बीजा दूतने हस्तिनापुर नगरे युधिष्ठिर आदि पांच पुत्रो सहित पांडुराजानी, दुर्योधन आदि सो भाइजोनी, गंगेय-विदुर-द्रोण-जयद्रथ-शकुनी-कर्ण अने अश्वथामानी पासे विनंति करवा मोकल्यो, त्रीजा दूतने-चम्पानगरी विषे अंगराज कुष्णानी, सेल्लकराजानी अने नंदराजानी पासे विनंति करवा मोकल्यो. चोथा दूतने शुक्तिमती नगरी विषे दमघोषना पुत्र, पांचसो भाइजोथी परिवरेला शिशुपाल राजानी पासे विनंति करवा मोकल्यो. पांचमा दूतने-हस्तिशीर्ष नगर विषे दमदंतराजानी पासे विनंति करवा मोकल्यो. छट्टा दूतने मथुरा नगरी विषे धर नामना राजा पासे विनंति करवा मोकल्यो. सातमा दूतने राजशृहनगर विषे जरासंधना पुत्र सहदेवराजानी पासे विनंति करवा मोकल्यो. आठमा दूतने कौडिन्यनगरविषे भीष्मकना पुत्र रूप्यीराजानी पासे विनंति करवा मोकल्यो. नवमा दूतने विराटनगरविषे सो भाइजोसहित कीचकराजानी पासे विनंति करवा मोकल्यो. दशमा दूतने बाकीनां गाम-आकर अने नगर आदिमां विनंति करवा मोकल्यो. अने सर्वेने स्वयंवरमां पधारवानी विनंति करवा कबुं. दरेक दूतोए हुपदराजानी आ आज्ञा स्वीकारी, दरेक दूतो हुपदराजानी आज्ञा प्रमाणे गया अने तेओए ते प्रमाणे दरेक स्थाने विनंति करी. तेवार पछी हजारी राजाओ कापिल्यपुर आववा लाग्या.

द्रौपदीनो स्वयंवर मंडप—

हुपदराजाए कौडुम्बिक पुरुषोने बोलवी आज्ञा करी के-तमे गंगानदीनी समीपमां एक सेंकडो थांमला अने पुतलीओथी शोभतो स्वयंवर मंडप बनावो अने वासुदेव विगेरे हजारी राजाओ माटे आवासो तैयार करो ! कौडुम्बिकपुरुषोए हुपदराजानी आज्ञा प्रमाणे

सर्वे तैयार कर्तुं. देश देशथी आवेला अनेक सुमटो सह वासुदेव विगेरे राजाओतुं योग्य सन्मान करी तेमने उतरवा आवासो अप्यां. पोत-पोताना आवासोमां मवेशेला कृष्णवासुदेव आदि राजाओ विगेरे आसन पर बैठेला अने शयन पर सुतेला सुता सुता गंधर्वो पासे गायनो गवडावता तेम नटो पासे नाटकौ करावता आनंदपूर्वक रखा छे. अने हुपदचरुपतिए कौटुम्बिक पुरुषो मारफते मोकलावेल-अशन-पान-खादिम-स्वादिम तथा चार प्रकारनी-सुरा आदिनो तेम पुष्पो, वस्त्रो, गन्ध-माला-अलंकारोनो भोगवटो करे छे.

ते वारपछी हुपदराजाए कौटुम्बिकपुरुषो मारफते कांपीत्यपुरनगरमां द्रौपदीनो आवतीकाले प्रातःकाले स्वयंवर छे तो सर्वे पधारथो अने सहस्रए पोताना नामथी अंकित आसन विषे पधारी-द्रौपदीनी आववानी राह जोशो ! तेवी उद्बोधोपणा करावी. अने कौटुम्बिक-पुरुषोने बोलावी-स्वयंवरमंडपमां पाणीनां छांटणां छंटाव्यां, संमार्जन करावी लीपणथी लीपवी सुगन्धी द्रव्योथी सुगंधित करावी, पांचवर्णोनां पुष्पो-कालागरु, श्रेष्ठकंडुक अने तुरुष्क विगेरे घूयोथी मधमघायमान स्वयंवर मंडप बनाव्या अने मांचाओ बंधाव्या.

स्वयंवरमंडपमां वासुदेव वगेरे आवी पोताना नामथी अंकित आसन विषे बेसी द्रौपदीनी राह जोवा लाप्या, अने हुपद-राजाए पण त्यां आवी सर्वेने जय-विजयथी वधाव्या.

श्रेष्ठ राजकन्या द्रौपदी स्नान करी गृहदेवतांतुं पूजन करी मसीतिल्लकादि कौतुको अने दुर्वादि मंगलकार्यो करी मांगलिक वस्त्रो पहेरी घरदेरासर विषे जह ज्विनपूजा करी, द्रव्यभावस्तवने स्तवी प्रभूने वंदना-नमस्कार कर्या पछी अन्तःपुरमां आवी. त्यां अंतेपुरीए भेगा मली द्रौपदीने सर्वअलंकारोथी विमूषित करी पगमां नूपुर पहेराव्यां. द्रौपदी दासीओथी परिवरी ज्यां बहारनी सभा हती त्यां आवी अने चार घंटावाला अश्वथी जोडेला रथ विषे धात्रीमाता अने लेखिका दासी सह बेठी. आ समये घृष्टधुमन नामना तेना वडीलबन्धुए

तेनुं सारथीपणुं कर्तुं. कांपील्यपुरनगरनी मध्ये थइने रथमां बेठेली द्रौपदी स्वयंवरमण्डपनी बहुर रथ उभो राखी नीचे उतरीने पोताने बालपणाथी रमाडनार धावमाता तथा लेखिका-( लखनारी ) दासी साथे स्वयंवरमण्डप विषे प्रवेश करतानी साथे बे हाथ जोडी, वासुदेव विगेरे हजारो राजाओने नमस्कार कर्मा. त्यारबाद पाटला-मल्लिका-चंपक विगेरे पंचवर्णेना पुष्पोथी शोभतो पुष्प-मालानो सुगन्धीदार दडो द्रौपदीए ग्रहण कर्यो.  
पांडवो साथे लग्न.

ते वार पछी-क्रीडा करावनारी धावमाताए डावा हाथमां दर्पण राख्युं, अने ते दर्पण विषे प्रतिबिम्ब पडता अनुक्रमे दश दसरो विगेरे राजाओने जमणा हाथे द्रौपदीने देखाडती ते ते राजाओना मात-पिता-वंश-सरस्व-सामर्थ्य-गोत्र-विक्रम-कान्ति-कीर्ति-ज्ञान-रूप-यौवन-गुण-लक्षण्य-कुळ अने शिथल विगेरेनुं वर्णन धावमाता करती ते श्रवण करती द्रौपदी हजारो राजाओने पूर्वे करेला मियाणाना प्रतापे ओळंगती ज्यां पांच पांडवो छे त्यां आवीने पांचे पांडवोने द्रौपदीए पुष्पनी माला-वरमाळावडे चोतरफथी वीटी दीषा अने द्रौपदी बोली. “ आ पांच पांडवो में वर्या ! ”

त्यारबाद वासुदेव विगेरे हजारो राजाओ मोटामोटा शब्दथी बोल्या. अहो ! द्रौपदी राज्यकन्या साहं वरी एम कही स्वयंवर मण्डपनी बहुर नीकळी पोतपोताना आवासो विषे आल्या अने वृष्टद्युम्नकुमार पांचपांडवोने द्रौपदी राजकन्या सह रथविषे बेसाडी कांपील्यपुर नगर मध्ये स्वसुवर्गमां वृष्टद्युम्नकुमार ल्हइ गया. ते वार पछी हुपदराजाए पांचपांडवो तथा द्रौपदीने पाटला उपर बेसाडावी, सोसाबा कळशोवडे मज्जन करावी, अग्नि होमनी क्रिया करावरावी, यावत् द्रौपदीने पांच पांडवो साथे हस्तमेलाप ( लग्नक्रिया ) कराव्यो,

हुपद राजाए कन्यादानमां आठ करोड हिरण्य, षण्णुं धन, सोनुं, तेम दासीओ विगोरे आप्युं अने वासुदेव वगोरे राजाओनुं सन्मान करी विदाय कर्या. त्यारपछी पांडुराजाए वासुदेव विगोरे हजारो राजाओने बे हाथ जोडी आप सर्वे मारा पर उपकार करी आ लजनमहोत्सव उपर हस्तिनापुर नगरे जल्दी पधारजो ! तेवी विनंति करी. आथी सर्वे राजाओ जवा तैयार थया. ते वार पछी पांडुराजाए कौटुम्बिक पुरुषोने हस्तिनापुरे सात मजलाना पांच महेलो तैयार कराववा मोकल्या, तेओए पण जइ जल्दी पांचे महेलो तैयार कर्या. त्यारबाद पांडुराजा, पांच पाण्डवो अने द्रौपदी देवी सहित अश्व-हाथी विगोरे सैन्य सहित त्याथी नीकळी हस्तिनापुर नगरे आव्या अने पांडुराजाए आवता एवा वासुदेव विगोरे हजारो राजाओ माटे कौटुम्बिकपुरुषो पासे आवासो तैयार करावी, आवता एवा वासुदेव विगोरे हजारो राजाओनुं सन्मान-सस्कार करी यथायोग्य तेमने आवासो आप्या, अने तेओने योग्य एवा आहारो-पाणी विगोरे कौटुम्बिक-पुरुषो साथे मोकल्या. पांडुराजाए पांचपांडवो अने द्रौपदी देवीने बाजोठ उपर बेसाडी कलशोवडे स्नान करावी लजन सम्बन्धी मंगल-क्रिया करावी लजन पर पधारेल राजाओनुं योग्य सन्मान करी विदाय कर्या. ते वार पछी पांचे पांडवो द्रौपदी देवीनी साथे अन्तःपुरना परिवार सहित एक एक दिवसना वारा प्रमाणे भोग भोगवता विचरवा लाग्या.

नारद मुचिनुं आशमन-अपरकंका प्रति गमन.

एक समये पांच पांडवो-कौंतीदेवी-अने द्रौपदी पुत्रवधू तेम अंतःपुरना परिवार सह अन्तपुरमां पांडुराजा सिंहासन विषे बेठा हता, ते समये देखवामां अति मद्रक-बिनीत लागता पण हृदय विषे मलिन, एक ब्रह्मचर्यव्रत धारण करवाने लइ मध्यस्थपणाने पामेला, देखनार आश्रितोचे ब्हाल्य लागे तेवा, रूपवान्-अखंड-उज्वल वस्त्रने पहरेला, वक्षस्थले काळुं सुगचर्म धारण करेला, हाथमां दंड



अने कमण्डल राखेला, जटारूपी मुकुटवडे शोभता, रुद्राक्षानी मालारूपी आभरणो धारण करेला, मुंज जातिना घासनो कंदोरो पहरेला, हाथमां कच्छपी नामनी वीणाने धारण करेला, संगीतना प्रेमी, आकाशगमन करवानी शक्ति होवाथी पृथ्वी विषे अल्प अग्रण करनारा, अने आवरणी, अवतरणी, उस्पतनी, श्लेषणी, संक्रामणी, अभियोगिनी, प्रज्ञप्ति, गमनी अने स्तंभिनी आवी वणी विद्याधरनी विद्याओमां निपुण होवाथी जेमनी कीर्ति प्रसिद्ध हती, बलदेव, वासुदेव, तथा प्रद्युम्न आदि कुमारोने प्रिय, कलह, युद्ध अने घणा लोकोनो कोलाहल थाय ते प्रिय छे जेने एवा, भांडन बोलवानी इच्छावाळा, युद्धो जोवामां रसिक, बीजाओने कलह-करावी असमाधि करावता आवा अनेकप्रकारना गुणवाला नारदनामना मुनि घणास्थाने फरता फरता हस्तिनापुरमां आवी अत्यंतवेगथी पंडुराजाना महेलमां उतर्या, पण्डुराजा-पांच पांडवो कुन्तादेवी सह आसनथी उभा थया, अने नारदऋषिनी सन्मुख सात आठ पगला गया, तेम वंदना-नमस्कार करी महापुरुषने योग्य आसनवडे आमन्त्र्या, नारदऋषिण् सूरमिविषे पाणीनां छांटणां छांटी, दर्शने ते पर पाथरी तेना विषे आसन कर्युं, अने नारदजी ते आसनपर बेठा. बेसीने पंडुराजाने तेमना तथा अन्तःपुरना कुशल समाचार पुछ्या, पण्डुराजा विगेरे ए तेमनो आदर सत्कार कर्यो.

किन्तु-असंगत, अविरति, पापकर्मनां पञ्चकषाण नहिं करेला, समकित नहीं पामेला एवा नारदने जाणी द्रौपदीदेवीए नारदजीने बन्दना-नमस्कार-आदर के सत्कार न कर्या, सन्मुख उमी पण थइ नहीं, आथी नारद मनमां विचारवा लाग्या के अहो आ द्रौपदी पोताना रूपवडे अने पांच पाण्डवो रूपी पतिवडे अभिमानी थयेली होवाथी मारो आदर करती नथी, यावत् सेवा करती नथी, माटे पुंतु कंश्क अप्रिय करं आवुं चिन्तवी, जवा माटे पण्डुराजानी रजानी रजा लइ, आकाशमार्गे गमन करता लवणसमुद्रमध्ये थइ पूर्व

सन्मुख जतां धातकीसण्डनी पूर्वदिशामां आवेला दक्षिणार्ध भरतक्षेत्रविषे अपरकंका राजधानी विषे सातसो राणीओ छे जेने एवा पद्मनाभ नामना राजाना महेलमां उतर्या, अहिं पाण्डुराजानी जेम तेमनो आदर-सस्कार पद्मनाभ राजाए कथो, अने पोतानी अन्तःपुरीना रूपथी आश्चर्य पायेला पद्मनाभ राजाए पूछयुं के-आप घणी अन्तःपुरीमां जाव छो तो मारा करतां अधिक रूपवाळी अन्तेपुरी कोइ ठेकाणे तमे जोइ छे ? नारदजी कंहक हस्ता कहेवा लाग्या के द्रौपदीना एक पगना अंगुठाना रूपना सो मा भाणे पण तारी अन्तःपुरीनी स्त्रीओ नथी. तुं तो कुवाना देडका जेवो छुं ! आ ममाणे नारदजी कहीने रजा लइने चाल्या गया.

द्रौपदीनुं अपहरण—

द्रौपदी पर आसक्त थयेला पद्मनाभराजाए अट्टमनो तप करी आराधी पूर्वसंगतिक नामना देवने बोलाव्यो, अने कछुं के-हे देवानुप्रिय ! तमे द्रौपदीने मने लवी आपो ! एम हुं इच्छुं छुं. पूर्वसंगतिकदेवे पद्मनाभराजाने जणाव्युं के-एवुं थयुं नथी, थयुं नथी तेम थजे नही के-“द्रौपदी देवी पांच पाण्डवोने मूकीने बीजा कोइ साथे कामभोग भोगवती छती विबरे !” छतां तारहं प्रिय करवा माटे द्रौपदीने जरदी अहीं लातुं छुं एम कही हस्तिनापुरे जइ ज्यां युधिष्ठिर राजा द्रौपदीदेवीनी साथे महेलनी अगाशी विषे सुता हता, त्यां गयो अने द्रौपदीने अवस्वापिनी निद्रा आपी हरण करी पद्मनाभराजाना अशोकवनविषे स्थापी, अवस्वापिनी निद्रा संहरी, पद्मनाभराजाने खबर आपी, पद्मनाभराजाने कछुं के-हवे आ हकीकतमां तने जे मुश्किली थाय तेमां हुं मदद करीश नहिं ! एम कही पोताना स्थाने देव चाल्यो गयो.

शोडीवार पछी जाप्रत थयेली द्रौपदीदेवी पोताने अन्यस्थाने जोइ विचारवा लागी के-कोइ देव-दानव यावट गंधर्व कोइ

अन्य राज्ञानी अशोकवाटिका विषे संहरीने मने लाब्यो छे. आम विचार करवामां ज्यां गरकाव थइ त्यां तो अलंकारोशी विभूषित थयेछो अने पोताना अंतःपुराशी परिवरेलो पद्मनाभराजा आब्यो अने द्रौपदीने कहेवा लाग्यो के-तुं चिन्ता न कर ! में तारुं अपहरण करावुं छे ! तुं मारी साथे भोग भोगव ! द्रौपदी देवीए तेना जवाबमां जणावुं के-हे देवानुप्रिय ! जबूद्रौपना भारतक्षेत्र विषे मारा पतिना आता कृष्ण वासुदेव छे, ते जो छ मास सुधीमां म्हारी व्हारे नहीं आवे तो हुं तमे कहेशो तेवी आज्ञामां हुं रहीश-वर्तीश !

द्रौपदीनी आ बात अंगीकार करी पद्मनाभराजाए कन्याओना अन्तःपुरमां द्रौपदीने राखी. कन्याओना अन्तःपुरमां रहेली द्रौपदीदेवी निरंतर छट्टनो तप करे छे, अने पारणे आंबिल करती तपकर्मवडे आत्माने भावती थकी रही छे.

द्रौपदीनी शोधमां पांडवादि—

आ तरफ अंतर्बुद्धत पछी जागेला युद्धिछिरे पोतानी पासे द्रौपदी न जोवाथी शय्यामांथी उया थइ चोतरफ शोधखोळ करी परन्तु द्रौपदीनी माहिति न मळवाथी पांडुराजा हता त्यां आव्या अने द्रौपदीदेवीने कोइ देव आदि हरी गयो छे माटे तेनी गवेषणा करवाने इच्छुं छुं तेम कबुं. पांडुराजाए पण कौटुम्बिक पुरुषोने कही आघोषणा करावी सोहुं इनाम जाहेर कर्युं छतां कंह पत्तो न मळ्यो, त्यारे पांडुराजाए कुंतीदेवीने द्वारकानगरीमां कृष्णवासुदेव पासे तपास कराववा मोकली. कुंतीदेवी हस्ति पर बेसी द्वारकानगरीना उद्यानमां आवी, हस्ति परथी उत्तरी कौटुम्बिकपुरुषो मारफते कृष्णवासुदेवने खबर आपी के तमारां फोइ कुंतीदेवी उद्यानमां आब्यां छे, तेओ तमारा दर्शननी इच्छा राखे छे. कृष्णवासुदेव आ समाचार श्रवण करी हस्ति उपर बेसी तुरत कुंतीफोइनी पासे गया अने कुंतीफोइने पगे लागी हाथी पर बेसाडी, बन्ने ( कुंती अने कृष्ण ) कृष्णवासुदेवना महेल आव्या; महेल विषे आवी भोजन आदि कर्मां पछी कृष्णवासुदेवे

कुंतीफोहने अत्र आगमनं प्रयोजनं पूछ्युं, कुंतीए द्रौपदीना अपहरणथी यावत् शोध करतां नहीं प्राप्त थवानी हकीकत कही अने शोधी आपवा जणाव्युं. कृष्णवासुदेवे फइने जणाव्युं के हुं जो कोइ स्थाने तेनो पत्तो पासुं तो पाताल के भवनमां अथवा अर्धभरतमांथी म्हारा हाथे शोधी लावीथ. आम कही कुंतीफइतुं सत्कार-सन्मान कर्तुं, अने जवा माटे रजा आपी, कुंती पण हस्तिनापुर नगरे पाछां आवी गयां, कृष्णवासुदेवे पोताना माणसो पासे तपास कराववा मांडी, एवमां एक वखत नारद त्यां आव्या. तेमनो यथायोग्य सत्कार कर्चो अने ज्यारे नारदजीए कुशलता पूछी त्यारे द्रौपदीना हरणनी वात कहीने पूछ्युं के तमे घणा स्थाने फरो छो तो तमे कंइ खबर-पत्तो जाणो छो ? नारदजीए कहुं के-धातकीखण्डना दक्षिणाई भरतक्षेत्र विषे अपरकंका नामनी राजधानी विषे पद्मनाभ नामना राजाना महेलमां पूर्वें में जोथेली एवी द्रौपदीदेवी हती. कृष्णवासुदेवे नारदजीने कहुं के-आ कार्य तमारंज जणाय छे. नारदजी तो आ श्रवण करतांज त्यांथी आकाशमार्गे चाल्या गया.

तेवार पछी कृष्णवासुदेवे हस्तिनापुरनगरे पोतानो दूत मोकली द्रौपदीनी माहिती जणावी अने चतुरंग सेना सह पांच पांडवोए पूर्व दिशाना समुद्रने कांठे आवी म्हारी राह जोता रहेतुं तेवी खबर आपी. पांडवो पूर्व समुद्रना कांठे चतुरंग सैन्य सहित जइने कृष्णवासुदेवनी राह जोवा लाग्या.

कृष्णवासुदेव पण पोतानी चतुरंगसेना सहित पूर्वसमुद्रना किनारे आव्या अने पांचपाण्डवोने मळ्या; ते पछी पोषपशालामां प्रवेशी अट्टमनो तप करी सुस्थितदेवनी आराधना करी प्रत्यक्ष कर्चो अने द्रौपदीनी मददे जवा पांच पांडवो सह मने लवणसमुद्रमां मार्ग आपो तेतुं जणाव्युं, सुस्थितदेवे जणाव्युं के-जेवी रीते पद्मनाभराजाए पूर्वसंगतिक देवमारफते द्रौपदीतुं अपहरण कर्तुं छे तेवी

रीते हुं द्रौपदीने उपाडी हस्तिनापुर विषे मूळुं : के ते पद्मनाभराजाने तेना नगर, सैन्य अने बाहन सह लवणसमुद्रमां नाहुं : आम ज्यारे सुस्थितदेवे पूछ्युं त्यारे कृष्णवासुदेवे जणाव्युं, हे देवानुप्रिय ! तुं तेम न कर, पण अमने छने रथ सह जवा माटे मार्ग आप ! हुं पोतेज द्रौपदीदेवीनी मददे जइश. आम कहेवाथी सुस्थितदेवे समुद्रमां जवानो मार्ग आप्यो. कृष्णवासुदेवे तथा पांच पांडवोए सैन्यने पाहुं मोकल्युं. अने छए जणा रथमां बेसी लवणसमुद्रमां थइ अपरकंका राजधानीना उद्यानामां आवी, रथने स्थापन कर्या, अने दारुक नामना पोताना सारथिने दूतपणे पद्मनाभराजा पासे मोकल्यो.

पद्मनाभसाथे युद्ध, अने विजयादि—

दारुकसारथि, दूत थइने अपरकंका राजधानीमां प्रवेश करी पद्मनाभ राजा पासे गयो अने बे हाथ जोडी जय जय शब्दथी वधावी बोल्यो के-हे राजन् ! आ मारी पोताना विनयनी क्रिया छे, हवे आ मारा स्वामिना पोताना सुखथी कहेली तमने आज्ञा छे ! एम कही जल्दी नेत्र लाल करीने क्रोध करीने पोताना डाबापणे तेना पादपीठने दबावी भालाना अग्रभागवडे लेख आप्यो अने कृष्णवासुदेवे द्रौपदीनी मददे आव्यानी हकीकत जणावी. द्रौपदीने आपो !! अथवा युद्ध माटे तैयार थाव !!! तेम जणाव्युं. दारुक-सारथिना आ कथनथी नेत्र लाल थयेला छे जेना, अने कपालमां मृकुटि त्रण वळीयावाळी पडी छे जेने एवा पद्मनाभराजाए कहुं के हुं द्रौपदीने पाछी नहीं आपुं ! जा युद्ध करवा तैयार थइने नीकळुं छुं. हे दूत ! फक्त राजनीतिमां दूत अवध्य छे तेथी तने मारतो नथी एम कही पाछलाद्वारथी काडी मूक्यो, दूते जइने सर्व बीना कृष्णवासुदेवने कही, युद्धने माटे आवता पद्मनाभने जोइ कृष्णवासुदेवे पांच पांडवोने कहुं के-हे बालको ! तमे पद्मनाभनी साथे युद्ध करयो : के हुं युद्ध करं अने तमे जोशो : आना जवाबमां पांच

पांडवोए कबुं हे स्वामि ! अमे युद्ध करुं, तमे दूर रहीने जुओ.

तेवारपछी पांचे पांडवो शस्त्रोथी सज्ज थइ रथमां बेसी पद्मनाभराजानी समीपे आवी युद्ध करवा लग्या पद्मनाभराजाए पांचे पांडवोने शस्त्रोथी महारो कर्या अने तेमना अहंकारने तोडी नाख्यो. ध्वजा-पताकाओने तोडी नाखी नशाडी सूक्या, कृष्णवासुदेव आ जोइने तेमने मळ्या अने पूछुं के तमे शुं बोलीने युद्ध करवा लग्या हता ! पांडवोए जणावुं के हमे जणावुं के “ आजे अमे अथवा पद्मनाभ राजा ” एम कही युद्ध करतां आम बन्युं छे. कृष्णमहाराजे कबुं के तमारे “ अमे राजा पद्मनाभ राजा नहीं ” आम कही तमे युद्ध करुं होत तो आम थात नहीं. एम कही कृष्णवासुदेव पोते युद्ध करवा सज्ज थइ “ हुंज राजा !! पद्मनाभ राजा नहीं ” एम प्रतिज्ञा करी रथ पर आरूढ थइने ज्यां पद्मनाभराजा हतो त्यां आव्या. आवीने पांचजन्यशंखने पोताना मुलना वायुथी वगाळ्यो, ते शंखना अवाजथी पद्मनाभराजांनुं त्रीजा भागनुं सैन्य हणांनुं यावत् नाशी गंनुं.

तेवारपछी कृष्णवासुदेवे सारंगनामनुं पोतानुं धनुष हाथमां लेह तेनो टंकारव कर्यो, टंकारवने श्रवण थतां पद्मनाभराजानो सैन्यनो बीजो-त्रीजो भाग हणायो अने नाशी गयो. आ जोइ पद्मनाभराजा पराक्रमरहित थयो थको अपरकंका राजधानीमां पेशी गयो अने दरवाजा बन्ध करी दीधा. आथी कृष्णवासुदेव अपरकंका राजधानीए आव्या अने दरवाजा बन्ध जोइ रथमांथी नीचे उतरी वैक्रिय-समुद्धात करी नरसिंहरूप विकुर्वीनि मोटा शब्दो करता जोसपूर्वक पगनुं आस्फालन करवा लागवाथी अपरकंका राजधानीना किछा-दरवाजा-झरुवा-तोरणो मोटा मोटा महेल जमीनदोस्त थया. पद्मनाभराजा आ स्थिति जोइ मयभीत बनेलो द्रौपदीदेवीना शरणे गयो. द्रौपदीदेवीए ठपको आपी जणावुं के-हे देवानुप्रिय ! तमे स्नान करी एक पहेरेळुं अने बीजुं ओढेळुं एम बे वखो जलवडे नीतरता

राखी पहेरेला वखथी नीचे मुख राखी अन्तःपुरनी राणीव्यो, प्रधान सहित श्रेष्ठ रत्ननुं भेटणुं लेइ मने आगल करी कृष्णवासुदेव पासे जाव्यो, उचमपुरुषो प्रणाम करनारा पुरुषो पर प्रसन्न अनारा होय छे. द्रौपदीदेवीना कथा प्रमाणे सर्वे करीने कृष्णवासुदेव पासे शरणे गयो, पगे पडी पोतानी भूलनी क्षमा याची द्रौपदीदेवीने पाछी सोपी. द्रौपदीदेवीने रथमां बेसाडी ज्यां पांडवो हता त्यां आवी कृष्ण-वासुदेवे पांच पांडवोने पोताने हाथे सोपी. त्यारपछी पांच पांडवो सहित कृष्णवासुदेव रथमां बेसी लवणसमुद्रमज्ये थह जम्बूद्वीपना भरतक्षेत्रे जवा माटे चाल्या.

पबनाभराजाने देशनिकालनी थयेली शिक्षा—

ते काळे ते समये घातकीसण्डना पूर्वदिसाना अर्धमागविषे भरतक्षेत्रनेविषे चंपा नगरी छे, त्यां पूर्णभद्र नामनुं चैत्य हलुं. त्यां मुनिसुव्रतनामना तीर्थकरनी पर्वदामां कपिल नामना वासुदेव धर्म श्रवण करता हता, ते समये शंखनो शब्द सांभली अध्यक्षसाय शयो के-शुं आ भरतक्षेत्रमां बीजो कोइ वासुदेव उत्पन्न थयो छे के-जे मारासमान शंखने वगाडे छे ! ते समये मुनिसुव्रत तीर्थकरे कपिल वासुदेवने कळुं के तमने शंखनो शब्द श्रवण करी एवो विचार आव्यो के शुं आ क्षेत्रमां बीजो वासुदेव उत्पन्न थयो छे ! ते सत्य छे. प्रसुता प्रश्ननो उत्तर हा प्रसु ते सत्य छे. मुनिसुव्रत तीर्थकरे जणावुं के-हे कपिल ! वासुदेव ! आ थयुं नथी, थाय नहीं अने शरो पण नहिं, के एक युगमां अथवा एक समयमां बे तीर्थकर, बे चक्रवर्ती, बे बलदेव अथवा बे वासुदेव उत्पन्न थाय, परन्तु हे कपिल ! वासुदेव ! जम्बूद्वीपना भरतमांथी हस्तिनापुर नगरथी पबनाभराजाए पूर्वसंगतिकेदेवद्वारा द्रौपदीदेवीनुं हरण करावुं छे, तेथी द्रौपदीनी प्रकदे पांच पांडवो सहित कृष्णवासुदेव पबनाभराजानी साथे युद्ध करे छे, तेमां थतो

આ શંકનો શબ્દ તારા શ્રવણમાં આવ્યો છે. આ શ્રવણ કરી શ્રીસુષિસુવ્રતપ્રમુને વંદના-નમસ્કાર કર્યા અને કહ્યું કે-હે પ્રમુ ! હું જાહને પુરુષોમાં ઉચ્ચમ એવા કૃષ્ણવાસુદેવનાં દર્શન કરું, પ્રમુએ કહ્યું કે-હે કપિલવાસુદેવ ! આહું થયું નથી, થાય નહી અને થશે પણ નહીં. કે એક અરિહંત બીજા અરિહંતને, એક ચક્રવર્તી બીજા ચક્રવર્તીને, એક બલદેવ બીજા બલદેવને અને એક વાસુદેવ બીજા વાસુદેવને જુએ, તો પણ હે કપિલ ! વાસુદેવ ! લવણસમુદ્રના મધ્યભાગે થઈને જતા એવા તે કૃષ્ણવાસુદેવની શ્વેત અને પીલી એવી ધ્વજાના અગ્રભાગને તમે જોશો.

તે વાર પછી કાપિલવાસુદેવ પ્રમુને વંદના-નમસ્કાર કરી હસ્તિ પર બેસી સમુદ્રકાંઠે ગયો અને લવણસમુદ્ર મધ્યે થઈ જતા એવા કૃષ્ણવાસુદેવની ધ્વજાના અગ્રભાગને જોયો અને શંખ વગાડ્યો. કૃષ્ણવાસુદેવે તે શ્રવણ કરી પોતાના પદ્મજન્ય શંખને વગાડ્યો એમ કરી શંખના અવાજો દ્વારા એ મેલાપ કર્યો.

તે વાર પછી કપિલવાસુદેવ અપરકંકા નગરીએ ગયા અને ઘરો વિગેરે પહી ગયેલા જોયા, પદ્મનાભ રાજા તેમની પાસે આવ્યો અને કૃષ્ણવાસુદેવના આગમનની બીના આમૂલ્યથી જાણવી, તમને પણ એ કૃષ્ણે ન ગણકાર્યા ! કપિલવાસુદેવે પદ્મનાભ રાજાને હૃદયારની શિક્ષા ફરમાવી અને તેના સ્થાને પદ્મનાભ રાજાના પુત્રનો અધિકાર કરાવી રાજ્યગાદીએ બેસાડ્યો.

પાંચ પાંડવોને દેશનિકાલ.

આ બાલુ કૃષ્ણવાસુદેવે લવણસમુદ્રના મધ્યભાગે થઈ ગંગાનદીની પાસે આવ્યા ત્યારે પાંચ પાંડવોને કહ્યું કે-તમે ગંગાનદી ઉતરો !, હું લવણસમુદ્રના અધિપતિ સુસ્થિતદેવને મળી આહું છું. કૃષ્ણમહારાજાની આજ્ઞા પામેલા પાંચ પાંડવો ગંગાનદી હતી ત્યાં આવ્યા અને



एक नानी होडी शोधी काडी तेमां बेसी, नदी उतरी सामे फाटि गया. अने कृष्णवासुदेव पोताना मुजाबलथी गंगा महानदी उतरवा समर्थ छे के नहीं ते जोवा माटे पेली नावडी संताडी दीधी. कृष्णवासुदेव सुस्थितदेवने मळी गंगा महानदीए आव्या अने चोतरफ नावडीनी तपास करवा लाग्या परन्तु नावडी मळी नहिं. आथी एक हाथे सारथि घोडा सह रथने ग्रहण कर्यो अने बीजा हाथथी साडी वासठ योजन विस्तारवाळी गंगा महानदी उतरवा लाग्या. अघमार्गे आबतां परसेवो थयो अने थाकी गया. आथी विचार आव्या के-अहो पांच पांडवो महाबलवान छे, आवडी मोटी नदी उतरी गया. क्रोह पण कारणे पद्मनाभराजाने तेओए हण्यो नही अने नसाडी मूक्यो पण नहीं, आ बलते गंगादेवीए कृष्णवासुदेवना परिणाम जाणी ते जग्थाए स्थळमूमि करी तेना पर कृष्णवासुदेव थोडीवार थाक उतारी आगल नदी उतरी यावत् पांच पांडवोने मळ्या अने तेमना बलना वखाण कर्या त्यारे पोते जणाव्युं के-अमे होडीथी उतरयां हता परन्तु बळ जोवा नावडीने छुपावी तमारी राह जोता अहीं रखा छीए ! आ श्रवण करी क्रोध पामी कपालमां मृकुटी करी कृष्णवासुदेव कहेवा लाग्या के-अहो ! ज्यारे में बे लख योजनना विस्तारवाळा लवणसमुद्रने उतरी पद्मनाभने हण्यो यावत् नसाडी मुक्यो अने अपरकंका भांगी द्रौपदीने हाथ करी त्यारे तमे म्हारं महात्म्य जाणुं नहीं, हवे तमे जाणशो ! आम बोली लोहबंडथी पांचे पाण्डवोना रथने चूरी नाख्यो अने देशनिकालनी आज्ञा करी, जे स्थाने आ आज्ञा फरमावी ते स्थाने रथमर्दन नामनुं तीर्थ थयुं. कृष्णवासुदेव पोताना स्कंधावारने मळ्या अने ते स्कंधावार सहित द्वारकानगरीए आव्या.

पांडवोए पांडुमथुरा नामनी नवी बसाबेली नगरी.

द्रौपदीदेवी सह पांच पांडवो हस्तिनापुर नगरे आव्या अने पांडुराजाने द्रौपदीनी प्राप्तिथी मांडी हदपारनी सखानी हकीकत जणावी,

पांडुराजाए ठपको आप्यो अने कुंतीदेवीने आ हकीकत जणावीने द्वारका नगरीए कृष्णवासुदेव पासे भोकली. कृष्णवासुदेव पासे जवा कुंतीदेवी हाथी पर बेसी गयां. पांडुराजाथी आज्ञा पामेली कुंतीदेवी द्वारकानगरीना उद्यानमां आवी, अने कौटुम्बिक पुरुषोवडे पोताना आगमननी खबर कृष्णवासुदेवने आपी. कृष्णवासुदेव पूर्वनी जेम सन्मुख जह महेले कुंतीफोइने लाव्या अने आगमननुं कारण पूछ्युं. कुंतीफोइए आगमननुं कारण जणावतां जणाव्युं के हे पुत्र ! तमे पांच पांडवोने देशनिकालनी आज्ञा करी छे. तमे तो समग्र दक्षिणार्ध भरतना स्वामि छो तेथी तेओ क्यां जइने रहे ! कृष्णवासुदेवे कुंतीफोइने जवाच आपतां जणाव्युं के-हे फोह ! वासुदेव, बलदेव अने चक्रवर्ती वगेरे उत्तम पुरुषोनुं वचन मिथ्या थाय नही तेथी दक्षिण दिशाना समुद्रकाठे जाय अने पांडुमथुरा नामनी नवी नगरी वसावी रहे, तेम म्हारी हृष्टिमां न आवे तेम रहे, आम करी कुंतीदेवीनो सत्कार करी विदाय कर्यां. हस्तिनापुर नगरे कुंतीदेवीए आवी पांडुराजाने सर्व हकीकत जणावी अने पांडुराजाए पांचे पांडवाने कृष्णवासुदेवनी आज्ञा जणावी, पांचे पांडवो ए वात कबुल करी समुद्रकाठे आवी पांडुमथुरा नामनी नगरी वसावी तेमां रहेवा लाग्या.

पांच पांडवोए द्रौपदीदेवी साथे लीधेली प्रव्रज्या.

द्रौपदीदेवीने एक पुत्र जन्यो तेनुं नाम पांडुसेन पाड्युं. एकसमये धर्मबोध नामना स्थविर पांडुमथुरामां पधार्या. तेमने वांदवा माटे पर्षदा नीकली तेमां पांच पांडवो गया अने धर्मश्रवण करी धर्मबोधस्थविरने विनति करी के-अमे द्रौपदीदेवीने पूछीए, तथा युवराज पाण्डुसेन कुमारने राज्य पर स्थापन करीए, त्यारपछी आपनी पासे दीक्षा लइए, आ सांभली गुरु बोल्या के हे देवाउम्रियो ! यथासुखम् विलंब करशो नहीं ! पांचे पांडवोए महेले जह द्रौपदीदेवीने पूछ्युं त्यारे द्रौपदीदेवीए हुं पण तमारी साथे दीक्षा लइय तेम

जणाल्युं, त्सारपछी पांडुसेनने राज्याभिवेक करी राख्यगादीए स्थापन कर्यां. पांडुसेन राजाए जरदी दीक्षाभिवेकनी तैयारी करावी. एक हजार पुरुषोथी उपाडाय तेवी शिविका करावी यावत् शिविकामां वेसाडी धामधूमपूर्वक श्रीधर्मबोधस्थविर पासे लाव्या अने पांचे पांडवो दीक्षा लइ श्रमण थभा. श्रमण थइने चौदपूर्वनेो अग्यास कर्यो. घणा वर्षो सुवी छट्-अट्टम-दशम-अर्धमाससक्षमण-माससक्षमणी तपस्याओ करी आत्माने भावता थका विचरे छे, त्सारपछी ते स्थविर भगवंत एकसमय पांडुमथुरा नगरीना सहस्राभ्र-बनउद्यानथी बहार नीकळी विचरवा लाग्या, ते समये श्रीनेमिनाथप्रभु विचरता विचरता सौराष्ट्रदेशमां विचरे छे तेंवुं पांडवमुनिओए श्रवण करी श्रीनेमिनाथप्रभुने वांइवा माटे पोताना गुरु धर्मबोध स्थविरनी आज्ञा मागी.

पांचे पांडवो केवलज्ञान पामी मोक्षे सीधाव्या.

गुरुमहाराजनी आज्ञा पामी युधिष्ठिर आदि पांचे पांडवमुनिवरोए विहार कर्यो अने गामानुगाम विचरता हस्तिकरूप नामना नगरना सहस्राभ्रवन नामना उद्यानविषे आव्या. युधिष्ठिरमुनि सिवायना चारे मुनिवरोए माससमणना पारणने दिवसे पहेली पोरसीए स्रक्षायस्थान कर्युं अने बीजी पोरसीए ध्यान कर्युं ते पछी युधिष्ठिरमुनिवरनी आज्ञा पामी भिक्षा माटे फरवा लाग्या त्यां तेओए श्रवण कर्युं के श्रीनेमिनाथप्रभु उज्जयंतगिरिना( रैवताचलगिरिना ) शिखर विषे जलरहित एकमासना अनशनवडे पांचसो ने छत्रीस साधुओ सहित मोक्षे पधार्या. आ श्रवण करी गोचरी फरता पाछा फरी युधिष्ठिरमुनिनी समीपमां आवी लवेला आहारपाणी आलेवी इयाव्हीयं मत्तिक्रमी गोचरी युधिष्ठिरमुनिने देखाडी कहुं के-गोचरी अमे श्रीनेमिनाथप्रभुना मोक्षे सिधाव्याना समाचार सांमळता पहेलां वहोरेली छे, ते आपणे हवे परठवी दइ श्रीशत्रुंजयपर्वत पर धीमे धीमे चढी मरणनी अपेक्षा राख्या विना अनशन करवुं श्रेयस्कर छे.

आ प्रमाणे अन्योन्य नक्की करी विधिपूर्वक गोचरी परठवी श्रीशत्रुंजये आठ्या अने श्रीशत्रुंजये चढ्या, श्रीशत्रुंजय पर चढीने वे मासतुं अनशन करी केवलज्ञान-केवलदर्शन प्राप्त करी सिद्धिपदने पाव्या.

द्रौपदीसाध्वी काळ करी पांचमा देवलोकमां उत्पन्न थइ.

द्रौपदीदेवीए सुव्रताधार्यानी पासे दीक्षा-प्रव्रज्या ल्ह अगिआर अंगनो अभ्यास कर्यो अने एक मासतुं अनशन स्वीकारी आराधनापूर्वक कालघर्म पामी पांचमा देवलोकमां-ब्रह्मलोकमां दश सागरोपमना उत्कृष्ट आयुष्यवाला देवपणे उत्पन्न थइ. श्रीजम्बू-स्वामिए-श्रीसुधर्मास्वामिभगवन्तने पूछ्युं के हे प्रसु ! ते द्रुपददेव त्यांथी ज्यवीने क्यां जशो ! भगवाने कळुं के-हे जम्बू ! ते द्रुपद-देव त्यांथी ज्यवी महाविदेहक्षेत्रमां उत्पन्न थइ सर्वकर्मनो अंत करी मोक्षे जशो.

उपनय—तपनो क्लेश घणो कर्यो होय तो एण नियाणाना दोषथी जो तेने दूषित करवामां आवे तो ते तप मोक्षेने माटे थतो नथी. तेम मक्तिरहितपणे कडवा तुम्बडातुं खराब दान पात्रने विषे आप्युं तेथी नागश्रीने घणा भव भटकवुं पड्युं. आथी नियाणा विनानो तप करवो तेम सुपात्रदानमां भक्ति सहित दान देवुं ते श्रेयस्कर छे.

इति श्रीज्ञानासूत्रना सोळमा अध्ययननो सारांश समाप्तः ॥



॥ १७-श्रीअश्वज्ञात-अध्ययन सारांशः ॥

पूर्वापर-संबंधादि.

सोलमा अध्ययनमां नियाणुं करवाथी तेम निंदनीयदान करवाथी अनर्थनी प्राप्ति थाय छे ते कहुं. आ सतरमा अध्ययनमां इन्द्रियोने काबूमां न राखनारने अनर्थ प्राप्त थाय छे ते जणावे छे—

श्रीसुधमस्त्वामि गणधरभगवान् कहे छे के-हे जम्बू ! ते काळे अने ते समये हस्तिशिर्ष नामे नगर हतुं. त्यां कनककेतु नामनो राजा राज्य करतो हतो, तेम ते नगरमां घणा-घणा देशांतर जइ वेपार करनारा अने वहाणना साधनथी धंधो करनारा घनाब्ज वेपारीओ हता. एक वखत नाववणिकोए भेगा मली विचार करी व्यापार माटे वहाणो ल्हने लवणसमुद्र विषे चाल्या. केटलाक गाउ गया त्यां तो घणा उरुपतो थवा लाग्या, प्रतिकूल वायुवडे नावो आमतेम डोलवा लागी, मुख्य खलासी आवा संकट समयमां मुंझायो अने पोतानुं समुद्र सम्बन्धनुं ज्ञान पण तेने विस्मरण थयुं. आ समये घणा ( पावडी चलावनारा )-हलेसां मारनारा-कूवाना रक्षक, सढना रक्षक तथा सांयात्रिको मुख्य खलासी पासे आव्या, अने विचारमग्न थयेला मुख्य खलासी-निर्यामकने पूछवा लाग्या के-तमे शुं विचार करो छो ! आ प्रश्नना जवाबमां निर्यामके जणव्युं के-हे मायशाळीओ ! मारी मति खरेखर नाश पामी छे. आ श्रवण करी सर्वे भयभीत थयेला इन्द्र-स्कंधविगेरे देवोनी मानता करवा लाग्या. एक मुहूर्त पछी निर्यामकनी बुद्धि चाली अने समुद्र-शाखना ज्ञानने पाय्यो अने कहुं के-आपणे कालिकद्वीपनी समीपमां आव्या छीए तेम सामे देखातो कालिकद्वीप छे.

कालिकद्वीपे आगमन.

आ श्रवण करी सर्वे हर्षित थयेला अनुकूल वायुवडे कालिकद्वीप आब्या अने वहाणने लंगारी नानी होडीओवडे कालिक-द्वीपमां उतर्या, ते कालिकद्वीपमां घणी एवी रुपानी खाणो, सोनानी खाणो, रत्नानी खाणो अने वज्रजातिना रत्नानी खाणो जोह तेम उत्तम लक्षणवाळा जुदा जुदा रंगवाळा घणा एवा घोडाओ पण जोया. वहाणमांथी उतरेला वेपारीओ विगेरेते जोह तेम तेमनी गंधथी मय पामता अश्वो तो त्यांथी नाशी घणा योजन दूर गया, आथी नाववणिको परस्पर आ प्रमाणे बोलया के आ अश्वोवडे आपणने कांइ प्रयोजन नथी. अहिं घणी एवी रुपया विगेरेनी खाणो छे तेनाथी आपणां वहाणो भरी लेवां ते कल्याणकारी छे तेम अन्यो अन्य नक्की करी वहाणो भरीने दक्षिण तरफना अनुकूल वायुवडे गंभीरपोतवहनपट्टन हतुं त्यां आब्या अने गाडाओमां रुपा आदिने भरीने गाडाओवडे हस्तिशीर्षनगरना उद्यानमां आवी गाडां छोड्यां.

किंमति भेटणुं लेहने कनककेतु राजा पासे गया, अने राजाने भेटणुं कर्तुं. कनककेतु राजाए तेओने पूछयुं के-तमे लवणसमुद्रमां चारंवार प्रवेश करो छो, तो तमे तेमां कोइ आश्चर्य जोयुं होय तो कहो ? नाववणिकोए कालिकद्वीपमां आश्चर्यमूत जोयेला अश्वोतुं वर्णन कर्तुं. तेओए करेला अर्थना वर्णनने श्रवण करी कनककेतु राजाए तेओने कहुं के-तमे मारा कौटुम्बिक पुरुषो साथे त्यां जाओ अने त्यांथी घोडा लावो ! नाववणिकोए कौटुम्बिक पुरुषो साथे जवा कबुल कर्तुं. एटले कनककेतु राजाए कौटुम्बिक पुरुषोने आ घोडा पकडवानी तमाम सामग्रीपूर्वक नाववणिको सह कालिकद्वीपे जह घोडा लेइ आववा जणाव्युं.

इन्द्रियोने वश थयेला घोडाओतुं फसावतुं.

कौटुम्बिक पुरुषो गाडी गाडां तैयार करीने तेमां श्रोत्रहन्द्रियने प्रिय लागे तेवां घणां एवां वार्जित्रो वीणाओ-वल्लकीओ-आमरीओ-

कच्छपीओ अने संया विगरे, तथा घणा एवा काष्ठना पाटीया विषे चितरेला चित्रो, गुंथेली मालाओ आवी बीजी घणी एवी चक्षुने व्हाली लागे तेवी वस्तुओ, घणी एवी क्रोष्टपुट विगरे ब्राण इन्द्रियने प्रिय लागे तेवी वस्तुओ, घणी एवी खांड-साकर-गौळ विगरे जिब्हा इन्द्रियने प्रिय लागे तेवी वस्तुओ अने घणा एवा रुथी भरेलां वस्त्रो, रत्नकन्वलो, ओढवनां वस्त्रो, मसरुनी गादीओ गादलां वगरे स्पर्शेन्द्रियने अनुकूल वस्तुओनां गाडां भर्यां, भरेलां गाडाने लेइने पोतपट्टण आव्या अने वहाणो तैयार करी बधी वस्तुओ वहाणोमां भरीने वहाणो मारफते अनुकूल वायुवडे कालिकद्वीप आव्या, द्वीपना किनारा नजीक वहाणो नांगरी होडीओ मारफते बधी वस्तुओ किनारे लाव्या, अने घोडाओना बेसवाना-स्थानोए योग्य रीते वस्तुओ स्थापन करी, वाचिन्त्रो वगाडवा लाग्या. केटलाक अथो आ वस्तुओ विषे मूर्छां रहित थइ मय पामता ते स्थानेथी नाशी गया, अने केटलाक अथो आ वस्तुओ विषं मूर्छां पाम्या तेमने कौटुम्बिक पुरुषोए कपटथी गळामां-धगमां पाशवडे बांध्या अर्थात् पकडीने बांधी लीघा. पकडी लीघेला घोडाओने वहाणमां चढावी वहाण मारफते गंभीरपोतपट्टण बन्दरे आवी होडीओ मारफते घोडाओ अने वस्तुओ किनारे उतारी ते घोडाओने, वस्तुओने लेइने हस्तिशीर्षनगरमां कनककेतु राजा पासे आव्या अने घोडाओ अर्पण कर्या. खुश शयेल कनककेतु राजाए सर्वेनु सन्मान करी-सत्कार करी दाण माफ करी जवानी यावत् रजा आयी.

फसायेला घोडाओने घडेला दुःखो

कनककेतु राजाए ते घोडाओने शिक्षा आपवा सारु अश्वपालने बोलावी आया, अश्वपाले ते घोडाओ अश्वशालमां लेइ जइ मुखबंधनवडे, कानबंधनवडे, पुंछडाना वाळ बांधवावडे, खरीओ बांधवावडे, कांडां बांधवावडे बांध्या, अने खसी कर्या, चोकटा

चढावी, नेतरनी सोटीवेडे अने चाबकवडे मार मारी तेमने विनीत कर्या, अने कनककेतु राजाने अर्पण कर्या. आवी रीते ते समये ते अंधो घणा दुःखी थया यावत् आखुं जीवन बंधन पाम्या.

कथा-उपनयः—आसक्ति नहीं पामी नाशी छूटेला घोडावो मार खावावाळा न थया यावत् बंधन पाम्या विना यथेच्छ सुख भोगववावाळा थया, तेवी रीते जे साधु अथवा साध्वी-शब्द-रस-रूप-गंध-स्पर्श पदार्थो विषे आसक्त थता नथी ते आ लोक विषे पण पूजवा योग्य थाय छे अने संसारसमुद्रे तरि ज्ह मोक्षनां अनन्त सुखो भोगवे छे. जेवी रीते आसक्ति पामवाथी फसाइ गयेला अने तेथी दुःखमी परंपराने पामी यावत् जीवन बंधन पामेला अश्वो थया तेवी रीते जे साधु अथवा साध्वी दीक्षा लीघा पछी शब्द-रूप-रस-गन्ध-स्पर्शना विषयोमां आसक्त थाय छे ते आ लोकमां निदनीय थाय छे अने अनन्त संसारमां भ्रमण करी दुःखोने पामे छे.

॥ इति श्री सत्तरमा श्रीज्ञानाध्ययननो सारांशः समाप्तः ॥

॥ अठारमा श्री सुसमाज्ञात-अध्ययननो सारांशः ॥

चिंतातिनै काढी सूक्यो.

पूर्वमा १७ मा अध्ययनना सारांश विषे इन्द्रियवशवर्ति थतो अनर्थ अने जितेन्द्रियने थतो लाम कबो आ अठारमा अध्ययननां लोभने वश नहीं थनारने थतो लाम कहे छे.

ते काले ते समये ( महावीर प्रभु ज्यारे आ हकीकत जणावी रखा छे ते समये ) राजगृही नगरी विषे वन्य नामनो सार्थवाह



छे तेने भद्रावती नामनी भार्या छे अने धन, धनपाळ, धनदेव, धनगोप अने धनरक्षित नामे पांच पुत्रो अने सुंसमा नामनी पुत्री हती, तेम चिखत नामनो दासपुत्र हतो. आ चिखत बाळकाने रमाडवामां कुथळ हतो तेथी सुंसमा बालिकाने रमाडतो तेम बीजां घणां छोकरा-छोकराओने, कुमार-कुमारिकाने रमाडतो हतो. केटलाक समय पछी ते चेलत दासपुत्र छोकरा विगेरेनी कोडीजो लालना गोळा, मोय, दडा, दींगलादींगलीजो, वस्त्रो, आमरणो, अलंकार हरी लेतो अने तेमना उपर आक्रोश करतो, तेमने मारतो, तेमनी मश्करीजो करतो, आथी ते छोकराजो विगेरे रडवा लाग्या आथी तेमना मातापिताओए धन्यशेठने तेमना नोकर-चिखतना त्रासनी हुक्रीकत कही. धन्यशेठे चेलतने उपको आपवा छतां चेलत छोकरा विगेरेने त्रास आपतो विरस्यो नहिं आथी धन्यशेठे चेलतने काडी मूक्यो.

विजयचोरजुं मृत्यु.

धन्यशेठने त्यांथी काडी मुकायेळ चिखत राजगृहीना नाना मोटा बजारो विषे अने देवकुलो, डायराजो, परबो, जुगारखाना स्थानो तेमज दाह( मदिरा )ना स्थानो विषे रसडतो-स्वच्छंदी-अंकुशविनानो थयेलो मदिरापान-चोरी अने मांस खावामां आसक थयो थावत् जुगार-वेस्थ्या-परस्त्रीमां लंपट थयो अर्थात् साते व्यसनवाळो थयो.

आ समये राजगृही नगरीथी थोडे दूर अग्निखूणामां सिंहशुफा नामनी चोरपल्ली छे. ते चोरपल्लीमां पांचसो चोरोनो नायक विजय नामे सेनापति हतो, ते अति पापिष्ठ हतो. चोरी करवामां बहादूर होवाथी तेने लोको शूरवीर-हुडप्रहार करनार साहसिक अने शब्दवेधी कहेवा हता. आ विजयचोर, जारपुरजो, गठीयाजो, विश्वासघातीजो, जुगारीजो, अने गुन्हेगारोने आश्रय आपतो अर्थात्

तेथीने शरणभूत थत्तो हत्तो, आ विजयचोर गामो विगेरेमां घाड पाडतो, गायो चोरतो अने लोकाने केद करतो. आम अनेक प्रकारे प्रजाजनाने कनडतो हत्तो. चिखत लोकोथी परामव पामवाथी विजयचोराने शरणे आव्यो अने रब्यो तेम विजयचोरानी साथे रही घाडो विगेरे पाडवा लाय्यो. चेलातनी होंशियारी जोइ विजयचोरे चेलातने घणी चोरविद्याओ, चोरमन्त्रो, चोरनी मायाओ अने चोरना छळकपटोमां पारंगत कर्यो. एक समये विजयचोर काळघर्म पाम्यो. अर्थात् मरण पाम्यो. तेनी पांचसो चोरोए मळी बहोळी रिद्धिपूर्वक इमशान यात्रा काढी अने तेनुं सुखुकार्य कर्युं.

सुसमानुं अपहरणादि.

घणी एवी विद्याओ अने वीरता चिखत पासे जोइ चोरोए भेगा थइ विजयचोराने स्थाने चिखतने स्थाप्यो. आथी चिखत पांचसो चोरानो अधिपति थयो. अधिपति बनेला चिखते पांचसो चोरानुं सन्मान-सत्कार करी कळुं के-राजगृही नगरमां धन्य नामे सार्थवाह छे ते घणो धनवान छे, धन्यसार्थवाहने पांच पुत्रो अने रूपवान सुंसुमा नामनी पुत्री छे. आपणे राजगृही नगरीमां जइ धन्य सार्थवाहनुं घर लुंटीए अने लुंटांमां.—जे धन, सोनुं, वळ आवे ते तमारें बघायें लेवुं अने मारें सुंसुमापुत्री ग्रहण करवी. बघाय चोरोए आ वात कबुल करी.

चोर सेनापति चिखत पांचसो चोरो सह मंगलनिमित्ते भींजयेला चर्म पर बेठो अने दिवसना छेळा पहोरे बस्तरो बांधी छातीए ढालो पहेरी, म्यानोमांथी तलवारो काढी, पर धनुषो विषे पणचो चढावी बाणाने मूकवा माटे माथामांथी बाणो काढ्या, बरळी-भाला उछाळवा लाग्या, तेम जंघाए घुघरीओ लटकावी, शीघ्रपणे नालिंत्रो वगाडवा लाग्या अने सिंहानाद करता सिंहगुफामांथी नीकळी

राजगृही' नगरीथी थोडे दूरना जंगलमां संसाथा. मध्यरात्रिना समये ज्यारे लोको निद्रामां हता त्यारे पूर्वदिशाना दरवाजे आव्या अने 'चेर्यात' सेनापतिए जलनी मसकमांथी थोडुं पाणी ल्ह आचमन करी ताळा उघाडवानी विद्यातुं स्मरण करुं, अने दरवाजाना कमाड उपरा मन्त्रेछं पाणी छाट्युं एटले दरवाजाना कमाडो उघडी गयां, खुळा थयेला दरवाजाथी सर्वेए नगरीमां प्रवेश कर्यो अने बोल्वा लाग्यां;— पांचसो चोरो सह चैलात सेनापती धन्यसार्थवाहने त्यां घाड पाडवा जाय छे, जेने नवी मातातुं दूध पीवुं होय ते बहार नीकळो !!! एम बोल्ता बोलता धन्यसार्थवाहना घरे आव्या अने घर उघाडी लुंटावा लाग्या. आ जोइ धन्यसार्थवाह पांच पुत्रो सह एक बाजु संताइ गया; चैलाते सुंसमातुं हरण करुं, अने पांचसो चोरे धन विगेरेनी लुंटा करी, राजगृहनगरीथी नीकळी मर्भा. धनसार्थवाहे आ जोइ नगररक्षकोनी पासे जह कहुं के -तमे मने सहाय करो, धन तमारुं अने छोकरी मारी, चालो ! लइकरसहित धन्यसार्थवाह पांच पुत्रोयुक घाडपाडुयोनी पाछळ पळ्या अने युद्धमां हारी गयेला चोरो धन विगेरे छोडी नाशी गया. धन ल्ह लइकरना माणसो तो चाली गया, अने चिखत सुंसमाने उपाडी वच्चे गाम न आवे तेवा मागें भागतो जोइ धन्यसार्थवाह पांच पुत्रोयुक तेनी पाछळ पळ्यो. यांकी गयेला चिखते पाछळ आवता धन्यसार्थवाह आदिने जोइ सुंसमाबाळातुं पोतानी तलवारथी मस्तक कापी नाळ्युं-अने ते मस्तक ल्हने जंगलमां चैलात नाशी गयो, अने निर्जन अटवीमां तुघाथी पराभव पायेलो दिशा मार्ग खुलेलो मरी गयो.

१ श्री आत्मयकसत्रमां तेने ' मार्गमां साधु मळ्या तेमना सुखथी उपवास-संवर-विवेक आ पदोने पामीने साधुना ठेकाणे कायोत्सर्गमां रही त्रणे पदोने मावतो कीडीवोथी आळा शरीरे चालणी समान थयेलो शुभध्यानथी काळ करी देवलोकां गयो तेम जणावुं छे

उपनय—

जे साधु साध्वी प्रवज्या लेइने—वमनने झरनारा, अने नाश पामवाना स्वभावबाळा, शरीरनी शोभारूप माटे आहार करे छे, अर्थात् खाद्यलोलुपता अने विषयना पिपासु थाय छे ते साधु साध्वी चिंतात दासपुत्र दुःखी थयो तेम दुःखी थाय छे यावत् श्रावक-श्राविका-ओने हीलना करवा लायक थइ दीर्घकाल संसारमां भटके छे.

धन्यसार्थवाह पांचे पुत्रो सह चिंतातनी पाछल दोडतां थाकी गया, आथी पकडवा असमर्थ थयेला पाछा फरतां सुंभुमापुत्रीतुं धड जोइ कुहाडाथी कापेला चंपकना दृक्षनी जेम भूमि पर पड्या, अने ज्यारे सावधान थया त्यारे घणा समय सुधी विलाप करवा लाग्या. शाकनी साथे तृषा लागवाथी चारे दिशाए जलनी तपास करी पण जलनी प्राप्ति न थइ. धन्यसार्थवाहे पुत्रोने कडुं के-हे पुत्रो ! पाणी विना नगरीमां जवा अशक्त थयेला आपणे छए अहिं मृत्युं पामीडुं माटे हे पुत्रो ! तमे एम करो ! मने जीवितरहित करो अने तमे सर्वे मारा मांस-रुखिलो आहार करी स्वस्थ थई अटवी पार पामी राजगृहीमां जजो अने अर्थ, धर्म अने पुण्यना भागी बजो !

जेष्ठपुत्र-हे पिताजी ! तमे अमारा पिता छो, गुरु छो, देवरूप छो, कष्टथी रक्षण करनारा छो तो हे तात ! अमे तमने केम जीवितथी दूर करीए ? तथा तमारा मांस-रुखिलो आहार केम करीए ? तेथी हे पिता ! तमे मारा जीवितने दूर करो ! तथा मारा मांस-रुखिलो आहार करी अटवी पार पामो ! त्यारे बीजा, त्रीजा, चोथा अने पांचमा पुत्रने धन्यसार्थवाहे कडुं पण बघाय पुत्रोए जेष्ठपुत्रनी जेम जबाब आप्यो.

धन्यसार्थवाहे विचार करी पुत्रोने कड्डुं के-आ पुत्री सुसुमा जीवरहित थयेली छे तेतुं मांस आदिनो आहार करी स्वस्थ थइए, पांचे माहओए आ वात अंगीकार करी. अरणिना काष्ठथी अग्नि उत्पन्न करी मांस पक्की खाधुं अने रुधिरथी स्वस्थ थया छता अटवी उलंघी राजगृहनगरे आवी पोताना घेर आन्व्या. अने सुसुमा पुत्रीतुं लौकिक कार्य कर्तुं यावत् अनुक्रमे शोक रहित थया.

ते काळे ते समये श्रमण भगवान महावीर प्रभु राजगृहनगरनी बहार गुणशीलचैत्यविषे समवसर्या हता तेमनी पासेथी धर्म श्रवण करी धन्यसार्थवाहे प्रव्रज्या लीघी अने अगियार अंगना जाणकार थया तेम एक मासनी सलेखना ( अनशन ) करी सौवर्म-देवलोकमां उत्पन्न थया, त्यांथी च्यवी महाविदेहक्षेत्रमां जन्म पामी संयम ल्ह सिद्धिपदने पामथे.

कथानो परमार्थः—

धन्यसार्थवाहे वर्ण-रूप-बल के विषयोने माटे सुसुमापुत्रीना मांस-रुधिरनो आहार कर्तुं न होतो, किन्तु राजगृह नगरने पामवा माटे आहार कर्तुं हतो. तेम जे साधु अथवा साध्वी-व्रमन-पित्त-शुक्र अने रुधिरथी झरता यावत् अवश्य त्याग करवा लयक आ औदारिक शरीरना वर्ण-रूप-बल के विषय माटे आहार करता नथी परंतु एक सिद्धिगति पामवामां सहायभूत थवा माटे आहार करे छे, ते आ भवमां साधु-साध्वी श्रावक अने श्राविकाजोथी पूजनीय थाय छे, यावत् मोक्ष पामे छे.

॥ इति अष्टादशाध्ययनस्य सारांशः समाप्तः ॥



## ॥ ओगणीसमा श्रीपुण्डरीक-अध्ययननो सारांश ॥

पूर्वना अध्ययन विषे संवर न करनारने अनर्थ, अने संवर करनारने लाभ दर्शाव्यो, आ अध्ययन विषे चिरकाल संवर कर्था छता तेनो मंग करे तो पण अनर्थ थाय छे, अने अरुपकाल पण संवर करे तो तेने लाभ थाय छे ते कहे छे.

पूर्व महाविदेहक्षेत्र विषे सीता नामनी महानदीना उत्तर कांठे सीतासुख नामना वनखंडनी पश्चिमे एक शैलक नामना बल्लारा पर्वतनी पूर्व दिशाए पुष्कलावती नामना विजयमां पुंडरीकिणी नामनी नगरीमां महापद्म नामे राजा हतो तेमने पद्मावती नामे राणी अने पुंडरीक-कंडरीक नामना पुत्रो हता तेमां पुंडरीक युवराज हतो, पांचसो मुनि साथे परिवरेला धर्मघोष नामना स्थविर पासे पुण्डरीक युवराजने गादी पर बेसाडी महापद्मराजाए दीक्षा लीधी. महापद्म अनगार चौदपूर्वी थइ घणा काल संयम पाळी भोक्षसुखने पाम्या.

ते बार पछी पुंडरीकिणी राजधानी बहार नलिनीवन नामना उद्यान विषे स्थविर मुनि पधार्या तेमने वंदन करवा पुंडरीक राजा गया, कंडरीक पण लोकौना शब्दो श्रवण करी स्थविर पासे गया. पुंडरीक राजा प्रतिबोध पामी श्रावक थया अने पोताना घेर गया. त्यापछी कंडरीक युवराज उमा थइ यावत् आ प्रमाणे कहेवा लाग्यो के-हे प्रभु ! हुं पुंडरीकराजानी राजा लेह यावत् दीक्षा ग्रहण करीश ! आ सांभली स्थविरमुनिए पुंडरीकने कबुं के-तने जेम सुख उपजे तेम कर, कंडरीक स्थविरमुनिने वंदन नमस्कार करी ज्यां पुंडरीक राजा हता त्यां गया.

कंडरीक पुंडरीकराजाने विनंति करे छे, अने कंडरीक दीक्षा ले छे.

कंडरीक पुंडरीकराजाने बे हाथ जोडी कहेवा लाग्या के-हे राजन् ! में स्थविर साधु पासे धर्म श्रवण कर्जो छे, ते धर्म रुच्यो

हे तेयासभारी आक्षा पास्यो छतो प्रवज्या लेवा इच्छुं छुं !, पुंडरीकराजा कंडरीकयुवराजनी आ वात श्रवण करी कंडरीकयुवराजने कडु के-हे माइ ! तुं अयुना दीक्षा न लइश, हुं तने मोटा-मोटा राब्याभिवेकवडे आभिवेक करवानो छुं. ते सांभळीने कंडरीके पुंडरीकनी आ वातनी आदर न कर्यो अने मौन रबो. पुंडरीकराजाए बे त्रणवार कडुं किन्तु कुंडरीक मौन ज रबो. त्यारे पुंडरीकराजाए बीबी धणी रीते समजाव्यो छतां ज्यारे कंडरीक न समज्यो त्यारे इच्छा विना दीक्षानी संमति आपी. उद्यानमां जइ स्थविरमुनिने पुंडरीकराजाए कंडरीकनी शिष्यरूप भिक्षा आपी, कंडरीक प्रवज्या लइ अनगार थया यावत् अग्यार अंगना अभ्यासी थया, अने स्थविरमुनिनी साथे गामानुगाम विचरवा लाग्या.

**रोगथी व्यास थयैला-कंडरीकमुनि.**

ते वार पळी कंडरीक अनगारने सुका-लुखा आहारे करीने शैलकमुनिनी जेम दाहज्वर उत्पन्न थयो, यावत् व्याधिथी व्यास थयैला गामानुगाम विचरता स्थविरमुनि साथे पुंडरीकिणी नगरीना उद्यान विषे पधार्या. पुंडरीकराजा वांदवा माटे आब्या तेमने गुरुमहाराजाए धर्म श्रवण कराव्यो. पुंडरीकराजा धर्म श्रवण करी, वंदना-नमस्कार करी कंडरीकमुनि पासे वंदना-नमस्कार करवा गया. वंदना नमस्कार करी कंडरीकमुनिनुं शरीर जोतां रोगग्रस्त लाग्या. आथी त्यांथी उठी पुंडरीकराजा स्थविरमुनिवर पासे जइने कंडरीकमुनिनी चिकित्सा कराववा माटे यानशालामां पधारवा विनंति करी, पुंडरीकराजानी विनंति स्वीकारी स्थविरमुनि सहु साधुओ साथे यानशालाए पधार्या. अहि पुंडरीकराजाए शैलकमुनिनी मंडुकराजाए जेम चिकित्सा करावी हती तेम कंडरीकमुनिनी चिकित्सा करावी तेथी रोगरहित थया यावत् शरीर बलवाळा थया. स्थविरभगवान राजने पूछीने विहार करी गया, किन्तु राज्यना आहार विषे

कुछ शयैला कंडरीकमुनिए विहार न कर्यो अने क्रमे क्रमे वधु शिथिलाचारवाला थइ गया.  
आसक्तिना प्रतापे कंडरीकमुनिनुं थयेलु पतन, पुंडरीकराजाए ग्रहण करेलु संयम.

पुंडरीकराजा—कंडरीकमुनिनो शिथिलाचार जाणी अन्तेपुरी सह कंडरीक मुनि पासे आव्या अने वंदना-नमस्कार करी कहुं.  
हे मुनिवर ! तमे धन्य छो ! कृतार्थ छो ! पुण्यवन्त छो ! तमे मनुष्यजन्म-जीवननुं फल साहं प्राप्त कर्युं ! केमके राज्य अने अन्तःपुर  
त्याग करी संयम ग्रहण कर्युं छे, हुं अधन्य छुं ! पुण्यहीन छुं ! राज्य अने अंतःपुर विषे आसक्त थयेलो-मूर्च्छित थयेलो छुं ! यावत्  
संयम ग्रहण करवाने अशक्त थयो छुं, तमे भाग्यशाली छो ! आम कबा छतां कंडरीकमुनि राजानी आ वातनो आदर करता  
नथी पण मीन रहे छे. आथी बे त्रणवार पुंडरीकराजाए कहुं त्यारे लज्जाथी मोटा भाइना गौरवने छेइ राजानी रजा छेइ स्थविरमुनिनी  
पासे विहार करी गया, अने उग्र विहार करता स्थविरमुनिनी साथे विचरवा लाग्या. त्यार पछी चारित्रना परिणामथी रहित थयेला  
कंडरीक अंगार स्थविरमुनिनी आज्ञा लीघा विना धीमे धीमे नीकली पुंडरीकिणी नगरीना अशोकवनमां आवी अशोकवृक्षनी नीचे  
पृथ्वीना शिलालठ विषे बैठ्या अने आर्चध्यान करवा लाग्या, तेमनी आ स्थिति अशोकवनमां आवेली धावमाताए जोइने सर्व  
दृत्तात पुंडरीकराजाने जणाव्यो. पुंडरीकराजा तुरत अन्तःपुरसहित त्यां आव्यो अने वंदना नमस्कार करी पूर्वनी जेम तेना वस्त्राण  
कर्या पण कंडरीके तेनो आदर न कर्यो, त्यारे पुंडरीकराजाए पूछ्युं के हे भगवंत ! तमारे भोगवडे अर्थ छे ? कंडरीके जणाव्युं के  
हा ! मारे भोग भोगववानी इच्छा छे. पुंडरीकराजाए कौटुम्बिक पुरुषने बोलावी कंडरीकनो राज्याभिषेक कराव्यो अने राज्यगादी विषे  
स्थापन कर्या. अने स्वयं पोते-पुंडरीकराजाए कंडरीकनो साधुवेष पहैर्यो अने स्वयं लौच करी गुरुमहाराज पासे ज्यां सुधी व्रत



( संयमप्रतिज्ञाओं ) न ग्रहण करं स्यांसुधी मारे आहार न करवो तेवी प्रतिज्ञा करी विहार करी गया.  
कंडरीकनी थयेली दुर्गति.

राजा थयेला कंडरीकने रसवाळा पान भोजन करवाथी तथा अति जागरण अने अति भोजन करवाथी आहार पची शक्यो नही. आथी मध्यरात्रिना समये तेना शरीरमां असह्य गाढ वेदनाओं उत्पन्न थइ यावत् दाहज्वर उत्पन्न थयो, आ समये तेनी सारवार कोहए न करवाथी तेमनी उपर खुब दुर्घ्यान चितवतो तेम राज्य-देश अन्तःपुर विषे तन्मय थयो छतो काळ करीने सातमी नारकीमां उत्कृष्टस्थितिए नारकपणे उत्पन्न थयो.

उपनय—

जे साधु अथवा साध्वी दीक्षा ग्रहण करीने फरीथी मनुष्य संबन्धी कामभोगनी इच्छा करे छे ते कंडरीक राजानी जेम संसारमां रलडे छे.

पुंडरीक अनगारनी थयेली सद्गति.

पुंडरीक अनगार स्थविर मुनि पासे विचरता विचरता आव्या अने संयम प्रतिज्ञाओं ग्रहण करी, छट्टना उपवासना पारणे प्रथम पोरिसीए स्वाध्याय करी यावत् भिक्षा माटे फरतां ठंडू-छड्डुं भोजन व्होरी लावी गुरुने बतावीने तेमनी आज्ञा पामी लोलुपता विना आहार कर्यो छे, ते वार पछी रसरहित सराबरसवाळा ठंडा अने ल्ह्या पानभोजननो आहार करवाथी, मध्यरात्रिए धर्मजागरिका जागतां आहार पाचन थयो नही. आथी असह्य शरीर विषे वेदना उत्पन्न थइ अने शरीरमां दाहज्वर उत्पन्न थयो. बल रहित थयेला

पुंडरीकअणगारे चारशरणां अंगीकार करी, आलोचना-प्रतिक्रमण करी काळ समये काळ पामी सर्वार्थसिद्धविषे देवपणे उत्पन्न थया, त्यांथी च्यवीने महाविदेह क्षेत्रने विषे सिद्धपदने पामशे, यावत् सर्व दुःखनो अंत करशे.

उपनय—

जे साधु अथवा साध्वी प्रव्रज्या ग्रहण करीने मनुष्य सम्बन्धी कामभोगमां आसक्त न थाय, यावत् तेमां रागवाळा न थाय ते, धणा एवा साधु-साध्वीओथी तथा श्रावक-श्राविकाओथी आलोकमां पूजनीय थाय छे, परलोकमां-संसारनो अन्त करी पुंडरीक अन-गारनी जेम अनन्तसुखने पामे छे.

इति ओगणीसमा श्रीपुंडरीक अध्ययननो सारांश समाप्तः

॥ एवं श्रीज्ञाताधर्मकथाङ्गे प्रथम श्रुतस्कन्धस्य सारांशः समाप्तः ॥

॥ श्रीज्ञाताधर्मकथाङ्गना द्वितीय श्रुतस्कन्धस्य सारांशः ॥

प्रथम श्रुतस्कंधमां आसपुरुषना हित्तशिक्षाना दृष्टान्तोथी धर्मनु रहस्य बतावुं, हवे द्वितीय श्रुतस्कन्ध विषे धर्मकथाओथी धर्मीनां चरित्रेनुं कथन करे छे.

ते काले ते समये राजगृहनामनुं नगर हतुं, अने तेनी बहार ईशानखूणे गुणशैलक नामनुं चैस्य हतुं त्यां उत्तम जाति अने उत्तम

कुलवाळा-चौदपूर्वी तथा चार ज्ञानवाळा एवा श्री सुधर्मास्वामि गणधर भगवान पांचसो मुनिवरो सह ग्रामानुग्राम विचरता पध्या, भेगी श्येली पर्वदाने तेओए धर्म श्रवण कराव्यो अने धर्म श्रवण करी पर्वदा गइ.

ते वार पछी तेमना शिष्य आर्यजन्वुस्वामि नामना अनगारे तेमने प्रश्न कर्यो के-हे भगवान् ! सिद्धिगति पामेला श्रीमहावीर-स्वामिए छट्टा अंगना पहेला श्रुतस्कंधना द्रष्टान्तो आपे कखा छे, तो हे भगवान् ! बीजाश्रुतस्कंधमां तेओए धर्मकथा-ओनो कयो अर्थ कब्यो छे !

हे जन्वू ! जातिसम्पन्न एवा महावीरप्रभुए आ बीजा श्रुतस्कन्धविषे दशवर्गो( विभागो ) नीचे प्रमाणे प्ररूप्या छे. १ चमरे-न्द्रनी अग्रमहिषीओ, २ वैरोचनइन्द्र( बलीन्द्र )नी अग्रमहिषीओ ३ असुरेंद्र सिवाय दक्षिण दिशाना भवनपतिना जे नव इन्द्रो छे तेमनी अग्रमहिषीओ, ४ असुरेन्द्र विना उत्तरदिशाना नव इंद्रोनी अग्रमहिषीओ, ५ दक्षिणदिशाना वानमंतर इन्द्रोनी अग्रमहिषीओ, ६ उत्तरदिशाना वानमंतर इन्द्रोनी अग्रमहिषीओ, ७ चन्द्रनी अग्रमहिषीओ, ८ सूर्यनी अग्रमहिषीओ, ९ शक्रेन्द्रनी अग्रमहिषीओ अने १० ईशानेन्द्रनी अग्रमहिषीओ आम दश वर्गो प्ररूप्या छे ( अत्र अग्रमहिषीओ एटले मुख्य देवीओ जाणवी ).

प्रथमवर्ग—प्रथमवर्गमां १ काली, २ राजी, ३ रजनी ४ विद्युत् अने ५ मेघा एम पांच देवीओना पांच अध्ययनो छे. ते हवे अनुक्रमे कहे छे ( आ पांचे चमरेन्द्रनी अग्रमहिषीओ-मुख्य देवीओ छे. )

### कालीदेवी-१

ते काले ते समये राजगृहनगरीनी बहार गुणशील चैत्यमां श्री महावीरस्वामि समवसर्या, श्रेणिकमहाराजा प्रभु पासे आवी

प्रभुने वंदना नमस्कार करी देशना श्रवण करता हता.

ते समये चमरचंचा राजधानी विषे कालावतंसक नामना भवनमां काल नामना सिंहासन पर काली नामनी देवी बेठी हती, ते चरा हजार सामानिकदेवीओ, चार महचरिकाकादेवीओना परिवार सह त्रण पर्षदाओ ( समाओ ), सात प्रकारना लश्करना अधिपतिओ, सोल हजार आत्मारक्षकदेवो तथा बीजा ते भवनमां रहेला घणा असुरदेवो अने देवीओथी परिवरेली हती.

ते कालीदेवीए श्री महावीरस्वामि भगवान्ने राजगृह नगर गुणशील चैत्यमां समवसरेला अवधिज्ञानथी जोया, अने प्रभुदर्शनथी हर्षित थयेली ते कालीदेवां सिंहासनथी उभी थई पादपीठथी उतरी मोजडीओ काढीने प्रभुसन्मुख सात-आठ डगलां चाली, डाबा ढींचणने उंचो अने जमणा ढींचणने भूमि पर स्थापी, त्रण वार मस्तक पृथ्वीतलने अडकाडी कंइक मस्तक नमावे छे. तेम कडां अने बाजुबन्ध विंगेरे अलंकारोथी अलंकृत मुजाओवाळी, बे हाथ जोडी ' नमुत्थुणं ' कही वंदना-नमस्कार करी पूर्वसन्मुख सिंहासन पर बेठी.

कालीदेवीतुं प्रभु पासे आगमन.

ते वार पछी ते कालीदेवीने प्रभुमहावीरस्वामिने वंदना नमस्कार करी सेवानो लाम लेवा विचार थयो, अध्यवसाय थयो, आथी सूर्यभदेवनी जेम आभियोगिक देवो पासे तेणीए दिव्यविमान तैयार करावुं. एक हजार योजनना विस्तारवाळा ते विमानमां बेसी प्रभु पासे आवी पोतानां नाम गोत्र कहेवापूर्वक नाट्यविधि देखाडीने गइ अर्थात् नाटक करीने जेवी रीते आवी हती तेनी रीते पाछी गइ. कालिदेवी-संबन्धि श्री गौतमस्वामिनी पृच्छा.

ते वार पछी श्री गौतमस्वामिए श्री महावीर प्रसुने वंदना-नमस्कार करी पूछ्युं के-हे भगवन् ! आ कालीदेवी क्यां गइ ? अने तेमी आबी मनोहर ऋद्धि क्यां गइ ?

श्री महावीर प्रसुए उत्तरमां दूटाकारशाळाजुं दृष्टान्त पूर्व कहेला प्रमाणे कहुं.

से वार पछी श्री गौतमस्वामिए श्री महावीर भगवानने पूछ्युं के-हे भगवान् ! ऋद्धिवाळी कालीदेवीने ते दिव्यऋद्धि जुं करवाथी मली ! देवभवमां ते ऋद्धि शी रीते प्राप्त थइ ? तेना उपभोगमां ते ऋद्धि शी रीते तेनी पासे आबी ?

कालीदेवीनो पूर्वभव.

प्रसु महावीरस्वामिए उत्तरमां जणाव्युं के-हे गौतम ! ते काळे ते समये जंबूद्वीपना भरतक्षेत्रने विषे आमलकल्पा नामनी नगरी हती. ते नगरीनी बहार ईशान खूणे आम्रशाळ बन हजुं, अने ते नगरीमां जितशत्रु नामनो राजा हतो. तथा ते नगरी विषे काळ नामनो गाथापति हतो तेने कालश्री नामनी भार्या हती. ते कालश्रीने काली नामनी पुत्री हती. ते काली वयवडे मोटी होवा छतां कुमारी हती, तेना स्तन नितंब सुधी लटकता होवाथी पति शवाने योग्य पुरुषो तेने जोइने वैराग्य पामता अर्थात् तेने इच्छता नहीं होवाथी ते पति वगारनी रहेली हती.

ते काळे ते समये पुरुषादानीय श्रीपार्श्वनाथ अरिहंत सोल हजार साधुओ अने आडनीश हजार साध्वीओथी परिवरेला आमलकल्पा नगरीना ईशानखूणामां आवेला आम्रशाळ बन नामना उद्यान विषे समवसर्यां, ते कालीए प्रसु पधार्याजुं श्रवण करी मातापितानी आज्ञा पामी प्रसुनी देशना श्रवण करी आनंद पामीने प्रसुने वंदना-नमस्कार करी कहुं के हे प्रभो ! हुं मारा पितानी रजा लेइने

पछी हुं आपनी पासे प्रब्रज्या ग्रहण करुं, त्यारे श्रीपार्श्वनाथ प्रभुए कहुं के-हे देवानुप्रिया ! तने सुख उपजे तेम कर. ते वार पछी ते कालीकुमारिका हर्ष पासी प्रभुने वंदना-नमस्कार करी आमलकरुपा नगरी विषे ज्यां पोताना मातापिता हता त्यां आवी. कालीए लीधेली दीक्षा.

काली कुमारिका-मातापिताने विनंति करवा लागी के-हे मातापिता ! हुं पार्श्वनाथ अरिहंतनी पासे धर्म सांभळी संसारना भयथी उद्देग पासी छुं, तेम जन्म, जरा अने मरणथी भय पासी छुं तेथी तमारी अनुज्ञा पासीने हुं पार्श्वनाथ प्रभु पासे प्रब्रज्या लेवा इच्छुं छुं. ते सांभळी मातापिताए कहुं-हे देवानुप्रिया ! जेम तने सुख उपजे तेम कर, धर्मकार्यमां विलंब न कर.

त्यारपछी काल गाथापतिए विपुल अशन, पान, खादिम अने स्वादिम भोजन तैयार कराव्यां अने-मित्र-ज्ञाति-स्वजन-सवन्धी अने परिजनने आमन्त्र्या, आमन्त्रेला महेमानोनो सत्कार करी, सम्बन्धी अने परिजननी पासे कालीदारिकाने कलजोवडे स्नान कराव्युं तेम सर्व आमूषणादिथी अलंकृत करी, एक हजार पुरुषोथी वहन करवा योग्य शिबिका विषे कालीपुत्रीने वेसाडी मर्घ परिवार साथे सर्व ऋद्धिपूर्वक वाजिन्त्रोना नादोसहित कालीने आम्रशालेने विषे श्री पार्श्वनाथप्रभु समीपे लाव्या.

काल गाथापति विगेरेए श्री पार्श्वनाथप्रभुने विनंति करी के हे प्रभो ! आ अमारी कालीपुत्री अमने वहाली छे, ते संसारना भयथी उद्देग पासेली छे, आथी आपनी पासे दीक्षा ग्रहण करवा इच्छे छे. तेथी अमे आपने आ अमारी कालीपुत्रीने शिष्यारूप भिक्षा तरीके आयीए छीए ते आप ग्रहण करो ! भगवाने कहुं के-हे देवानुप्रियो ! जेम तमने सुख उपजे तेम करो.

तेवारपछी कालीकुमारी प्रभुने वंदना-नमस्कार करीने ईशानदिशामां जइने पोतानी मेले ज आमूषण आदि उतारी लोच कर्यो,

अने प्रसु पासे आबी विनंति करी के-हे विभो ! मने दीक्षा आपो एम हुं इच्छुं छुं !

तेवारपछी प्रसुए पोतेज कालीसाध्वीने दीक्षा आपी अने पुष्पचूला आर्याने शिष्या तरीके सुपरत करी. पुष्पचूला आर्याए तेणेने शिष्या करी, काली आर्या पुष्पचूला आर्यानी साथे विचरती अगीआर अंग भणी, छट्ट-अट्टम आदि तपस्या करती यावत् इर्यासमित्तिवाली गुप्त ब्रह्मचारिणी थइ.

काली आर्यानी जीवनचर्या.

एकदा काली आर्या शरीरबहुसिका-एटले स्नानादिकवडे शरीरनी शुश्रूषा करवाथी ते शबलचारिनी थइ, तेथी ते वारंवार हाथ-पग-मस्तक-मुख-स्तनना आंतरा-कालना आंतरा अने गुह्यस्थानना आंतरा घोवा लागी. तेम ज्यां ज्यां ते कायोत्सर्ग-शय्या अने स्वाध्याय करती त्यां त्यां प्रथम जलनां छोटनां नाली पछी बेसती, सूती अने स्वाध्याय विगोरे करती हती. गुरुणी पुष्पचूला आर्याए कळुं-“ हे देवानुग्रिय ! साध्वीओने शरीरबाहुसिका थनुं करणुं नथी, तुं जे वारंवार हाथ-पग विगोरे घोवे छे, पाणी छोटनी बेसवा विगोरे करे छे तेनी तुं आलोचना कर ! यावत् प्रायश्चित् अंगीकार कर !” आम हितशिक्षा आपी पण काली साध्वीए तेनो आदर न कर्यो. आथी वारंवार आ पापथी रोकवा टक्कोर करी, साध्वीओए पण तेने हेलना करी वारंवार निवारवा लागी. त्यारे काली साध्वीए जुदा उपाश्रथे रहेवानो विचार कर्यो अने जइने जुदा उपाश्रथे रही. हवे अहिं एणीने कोइ टक्कोर करनार न होवाथी वारंवार हाथ, पग आदि घोवा विगोरे करवा लागी यावत् पासस्था-पासस्थविहारी-शुद्ध क्रियामां आळसु-विहार करवामां आळसु-कुशीला-कुशीलविहारी अने इच्छा प्रमाणे वर्तन करनारी इत्यादि दोषोने अनुसरनारी थइ. आबी रीते घणा वर्षो सुधी संयम पाळीने अर्धमासना

अनश्नवडे शरीरेने क्षीण कर्तुं, आलोचना प्रतिक्रमण कर्मां विना कालधर्म कर्मां चमरचंचाराजघानी विषे काली नामनी देवीपणे उत्पन्न थइ. हमणां उत्पन्न थयेली कालावतंसक भवनमां रहेनारा असुरकुमार देव-देवीओनुं अधिपतिपणुं पामी छे ते कालीदेवीनुं आयुष्य अढीपत्योपम छे, ते त्यांथी च्यवीने महाविदेहक्षेत्रमां उत्पन्न थइ सिद्धिपदने पामशे.

॥ इति प्रथमवर्गना प्रथम अध्ययनननो सारांशः ॥



## प्रथमवर्गना द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ अने पंचमा अध्ययननो सारांशः

### राजी-२

हे जम्बू ! ते काले अने समये राजगृह नामनुं नगर हतुं ते नगरनी बहार गुणशील नामना चैत्यविषे श्री महावीरस्वामि समवसर्या, ते समये पूर्वना अध्ययनमां कही गया तेम चमरचंचाथी राजी नामनी देवी आवी. अने कालीनी माफक नाटक देखाडीने गइ. त्यार बाद श्री गौतमस्वामिए ते राजीदेवीनी पूर्वभवनी पृच्छा करी. प्रसुए कछुं के-हे गौतम ! ते काले ते समये आमलकप्पा नगरी हती, त्यां अम्बशालवन हतुं, जितशत्रुराजा हतो, राजी नामनो गाथापति हतो, तेने राजश्री नाजनी भार्या अने राजी नामनी पुत्री हती. अत्र पार्श्वनाथप्रसुनुं समवसरण, राजीनी दीक्षा, यावत् कालीनी जेम शरीरवाकुशिका थइ, यावत् कालीनी जेम काल करी ते देवगतिमां उत्पन्न थइ छे, त्यांथी च्यवी महाविदेहक्षेत्रमां उत्पन्न थइ सिद्धिपदे जशे. त्रीजा अध्ययन विषे-आमलकरूपा नगरी,



रजनी गाथापति, रजनश्री भार्या अने रजनी पुत्री यावत् राजीनी जेम बधो सम्बन्ध अहिं कहेवो. चोथा अध्ययन विषे एख नगरी, विद्युत गाथापति, विद्युतश्री भार्या अने विद्युत नामनी पुत्री शेष अधिकार राजीनी जेम कहेवो. पांचमा अध्ययन विषे एख नगरी, मेघनामनो गाथापति, मेघश्री नामनी भार्या, मेघा नामनी पुत्री शेष अधिकार तेज प्रमाणे जाणवो.

इति बीजा, त्रीजा, चोथा, पांचमा अध्ययननो प्रथमवर्गनो सारांश समाप्तः ।

बीजो वर्ग—हे जम्बू ! बीजा वर्गनां पांच अध्ययनो कखां छे. ते आ प्रमाणे—१ शुंभा, २ निशुंभा, ३ रंभा, ४ निरंभा अने ५ मदना आ प्रमाणे पांच अध्ययनो कखां छे. बलिचंचा नामनी राजधानी विषे शुंभावतंसक नामना भवनमां शुंभ नामना सिंहासन विषे बेठेली शुंभा नामनी देवी हती इत्यादि, कालीनी जेम नाट्यविधि विगरे देखाडीने गइ, अहिं प्रसु श्रीगौतमस्वामिना प्रओत्तर पूर्वनी जेम समजवा. श्रावस्तिनगरी, कोष्टक चैत्य, जितशत्रूराज, शुंभनामे गाथापति, शुंभश्री भार्या अने शुंभा नामनी पुत्री हती, शेष अधिकार कालीदेवीनी जेवो जाणवो. विशेष शुंभादेवीनी स्थिति साडा त्रण पल्योपमनी जाणवी, बाकीना चार अध्ययन विषे श्रावस्तिनगरीना जाणवा विशेष एके-पुत्रीनां नाम सरखां मातापितानां नाम जाणवां.

त्रीजो वर्ग—हे जम्बू ! त्रीजा वर्गमां चोपन अध्ययनो कखां छे, ते काले ते समये महावीरप्रसु राजगृह नगरी बहार गुणशील चैत्य हतुं त्यां समवसर्या. ते समये इला नामनी देवी घरणी नामनी राजधानीमां इलावतंसक नामना भवनविषे इला नामना सिंहासन विषे बेठेली हती विगरे हकीकत कालीदेवी समान यावत् नाट्यविधि देखाडीने पाछी गइ. गौतमस्वामिना पूछवाथी तेनो पूर्वभव श्री महावीरप्रसु कखो के-हे गौतम ! बाणारसीनगरी बहार काम नामनुं महावन हतुं इल नामनो गाथापति, इलश्री नामनी तेने

भार्या અને इલા નામની પુત્રી હતી, શેષ હકીકત કાલી સમાન જાણવી, વિશેષ ધરણેન્દ્રની અગ્રમહિષીપણે ઉત્પન્ન થઈ છે. તેની સ્થિતિ અર્ધપર્યોપમથી કંઈક અધિક છે, બાકીની હકીકત કાલીદેવી પ્રમાણે જાણવી. એજ પ્રમાણે અનુક્રમે ૨, સતેરા ૩, સૌદામિની ૪, ઇન્દ્રા, ૫ થવા અને ૬ વિદ્યુતા આ પાંચ દેવીઓનાં પાંચ અધ્યયન જાણવાં. આ સર્વે ધરણેન્દ્રની અગ્રમહિષીઓ છે. એ પ્રમાણે છ અધ્યયનો વેણુદેવની છ અગ્રદેવીઓનાં, યાવત્ ધોષેન્દ્રની અગ્રદેવીઓનાં છ અધ્યયનો કંઈ પણ ફેરફાર વિના કહેવાં, આ પ્રમાણે દક્ષિણ દિશાના નવ ઇન્દ્રોનાં ચોપન અધ્યયનો થાય છે. આ સર્વે અધિકાર પણ વાણારસી નગરીના કામ મહાવનના ચૈત્ય વિષે જાણવાં.

ચોથો વર્ગ—હે જન્મ્ ! ચોથા વર્ગમાં ચોપન અધ્યયનો કહ્યાં છે. તે કાલે તે સમયે મહાવીરસ્વામી પ્રસુ રાજગૃહ નગરીની વહાર ગુણશીલ ચૈત્ય વિષે સમવસર્યા હતા, તે કાલે તે સમયે ૧ રુચા નામની દેવી રુચાનામની રાજધાની વિષે રુચક નામના સિંહાસન પર બેઠી હતી. વિગેરે સર્વ કાલીદેવીની જેમ જાણવું, વિશેષ એ કે-પૂર્વભવમાં ચંપાનામની નગરી, પૂર્ણમદ્ર નામે ચૈત્ય, રુચક નામનો ગાથાપતિ હતો તેને રુચકશ્રી નામની ભાર્યા અને રુચા નામની પુત્રી હતી. શેષ અધિકાર પૂર્વેની જેમ જાણવો. વિશેષ એ કે-ચૂતાનન્દ નામના ઇન્દ્રની અગ્રમહિષીપણે ઉત્પન્ન થઈ છે, સ્થિતિ એક પર્યોપમની છે. આ પ્રમાણે ચોથા વર્ગનો-પહેલા અધ્યયનનો નિક્ષેપ કહ્યો, એ જ પ્રમાણે અનુક્રમે ૨ સુરુચા, ૩ રુચાંશા, ૪ રુચકાવતી, ૫ રુચકાંતા અને ૬ રુચપ્રમા આ નામની પાંચ દેવીઓનાં પાંચ અધ્યયન કહેવાં, એજ પ્રમાણે કુલ છ છ દેવીઓ યાવત્ નવમા મહાઘોષ સુધી ઉત્તરદિશાના ઇન્દ્રોની કહેતાં ચોપન અધ્યયનો થાય છે.

પાંચમો વર્ગ—હે જન્મ્ ! પાંચમા વર્ગનાં વત્રીસ અધ્યયનો જણાવ્યાં છે, તે આ પ્રમાણે-૧ કમલાદેવી-૨ કમલપ્રમા-૩ ઉત્પલા-૪ સુદર્શના-૫ રૂપવતી-૬ બહુરૂપા-૭ સુરુપા-૮ સુમગા-૯ પૂર્ણ-૧૦ બહુપુત્રિકા-૧૧ ઉત્તમા-૧૨ મારિકા-૧૩ પદ્મા-૧૪

बसुमती-१५ कनका-१६ कनकप्रभा-१७ अवतंसा-१८ केलुमती-१९ वज्रसेना-२० रतिप्रभा-२१ रोहिणी-२२ नवमिका-२३  
 द्वी-२४ पुष्पवती-२५ सुजगा-२६ सुजगवती-२७ महाकच्छा-२८ अपराजिता-२९ सुघोषा-३० विमला-३१ सुस्वरा अने ३२  
 सरस्वती. आ बत्रीस देवीजोनां बत्रीश अध्ययन जाणवां.

पांचमा वर्ग विषे प्रथम अध्ययन-यावत् बत्रीश अध्ययन—

ते काले ते समये राजगृह नगरी विषे महावीरस्वामि समवसर्यां त्यारे कमला नामनी देवी कमला नामनी राजधानीमां कमला-  
 वतंसक नामना भवन विषे कमल नामना सिंहासण पर बेठी हती. वेप अधिकार कालीदेवीनी समान कहेवो. विशेष ए के-पूर्वभवने  
 विषे नागपुर नामनुं नगर हतुं तेनी बहार सहस्राश्रवन नामनुं उद्यान हतुं अने कमल नामनो गाथापति हतो तेने कमलश्री नामनी  
 भार्या अने कमला नामनी पुत्री हती. तेणे पार्श्वनाथ प्रभु पासे दीक्षा लीधी विंगेरे सर्व पूर्वनी जेम जाणवुं. एज प्रमाणे बाकीना  
 एकत्रीस अध्ययनो दक्षिण दिशाना वानमंतरना आठ इन्द्रोनां कहेवां, कमलप्रभा विंगेरे ३१ कन्याओए नागपुरमां सहस्राश्रवनना  
 उद्यानमां दीक्षा लीधी, मातापितानां नाम पुत्री सरखा जाणवा अने अर्धपत्योपमनी स्थिति जाणवी.

छट्टो वर्ग—छट्टो वर्ग पण पांचमा वर्ग समान छे. विशेषता ए छे के-ते सर्व कन्याओ महाकालेन्द्र विंगेरे उत्तरदिशाना आठ  
 इन्द्रोनी ३२ अग्रमहिषीओ थइ, पूर्वभवमां साकेत नगर विषे उत्पन्न थइ हती, उत्तरकुरु उद्यान विषे तेणीओए दीक्षा ग्रहण करेली,  
 तेमनां मातापितानां नाम तेमना समान जाणवां, शेष हकीकत पूर्ववत् जाणवी.

सातमो वर्ग—हे जम्बू ! श्री महावीरस्वामिण् सातमा वर्गना १ सूरप्रभा-२ आतपा-३ अर्चिमाली अने ४ प्रसंकरा एम चार अध्ययनो कळां छे. तेमां प्रथम अध्ययनमां सूरप्रभा नामनी देवी सूरनामना विमान विषे सूरप्रभ नामना सिंहासन विषे बेठी हती विंगरे. बाकी सर्व इतान्त कालीदेवी जेवो जाणवो. विशेष ए छे के-पूर्वभवमां अरकखुरी नगरीमां सूरप्रभा नामनी पुत्री हती ते सूर्य नामना इन्द्रनी अग्रमहिषी थइ, तेनी अर्ध पत्न्योपम उपर पांचसो वर्ष अधिक स्थिति कहेली छे, बाकी सर्व अधिकार कालीदेवी समान जाणवो. एज प्रमाणे सूर्य इन्द्रनी ३ देवीओनो अधिकार जाणवो त्रणे देवीओ अखुपुरी नगरीमां पूर्वभवमां उत्पन्न थयेली.

आठमो वर्ग—हे जम्बू ! आठमा वर्गना चार अध्ययनो कळां छे. ते आ प्रमाणे—१ चन्द्रप्रभा-२ दोषीनामा-३ अर्चिमाली अने ४ प्रसंकरा. प्रथम अध्ययनमां चन्द्रप्रभादेवी चन्द्रप्रभनामना विमानमां चंद्रप्रभ नामना सिंहासन उपर बेठी हती शेष अधिकार कालीदेवी समान जाणवो. विशेष ए के-पूर्वभवमां मथुरानामनी नगरी हती तेनी बहार चन्द्रावतंसक उद्यान हतुं ते नगरीमां चन्द्रप्रभ नामे गाथापति हतो तेने चन्द्रश्री भार्या हती अने चन्द्रप्रभा नामनी पुत्री हती ते यावत् चन्द्रदेवेन्द्रनी अग्रमहिषी थइ तेनी स्थिति अर्धपत्न्योपम उपर पचास हजार वर्षनी कही छे, शेष अधिकार कालीदेवीनी सरखो जाणवो.

एवी रीते बाकीनी त्रण देवीओ पण पूर्वभवमां मथुरा नगरी विषे उत्पन्न थयेली माता पिताओनां नाम पण पुत्रीओने अनुरातां जाणवां अने वर्तमानभवमां चन्द्रेन्द्रनी अग्रमहिषीओ जाणवी, शेष कालीदेवी समान जाणवुं.

नवमो वर्ग—हे जम्बू ! नवमा वर्गना आठ अध्ययनो श्री महावीरस्वामिण् कळां छे ते आ प्रमाणे—१ पद्मा २ त्रिवा ३ रत्नी

४ अंबू ५ रोहिणी ६ नवमिका ७ अचला अने ८ अपसरा. नवमावर्गना प्रथम अध्ययनशी यावत् अठमा अध्ययननो सारांश—  
ते काले ते समये हे जम्बू ! पद्मादेवी—सौधर्मकल्प नामना प्रथम देवलोकमां पद्मावतंसक नामना विमानमां सुधर्मा नामनी सभा विषे पद्मानामना सिंहासन पर बेठी हती, शेष अधिकार कालीदेवी सरखो जाणवो. एवी रीते आठे अध्ययनो कालीदेवी सरखां जाणवां. विशेष ए के-पूर्वभव विषे बे श्रावस्तिनगरी विषे, बे हस्तिनापुर विषे, बे कांपिल्यपुर विषे अने बे साकेतनगर विषे उत्पन्न थयेली, आ बधीयेनी माताओनुं नाम विजया अने पिताओनुं नाम पद्म हतुं, सर्वेए श्री पार्श्वनाथप्रभुनी पासे दीक्षा लीधी हती. यावत् शक्रेन्द्रनी अग्रमहिषीओ थइ छे, तेमनी स्थिति नव पर्योपमनी कहेली छे ते सर्वे च्यवीने महाविदेहक्षेत्रमां उत्पन्न थइ मोक्षे जशे.

दशमो वर्ग—हे जम्बू ! दशमा वर्गना आठ अध्ययनो श्रीमहावीरस्वामिए कहां छे, ते आ प्रमाणे—१ कृष्णा २ कृष्णराजी ३ रामा ४ रामरक्षिता ५ वसु ६ वसुगुप्ता ७ वसुमित्रा अने ८ वसुंधरा. दशमावर्गना प्रथम अध्ययनशी यावत् अष्टम अध्ययननो सारांश—

ते काले ते समये हे जम्बू ! राजगृहनगरमां श्रीमहावीरस्वामि समवसर्या त्यारे कृष्णा नामनी देवी ईशानकल्प नामना बीजा देवलोकमां कृष्णावतंसकनामना विमानमां सुधर्मीनामनी सभा विषे कृष्ण नामना सिंहासन उपर बेठी हती, शेष अधिकार कालीदेवी सरखो कहेवो, ए ज प्रमाणे आठे अध्ययनो जाणवा. विशेष ए के—पूर्वभवमां बे वाणारसी नगरी विषे, बे राजगृहनगरी विषे, अने बे कौशंबी-नगरी विषे उत्पन्न थइ हती, ते सर्वना पिताओनुं नाम राम हतुं, माताओनुं नाम धर्मा हतुं, ते आठेए पार्श्वनाथप्रभुनी पासे प्रब्रज्या लीधी हती अने प्रभुए पुष्पचूला आर्याने शिष्या तरीके अर्पण करेली तेमनी स्थिति नव पर्योपमनी कही छे, तेओ त्यांशी च्यवी

महाविदेहक्षेत्रमां उत्पन्न थइ दीक्षा लइ सिद्धिगतिने पामसो.

आ प्रमाणे निश्च हे जम्बू ! श्रमण भगवानमहावीरस्वामि के जे धर्मनी आदि करनारा-तीर्थने करनारा यावत् सिद्धिपदने पामेला छे तेमणे कहेछे छे.

**इति श्री द्वितीय श्रुतस्कंध सारांश समाप्तः ।**

एवं श्री सौराष्ट्रदेशे कुंडलनगरे प० पू० आचार्यदेव श्रीमन्ब्रह्मसागरद्वीश्वरजीनी पवित्र निश्राए विक्रम संवत्सर २००८ वर्षे चातुर्मासस्थितः मृनिश्रीचन्द्रसागरे वि. सं. २००८ वर्षे आषाढकृष्णअमावास्यासोमवासरे श्री ज्ञातार्धर्मकथाङ्गना प्रथम श्रुतस्कंधना आठमा अध्यायनथी यावत् द्वितीय श्रुतस्कंधसमाप्ति पर्यन्तनो सारांश तारवीने लख्यो. शुभं भवतु ।



श्रीज्ञाताधर्मकथाज्ञे द्वितीयविभागस्य अनुक्रमणिका—



	अध्ययनानि
अ०	९ श्री माकन्दीवारकाख्यम्
"	१० श्री चन्द्राख्यम्
"	११ श्री द्रावद्रवाख्यम्
"	१२ श्री उदकाख्यम्
"	१३ श्री दुर्दुराख्यम्
"	१४ श्री तेतलिपुत्रज्ञाताध्ययनम्

	अ०	श्री	अध्ययनानि
पृष्ठांकः	१६३	१५	श्री नन्दीफलाख्यम्
	१७७	"	श्री अपरकङ्काख्यम्
	१७८	"	श्री अध्याख्यम्
	१८०	"	श्री सुसुमाख्यम्
	१८५	"	श्री पुण्डरीकाख्यम्
	१९१	"	श्री द्वितीयश्रुतस्कन्धम्

पृष्ठांकः	२००
	२०३
	२३४
	२४२
	२४९
	२५३



## शुद्धिपत्रकम्.



पृष्ठ० पंक्ति	अशुद्धम्	शुद्धम्	पृष्ठ० पंक्ति	अशुद्धम्	शुद्धम्
१७०-१६	पणियमंड०	पणियमंड	१९०-१६	षक०	पक
१८०-२७	करेइ	करेह	१९६-१९	वहेति	वडुति
१७४-८	विरुव०	विरुव०	१९६-२०	इत्यर्थः	इत्यर्थः
१७४-१०	स्वरूपे	स्वरूपे	१९७-२४	मुयति, तस्थवि	मुयति, तस्थवि से थाहे जाते, तेतेणं से तेतलि.
१७४-१६	रूपक०	रूपक०			सुक्कंसि तणकुडंसि अग- णिकायं पक्खिवंति २, अप्पाणं मुयति, तस्थवि
१७४-२४	रूपकार्थ	रूपकार्थ			धणो कुडियं
१७८-२७	महावाया, मंदावाया	मंदावाया, महावाया			
१८७-१०	'दिवाह'	'दिवाहं'	२००-१२	घणणे	
१८७-१०	'वर्हहि	'वर्हहिं	२००-१६	कंडियं	
१८९-४	अरणे०	अरणे०			



नवाङ्गी-  
दृ० दृ०  
श्रीङ्गीता-  
धर्मकथोक्ते

॥ ३८ ॥

पृष्ठ० पंक्ति  
२०१-१३  
२०४-२८  
२०५-२५  
२०७-१५  
२०९-२६  
२१२-१०

अशुद्धम्  
तय० फल०  
एगं ते  
चेवे  
गोक्ष  
निसामति  
'पुरा पौराणण'मित्यत्र यावत्  
करणादेवं द्रष्टव्यं 'दुष्चिण्णाणं  
दुष्परकंताणं कडाणं पावाणं  
कम्माणं परवगं फलवित्ति  
विसेसं'ति अयमर्थः पुरा-

शुद्धम्  
तय० पत्त० फल०  
एगंते  
चेव  
गोक्षं  
निसामेति  
XXXXXX  
XXXXXX  
XXXXXX  
XXXXXX  
XXपुरा-

पृष्ठ० पंक्ति  
२१७-१७  
२२२-१०  
२२७-८  
२२८-१६  
२२८-२७  
२३३-७  
२३५-५  
२३७-११  
२३७-२८

अशुद्धम्  
पमाणं  
हव्मा०  
'खुल्ला०  
कर्म०  
'कहु'  
'जाण०  
महुं  
से कणगकेऊ तेसि  
सालोवन्ना

शुद्धम्  
पणामं  
हव्मा०  
'खुल्ल०  
कर्म०  
'कहु'  
'जाण०  
महुं  
से कणगकेऊ तेसि  
सालीवन्ना

शुद्धि-  
गत्रकम् ।

॥ ३८ ॥

## ॥ ९--श्रीमाकन्दीदारकाख्यं ज्ञाताध्ययनम् ॥

अथ नवमं विव्रियते, अस्य च पूर्वेण सहायमभिसम्बन्धः, पूर्वत्र मायावतोऽनर्थ उक्तः; इह तु भोगेष्वविरतिमतोनर्थो विरतिमतश्चार्थोऽभिधीयते इत्येवं सम्बद्ध—

जइ णं भंते !, समणेणं जाव संपत्तेणं अट्टमस्स णायज्झयणस अयमट्टे पणत्ते; नवमस्स णं भंते !, नायज्झयणस्स समणेणं जाव संपत्तेणं के अट्टे पणत्ते !, एवं खलु जंबू !, तेणं कालेणं२, चंपा नामं नयरी, पुण्णभेदे, तत्थ णं माकंदी नामं सत्थवाहे परिवसति, अट्टे०; तस्स णं भद्दा नामं भारिया, तीसे णं भद्दाए अत्तया दुवे, सत्थवाहदारया होत्था; तं०-जिणपालिए य, जिणरक्खिए य; तते णं तेसि मागंदियदारगणं, अण्णया कयाइ एगयओ इमेयारूवे मिहो कहाससुछावे ससुप्पज्जित्था-एवं खलु अम्हे लवणससुद्धं पोयवहणेणं एक्कारस वारा ओगाढा, सब्बत्थविय णं लद्धा, कयकजा अणहसमग्गा पुणरवि नियघरं हव्वमागया; तं सेयं खलु अमहं देवाणुप्पिया !, दुवालसमंपि लवणससुद्धं पोतवहणेणं ओगाहित्तए त्तिकट्टु अण्णमणस्सेतमट्टे पड्डिसुणेंति२ त्ता, जेणेव अम्मापियरो, तेणेव उवा०; एवं वदासी-एव खलु अम्हे अम्मयाओ !, एक्कारस वारा तं चैव जाव निययं घरं हव्वमागया, तं इच्छामो णं अम्मयाओ !, तुम्हेहि अब्भणुण्णयाय समाना दुवालसमं लवणससुद्धं पोयवहणेणं ओगाहित्तए, तते णं ते मागंदियदारए अम्मापियरो एवं वदासी-इमे ते जाया !, अज्जग जाव परिभाएत्तए तं अणुहोह ताव

जाया ! विडले माणुस्सए इड्डीसक्कारससुदए, किं भे सपच्चवाएणं निरालंबणं लवणसमुदोत्तारेणं ?; एवं खल्ल पुत्ता !, दुवालसमी जत्ता सोवसणा यावि भवति, तं मा णं तुब्भे दुवे पुत्ता !, दुवालसमंपि लवण० जाव ओगाहेह, मा ह्हु तुब्भं सरीरस्स वावत्ती भविस्सति; तते णं मांगंदियदारगा अम्मपियरो दोबंपि तच्चंपि एवं वदासी-एवं खल्ल अम्हे अम्मयाओ !, एक्कारस वारा लवणं ओगाहित्तए, तते णं ते मांगंदीदारए अम्मपियरो जाहे नो संचाएंति बहूहिं आघवणाहिं, पणवणाहिं य, आघवित्तए वा, पल्लवित्तए वा, ताहे अकामा चेव एयमट्ठं अणुजाणित्था; तते णं ते मांगंदियदारगा अम्मपिज्झिं अम्मणु-ण्णाया समाणा गणिमं च, धरिमं च, मेळं च, पारिच्छेळं च, जहा अरहणगस्स जाव लवणसमुदं बहूहं जोअणसयाइं ओगाढा ॥ सूत्रम्-८५ ॥ तते णं तेसिं मांगंदियदारगणं अणेगाइं जोयणसयाइं, ओगाढाणं समाणाणं अणेगाइं उप्पाइयसयातिं पाउब्भूयातिं; तंजहा-अकाले गल्लियं जाव थणियसहे कालियवाते तत्थ समुट्ठिए, तते णं सा णावा तेणं कालियवातेणं आहुणिल्लमाणी२, संचालिल्लमाणी२, संखोभिल्लमाणी २, सलिलत्तिकववेगेहिं आयट्ठिल्लमाणी२, कोट्ठिमंसि करतलाहते विव तेदूसए तत्थेव२; ओवयमाणी य, उप्पयमाणी य; उप्पयमाणीविव धरणीयलाओ, सिद्धविज्जाहरकन्नगा ओवयमाणीविव गगणतलाओ, \*भट्टविज्जा विज्जाहरकन्नगाविव, पलायमाणीविव महागरुल्लवेगवित्तासिया, सुयगवरकन्नगा घावमाणी-

\*एतदन्तर्गतः पाठः अ प्रती नास्ति ।

विव, महाजणरसियसहवित्तथा, ठाणभट्टा आसकिसोरी णिगुंजमाणीविव, गुरुजणदिट्ठावराहा सुयण-  
 कुलकन्नगा धुम्ममाणीविव, वीचीपहारसततालिया गलियलंबणाविव, गगणतलाओ, रोयमाणीविव\*  
 सलिलगंढिविप्पहरमाणघोरंसुवाएहिं णववहू, उवरतभत्तुया विलवमाणीविव, परचक्करायाभिरोहिया  
 परममहबभयाभिहुया महापुरवरी झायमाणीविव, कवडच्छोमप्पओगजुत्ता जोगपरिव्वाइया णिसास-  
 माणीविव, महाकंतारविणिगयपरिस्संता परिणयवया अम्मया सोयमाणीविव; तवचरणखीणपरिभोगा  
 चयणकाले देववरवहू संजुणियकट्टकूवरा, भग्गमेढिमोडियसहस्समाला, सुलाइयवंकपरिमासा, फलहं-  
 तरतडतडैतंफुट्तंसंधिवियलंतलोहकीलिया, सब्बंगवियंभिया, परिसडियरज्जुविसरंतसव्वगत्ता, आमग-  
 मल्लगभूया अकयपुणजणमणोरहोविव; चिंत्तिज्जमाणगुरुई हाहाकयकणधारणावियवाणियगजणकम्म-  
 गारविलविया पाणाविहरयणपणियसंपुण्णा बहूहिं पुरिससएहिं रोयमाणेहिं, कंद०, सोय०, तिप्प०,  
 विलवमाणेहिं; एगं महं अंतो जलगयं गिरिसिहरमासायहत्ता संभग्गकूवतोरणा, मोडियद्वयदंडा, वलय-  
 सयखंडिया, करकरस्स तस्थेव विइवं उवगया; तते णं तीए णावाए भिज्जमाणीए बहवे पुरिसा विपुलप-  
 डियं भंडमायाए अंतो जलंभि णिमज्जावि यावि होत्था ॥ सूत्रम्-८६ ॥ तते णं ते मांगंदिचदारगा छेया,  
 दक्खा, पत्तट्ठा, कुसला, मेहावी, णिउणसिप्पोवगया, बहुसु पोतवहणसंपराएसु कयकरणलद्धविजया,



अमूढा, अमूढहृत्था, एगं महं फलगखंडं आसादेति; जंसिं च णं पदेसंसि से पोयवहणे विवन्ने, तंसिं च णं पदेसंसि एगे महं रयणहीवे णामं दीवे होत्था, अणेगाइं जोअणातिं आयामविकखंमेणं, अणेगाइं जोअणाइं परिकखेवेणं णाणाडुमसंडमंडिउदेसे सस्सिरीए पासातीए ४, तस्स णं बहुमज्जेदेसभाए, तत्थ णं महं एगे पासायवडंसए होत्था, अब्भुगयमूसियए जाव सस्सिरीभूयरूवे पासातीए ४, तत्थ णं पासायवडंसए रयणहीवदेवया नामं देवया परिवसति, पावा चंडा रुद्धा साहसिया; तस्स णं पासायवडंसयस्स चउद्विसिं चत्तारि वणसंडा किण्हा किण्होभासा; तते णं ते मांगंदियदारगा तेणं फलयखंडेणं उवुज्झमाणा२, रयणदीवंतेणं संबुढा यावि होत्था, तते णं ते मांगंदियदारगा थाइं लभंति२ सुहुत्तरं आससंति२, फलगखंडं विसंज्जंति२, रयणहीवं उत्तरंति२, फलाणं मग्गणवेसणं करंति२, फलातिं णिण्हंति२, आहारंति२, णालिएराणं मग्गणवेसणं करंति२, नालिएराइं फोडंति नालिएरतेल्लेणं अण्णमण्णस्स गत्ताइ अब्भंगंति २, पोक्खरणीतो ओगाहिंति २, जलमज्जणं करंति २, जाव पच्चुत्तरंति २, पुढविसिलापट्टयंसि निसीयंति२: आसत्था, वीसत्था, सुहासणवरगया चंपानयरिं अम्मपिउआपुल्लणं च लवणसमुदोत्तारं च कालियवायसमुत्थणं च पोतवहणविवट्ठिं च फलयखंडस्स आसायणं च रयणहीवुत्तारं च अणुचिंतेमाणा २, ओहतमणसंकप्पा जाव झियायेन्ति; तते णं सा रयणहीवदेवया ते मांगंदियदारए ओहिणा आभोएति,

असिफलावगहत्था सत्तट्टतलप्पमाणं उड्डुं वेहासं उप्पयति २, ताते उक्खिडाए जाव देवगईए बीइवयमाणी २, जेणेव मांगंदियदारए तेणेव आगच्छति २, आसुरुत्ता मांगंदियदारए खरफरुसनिट्टरवयणेहिं एवं वदासी-हं भो मांगंदियदारया !, अप्पत्थियपत्थिया जति णं तुब्भे मए सद्धिं विउलातिं भोगभोगाईं मुंजमाणा चिहरह, तो भे अत्थिय जीविअं, अहणं तुब्भे मए सद्धिं विउलातिं नो विहरह, तो भे इमेणं नीलुप्पलगवल्लुय जाव खुरधारणं असिणा रत्तगंडमंसुयाईं माउयाहिं उवसोहियाईं तालफलाणीव सीसाईं एगंते एहेमि; तते णं ते मांगंदियदारया रयणदीवदेवयाए अंतिए सो० सीया, करयल० एवं जणं देवाणुप्पिया ! वत्तिस्ससि, तस्स आणाउववायवयणनिहेसे चिट्ठिरसामो, तते णं सा रयणदीवदेवया ते मांगंदियदारए गेणहति २, जेणेव पासायवडिसए तेणेव उवागच्छइ २, असुभपोगलावहारं करोति २, सुभपोगलपक्खेवं करोति २ त्ता, पच्छा तेहिं सद्धिं विउलातिं भोगभोगाईं मुंजमाणी विहरति, कळ्ळाकळ्ळिं च अमयफलातिं उवणेति ॥ सूत्रम्-८७ ॥

सर्वं सुगमं, नवरं-‘निरालंबणेणं’-निष्कारणेन प्रत्यपायसम्भवे वा त्राणायाम्बनीयवस्तुवर्जितेन, ‘कालियावाए तत्थ’-चि-कालिकावातः-प्रतिकूलवायुः, ‘आहुणिज्जमाणी’त्यादि, आपूयमाना कम्पमाना विद्रवमुपगतेति मम्बन्धः, सञ्चाल्यमाना-स्थानात् स्थानान्तरनयनेन सङ्घोभ्यमाना-अधो निमज्जन्तः तद्गतलोकक्षोभोत्पादाद्वा सलिलातीक्ष्णवैर-तिवर्त्यमाना-आक्रम्यमाणा कुड्दिमे करतलेनाहतो यः स तथा स इव, ‘तेंदूसए’-चि-कन्दुकः, तत्रैव प्रदेशेश्चः पतन्ती

वा-अधो गच्छन्ती उत्पतन्ती वा-ऊर्ध्वं यान्ती तथोत्पतन्तीव धरणीतलात्, सिद्धविद्या विद्याधरकन्यका तथाऽधः पतन्तीव, गगनतलाद् अष्टविद्या विद्याधरकन्यका, तथा-विपलयमानेव-भयाद्भावन्तीव महागरुडवेगवित्रासिता भुजगकन्यका धावन्तीव, महाजनस्य रसितशब्देन वित्रस्ता स्थानभ्रष्टाऽश्चकिशोरी, तथा-विगुञ्जन्तीव-अव्यक्तशब्दं कुर्वन्तीव अवनमन्तीव वा, गुरुजनदृष्टापराधा-पित्राद्युपलब्धव्यलीका सुजनकुलकन्यका कुलीनेति भावः, तथा-घूर्णन्तीव-वेदनया थरथरायमाणेव वीचिप्रहारशतताडिता हि स्त्री वेदनया घूर्णतीति वेदनयेव घूर्णयन्तीत्येवमुपमानं द्रष्टव्यं, गलितलम्बनेव-आलम्बनाद् अष्टेव गगनतलाद्-आकाशात् पतितेति गम्यते, यथा क्षीणबन्धनं फलाद्याकाशात् पतति एवं साऽपीति, क्वचित्तु-गलितलम्बना इत्येतावदेव दृश्यते, तत्र लम्बयन्ते इति लम्बनाः-नङ्गरास्ते गलिता यस्यां सा तथा, तथा रुदन्तीव, कैः केत्याह-सलिलभिन्ना ये ग्रन्थयस्ते सलिलग्रन्थयः ते च ते, 'विष्पहरमाण'ति-विप्रकिरन्तश्च सलिलं क्षरन्त इति समासः त एव स्थूरा अश्रुपाता-स्तैर्नवधूरुपरतर्भृत्का, तथा विलयन्तीव, कीदृशी केत्याह-परचक्रराजेन-अपरसैन्यनृपतिनाऽभिरोहिता-सर्वतः कृतनिरोधा या सा तथा, परममहाभयाभिद्रुता महापुरवरी, तथा क्षणिकस्थिरत्वसाधर्म्यात् ध्यायन्तीव कीदृशी केत्याह-कपटेन-वेषा-द्वन्यथात्वेन यच्छब्द तेन प्रयोगः-परप्रतारणव्यापारः तेन युक्ता या सा, तथा, योगपरित्राजिका-समाधिप्रधानव्रतिनी-विशेषः, तथा निःश्वसन्तीव अधोगमनाधर्म्यात् तद्गुगतजननिःश्वाससाधर्म्याद्वा निःश्वसन्तीव कीदृशी केत्याह-महाका-न्तारविनिर्गता परिश्रान्ता च या सा तथा परिणतवया-विगतयौवना, 'अम्मय'ति-अम्बा पुत्रजन्मवती, एवंभूता हि स्त्री श्रमप्रच्युरा भवति, ततश्चात्यर्थं निःश्वसितीत्येवं सा विशेषितेति, तथा तद्गुगतजनविषादयोगात् शोचन्तीव, कीदृशी केवेत्याह-



तपश्चरणं-ब्रह्मचर्यादि तत्फलमपि उपचारात् तपश्चरणं-स्वर्गसम्भवमोगजातं तस्य क्षीणः परिभोगो यस्याः सा तथा,  
 व्यवनकाले देववरवधूः, अथवा-‘उत्पपयमाणीविवे’त्यादाविवशब्दस्यान्यत्र योगादुत्पतन्ती नौः, केव ?-सिद्धविधा-  
 विद्याधरकन्यकेवेत्यादि व्याख्येयमिति, तथा सञ्चणितानि काष्ठानि कुबरं च-तुण्डं यस्याः सा तथा; तथा भग्ना मेढी-  
 सकलफलकाधारभूतकाष्ठरूपा यस्याः सा तथा, मोदितो-भयः सहसा-अकस्मात् सहस्रसङ्ख्यजनाश्रयभूतो वा मालो-  
 मालकः उपरितनभागो जनाधारो यस्याः सा तथा, ततः पदद्वयस्य कर्मधारयः, तथा शूलाचितेव-शूलाप्रोतेव गिरिशृङ्गा-  
 रोहणेन निरालम्बनतां गतत्वाञ्छूलाचिता वङ्को-वक्रः परिमर्शो-जलधिजलस्पर्शो-यस्याः सा तथा, ततः कर्मधारयः,  
 अथवा-शूलायितः-आचरितशूलारूपः स्कन्दितपरिकरत्वात् ; ‘शूलाइच’चि-पाठे तु शूलायमानो वङ्कश्च-वक्रः ‘परिमासो’  
 चि-नौगतकाष्ठविशेषो नाविकग्रसिद्धो यस्यां सा तथा, फलकान्तरेषु-सङ्घटित-फलकविवरेषु तटतटायमानाः-तथाविधध्वनि  
 विद्धानाः स्फुटन्तो-विघटमानाः सन्धयो-मीलनानि यस्यां सा तथा, विगलन्त्यो लोहकीलिका यस्यां सा तथा, ततः  
 कर्मधारयः, तथा सर्वाङ्गैः-सर्वावयवैर्विजृम्भिता-विबुधतां गता या सा तथा, परिश्रिता रजवः-फलकसङ्घातनद्वरिका  
 यस्याः सा तथा, अत एव ‘विसरंत’चि-विशीर्यमाणानि सर्वाणि गात्राणि यस्याः सा तथा, ततः कर्मधारयः;  
 आमकमलकभूता-अपक्वशरावकल्पा, जलसम्पेकं क्षणेन विलयनात्, तथा अकृतपुण्यजनमनोरथ इव चिन्त्यमाना-कथमि-  
 गमेतामापदं निस्तरिष्यतीत्येवं विकल्प्यमाना गुर्वी-गुरुका, आपदः सकाशात् दुःसमुद्धरणीयत्वात्, निष्पुण्यजनेनापि

स्वो मनोरथः कथमयं पूरयिष्यत इत्येवं चिन्त्यमानो दुर्निर्वहत्वाद् गुरुरेव भवन्तीति तेनोपमेति, तथा हाहाकृतेन-  
हाहाकारेण कर्णधारणां-निर्यामकाणां नाविकानां-कैवर्तानां वाणिजकजनानां कर्मकराणां च प्रतीतानां विलपितं-विलापो  
यस्यां सा तथा, नानाविध रत्नैः पण्यैश्च-भाण्डैः सम्पूर्णा या सा तथा, 'रोयमाणेहि'ति सशब्दमश्रुणि विमुञ्चत्सु,  
'कन्दमाणेहि'ति-शोकात् महाध्वनिं मुञ्चत्सु, 'सोयमाणेहि'-शोचत्सु मनसा खिद्यमानेषु, 'तिप्पमाणेहि'ति-भयात्  
प्रस्वेदलालादि तर्पत्सु, 'चिलपत्सु'-आर्त्तं जल्पत्सु एकं महत्, 'अंतो जलगयं'ति-जलान्तर्गतं गिरिशिखरमासाद्य  
सम्भयः कूपकः-कूपकस्तम्भो यत्र यत्र सितपटो निबध्यते तोरणानि च यस्यां सा तथा, तथा मोडिता ध्वजदण्डा यस्यां  
सा तथा, बलकानां-दीर्घदारुरूपाणां शतानि खण्डानि यस्यां सा तथा, अथवा बलयशतैः-बलयाकारखण्डशतैः खण्डिता  
या सा तथा, 'करकर'चि-करकरेतिशब्दं विदधाना तत्रैव जलधौ विद्रवं-विलयमुपगतेति, 'पोगवहणसंपराएसु'ति-  
सम्परायः-मङ्गलामः तद्वद्यानि भीषणानि पोतवहनकार्याणि तानि तथोच्यन्ते तेषु, देवताविशेषणानि विजयचौरविशेषणवद्  
गमनीयानि; 'असिखेडगवग्गाहत्थ'चि-खड्गफलकाम्यां व्यग्रौ हस्तौ यस्याः सा तथा, 'रत्तगंडमंसुयाइ'ति-  
रत्नौ-रञ्जितौ गण्डौ यैस्तानि रक्तगण्डानि तानि शमश्रुणि-कर्चकेशाः योस्ते रक्तगण्डशमश्रुके, 'माउयाहि उवसोहि-  
घाई'ति-इह माउयाउ उचरौघुरोमाणि सम्भाव्यन्ते, अथवा-माउया'-सख्यो मातरो वा ताभिः उपशोभिते-समारचित-  
केशत्वादिना जनितशोभे उपशोभिते वा-निर्मलीकृते शिरसी-मस्तके छिद्येति वाक्यशेषः, 'जण्णं देवाणुप्पिए'त्यादि, यं

कञ्चन प्रेष्याणामपि प्रेष्यं देवानुप्रिया वदिव्यति-उपदेश्यति यदुतायमाराध्यः, 'तस्स'ति-तस्यापि आस्तां भवत्याः आज्ञा अवश्यं विधेयतया आदेशः उपातः-सेवावचनं-अनियमपूर्वक आदेश एव निर्देशः-कार्याणि प्रति प्रश्ने कृते यन्नियतार्थ-सुत्तरमेतेषां समाहारद्वन्द्वः तत्र, अथवा-यद्देवानां प्रिया वदिव्यति, 'तस्स'ति-तत्र आज्ञादिरूपे स्थास्यामः-वर्तिष्याम इति, 'असयफलाहं'ति-असृतोपमफलानि ।

तते णं मा रयणदीवदेवया, सक्कवयणसंदेसेणं सुट्टिएणं लवणाहिवइणा लवणससुहे तिसत्ताखुत्तो अणुपरियट्टियव्वेत्ति, जं किंचि तत्थ तणं वा, पत्तं वा, कट्टं वा, कयवरं वा, असुहं वृत्तियं दुरभिगंधमचोक्खं तं सव्वं आहुणिय२, तिसत्ताखुत्तो एणंते एहेयव्वं तिकहु णित्ता; तते णं सा रयणदीवदेवया, ते मागं-दियदारए; एवं वदासी-एवं खल्ल अहं देवाणुप्पिया !, सक्कं सुट्टियं० तं षेव जाव णित्ता; तं जाव अहं देवा० !, लवणससुहे जाव एहेमि ताव तुब्भे इहेव पासायवडिसए सुहंसुहेणं अभिरममाणा विट्ठह, जति णं तुब्भे एयंसि अंतरंसि उच्चिग्गा वा, उस्सुया वा, उप्पुया वा, भवेज्जाह; तो णं तुब्भे पुरच्छिभिह्लं वणसंडं गच्छेज्जाह, तत्थ णं दो ऊऊ सया साहीणा तं०-पाउसे य वासारत्ते य,-" तत्थ उ कंदलसिलिधदंतो णित्तरवरपुष्पपीवरकरो । कुडयज्जुणणीवसुरभिदाणो पाउसउज्जायवरो साहीणो ॥ १ ॥ तत्थ य-सुरगोवमणिविचित्तो ददुरकुलरसियउज्जारवो । बरहिणिविदपरिणद्धिसिहरो वासारत्तो उऊप-व्वत्तो साहीणो ॥ २ ॥" तत्थ णं तुब्भे देवाणुप्पिया !, बहुसु वावीसु य, जाव सरसरपंतियासु बहुसु

आलीघरएसु य, मालीघरएसु य, जाव कुसुमघरएसु य, सुहंसुहेणं अभिरममाणा विहरेज्जाह; जति णं तुंभे एत्थवि उब्बिग्गा वा, उरसुया वा, उप्पुया वा, भवेज्जाह; तो णं तुंभे उत्तरिह्लं वणसंडं गच्छेज्जाह, तत्थ णं दो ऊऊ सया साहीणा तं०-सरदो य हेमंतो य,-“ तत्थ उ सणसत्तवणकउओ नीलुप्पलपउम-नलणसिंगो । सारसचक्कवायरवितघोसो सरयऊऊगोवती साहीणो ॥ १ ॥ तत्थ य सियङ्कुंदधवलजोणहो कुसुमितलोद्धवणसंडमंडलतलो । तुसारदघारपीवरकरो हेमंतऊऊससी सया साहीणो ॥ २ ॥ ” तत्थ णं तुंभे देवानुप्पिया !, वावीसु य जाव विहरेज्जाह, जति णं तुंभे तत्थवि उब्बिग्गा वा जाव उरसुया वा भवेज्जाह, तो णं तुंभे अवरिह्लं वणसंडं गच्छेज्जाह; तत्थ णं दो ऊऊ साहीणा, तं०-“ वसंते य गिम्हे य, तत्थ उ सहकारचारुहारो किंसुयकणिगयारासोगमउडो । ऊसिततिलगबउलायवत्तो वसंतउऊणरवती साहीणो ॥ १ ॥ तत्थ य पाडलसिरीससलिलो मलियावासंतियधवलवेलो । सीयलसुरभिअनिलमगर-चरिओ गिम्हेऊऊसागरो साहीणो ॥ २ ॥ ” तत्थ णं बहुसु जाव विहरेज्जाह, जति णं तुंभे देवा० ! तत्थवि उब्बिग्गा उरसुया भवेज्जाह, तओ तुंभे जेणेव पासायवडिसए तेणेव उवागच्छेज्जाह, ममं पडि-वालेमाणा २ चिट्ठेज्जाह, मा णं तुंभे दक्खिणिह्लं वणसंडं गच्छेज्जाह, तत्थ णं महं एगे, उग्गविसे, चंड-विसे, घोरविसे, महाविसे, अइकायमहाकाए, जहा तेयनिसग्गे, मसिमहिसासूसाकालए, नयणविसरो-सपुणे, अंजणपुंजनियरप्पगासे, रत्तच्छे, जमलपुंजलंचलचलंतजीहे धरणियलवेणिभूए, उकडफुडकुडि-

लज्जिलकवल्लडवियडफडाडोवकरणदच्छे, लोगाहारधम्ममाणधमधमैतघोसे, अणागलियचंडतिव्वरोसे, सञ्चुहिं तुरियं, चवलं धमधमंतदिट्ठीविसे सण्णे य परिवसति; मा णं तुभं सरीरगसस वावत्ती भविस्सइ; ते मागंविद्यदारए दोचंपि तंचंपि एवं वदतिर, वेउव्वियससुग्घाएणं समोहणतिर, ताए उक्किडाए लवणस-  
मुहं तिसत्तखुत्तो अणुपरियेइउं पयत्ता यावि होत्था ॥ सूत्रम्-८८ ॥

‘सक्कवयणसेंदेशेणं’ति-शक्रवचनं चासौ सन्देशश्च-भाषकान्तरेण देशान्तरस्थस्य भगनं शक्रवचनसन्देशः तेन, अशु-  
चिकं-अपवित्रं, समुद्रस्याशुद्धिमात्रकारकं पत्रादीति प्रक्रमः पृतिकं-जीर्णतया कुथितप्रायं, दुरभिमन्धं-दुष्टगन्धं किमुक्तं भवति ?  
अचोक्षं अशुद्धः, ‘तिसत्तखुत्तो’चि-त्रिभिर्गुणिताः सप्त त्रिसप्त वाराः त्रिसप्तकृत्वः, एकविंशतिवारानित्यर्थः; ‘एयंसि  
अंतरंसि’चि-एतस्मिन्नवसरे विरहे वा, ‘उव्विग्ग’चि-उद्धिसौ उद्वेगवन्तौ, ‘उप्पिच्छ’चि-भीतौ, पाठान्तरेण-उत्प्लुतौ-  
भीतावैव; ‘उस्सुय’चि उस्सुकौ अस्मत्समागमनं प्रति, ‘तत्थ णं दो उट्टु’इत्यादि, तत्र-पौरस्त्ये वनखण्डे द्वौ ऋतू-  
कालविशेषौ सदा स्वाधीनौ-अस्तित्वेन स्वायत्तौ, तज्जन्यानां वनस्पतिविशेषपुष्पादीनां सद्भावात्, तद्यथा-ग्राहृद्-वर्षारात्रश्च,  
आषाढश्रावणौ भाद्रपदाश्वयुजौ चेत्यर्थः; अनयोरेव रूपकालङ्कारेण वर्णनाय गीतिकाद्वयम्, ‘तत्थ उ’इत्यादि,  
तत्रैव पूर्ववनखण्डे नान्यत्रौदीच्ये पश्चिमे वेत्यर्थः; कन्दलानि च-प्रत्यग्रलताः सिलिन्धाश्च-भूमिस्फोटाः, अन्ये  
त्वाहुः-कन्दलप्रधानाः सिलिन्धा-वृक्षविशेषा ये प्राह्वयि पुष्यन्ति, सितकुसुमाश्च भवन्ति त एव कुसुमिताः सन्ती  
दन्ता यस्य धवलत्वमाधर्म्यात् सः कन्दलसिलीन्ध्रदन्तः, इह च सिलीन्ध्राणां कुसुमितत्वविशेषणं सामर्थ्याद् व्याख्यातं,

कुसुमाभावे तेषां प्रावृषोऽन्यत्रापि कालान्तरे सम्भवादिति, तथा 'निउरो'चि-वृक्षविशेषः, तस्य यानि वरपुष्पाणि तान्येव पीवरः-स्थूरः करो यस्य स तथा, कुटजार्जुननीपा-वृक्षविशेषस्तत् पुष्पाणि कुटजार्जुननीपानि तान्येव सुरभिदानं-सुगन्धिमदजलं यस्य स तथा, प्रावृद्ध ऋतुरेव गजवरः प्रावृद्धऋतुगजवरः स्वाधीनः, इह सिलिन्धादिवनस्पतीनां कालान्तराकृतकुसुमानां सदाकुसुमितानां भावादात्मवशोऽस्तीति भावः ॥ १ ॥ तथा तत्रैव वनखण्डे सुरगोपा-इन्द्रगोप-कामिघाना रक्तवर्णाः कीटास्त एव मणयः पद्मरागादयः तैर्विचित्रः-कर्जुरो यः स तथा, तथा ददुःकुलरसितं-मण्डूकसमूहरटितं तदेव उज्जररवो-निर्झरशब्दो यत्र स तथा, बर्हिणवृन्देन-शिखण्डिसमूहेन परिगतानि शिखराणि ऋतुपक्षे वृक्षसम्बन्धीनि पर्वतपक्षे कूटानि यत्र स तथा वर्षारात्रऋतुरेव पर्वत इति विग्रहः, स्वाधीनः-स्वायत्तस्तद्धर्माणां सर्वदा तत्र भावादिति ॥ २ ॥ 'वावीसु'इत्यादि प्रथमाभ्ययनवत्, 'सरओ हेमंतो य'चि-कार्तिकमार्गशीर्षौ पौषमाघौ चेत्यर्थः इहापि गीतिकाद्यं-'तत्थ उ'इत्यादि, तत्रैव सनो-वल्लकप्रधानो वनस्पतिविशेषः सप्तपर्णः-सप्तच्छदस्तयोः पुष्पाणि सनसप्तपर्णानि तान्येव ककुदं-स्कन्धदेशविशेषो यस्य स तथा, नीलोत्पलपद्मनलिनानि-जलजकुसुमविशेषास्तान्येव शृङ्गे यस्य स तथा, सारसाश्रकवाकाश्र-पक्षिविशेषास्तेषां 'रविच्यं'ति-रुतं तदेव घोषो-नर्दितं यस्य स तथा शरहतुरेव गोपतिः-मवेन्द्रःशरहतुगोपतिः स्वाधीनः ॥ १ ॥ तथैव तत्र वनखण्डे सितानि यानि कुन्दानि-कुन्दाभिधानवनस्पतिकुसुमानि तान्येव बबला ज्योत्स्ना-चन्द्रिका यस्य स तथा, पाठान्तरेण-सितकुन्दविमलजोणहो'चि स्पष्टं, कुसुमितो यो लोध्रवनखण्डः स एव मण्डलतलं-विम्बं यस्य स तथा, तुषारं-हिमं तत्प्रधानाः या उदकधारा-उदकविन्दुप्रवाहास्ता एव पीवराः-

स्थूलाः कराः-किरणा यस्य स तथा, हेमन्तऋतुरेव शशी-चन्द्र इति विग्रहः स्वाधीनः ॥ २ ॥ तथैव 'वसन्ति गिम्हे  
 य'ति- फाल्गुनचैत्रौ वैशाखज्येष्ठौ चेत्यर्थः, 'तत्थ उ' इत्यादि, गीतिकाद्वयं, तत्र च सहकाराणि-चूतपुष्पाणि तान्येव  
 चारुहरी यस्य स तथा, किंशुकानि-पलाशस्य कुसुमानि कर्णिकाराणि-कर्णिकारस्य अशोकानि चाशोकस्य तान्येव सुकुटं-  
 किरीटं यस्य स तथा, -उच्छ्रितं-उन्नतं तिलकबकुलानि-तिलकबकुलकुसुमानि तान्येवातपत्रं-छत्रं यस्य स तथा, वसन्त  
 ऋतुर्नरपतिः स्वाधीनः प्रतीतम् ॥ १ ॥ तत्र च पाटलाशिरीषाणि-पाटलाशिरीषकुसुमानि तान्येव सलिलं यत्र स तथा मल्लिका-  
 विचकिलो वासन्तिका-लताविशेषः तत्कुसुमानि मल्लिकावासन्तिकानि तान्येव धवला-सिता वेला-जलशृङ्खलस्य स तथा,  
 शीतलः सुरभिश्च योऽनिलो-वायुः स एव मकरचरितं यत्र स तथा, इह चानिलशब्दस्य अकारलोपः प्राकृतत्वात् ' अरण्ये  
 रण्यं अलायं लाडय ' भित्त्यादिवत्, शीष्मऋतुसागरः स्वाधीन इति । ' उग्गविसे ' इत्यादि उग्रं दुर्जरत्याद्विषं यस्य स  
 उग्रविषः, एवं सर्वत्र, नवरं चण्डं झगिति व्यापकत्वात्, पाठान्तरे तु- ' भोगविसे ' इति तत्र भोगः शरीरं स एव विषं  
 यस्येति, वोरं परम्परया पुरुषसहस्रस्यापि घातकत्वात्, महत् जम्बूद्वीपप्रमाणशरीरस्यापि विषतयाऽऽभवनात्, कायान्-  
 शरीराणि शेषाहीनामतिक्रान्तोऽतिकायः, अत एव महाकायः, ' जहा तेयनिसग्गे 'ति-शेषविशेषणानि यथा गोशालक-  
 वरिते तथेहाभ्येतव्यानीत्यर्थः, तानि चैतानि ' मस्मिन्हिसमूसाकालगे ' मपी च महिषश्च मूया च-स्वर्णादितापन-  
 भाजनविशेष इति द्वन्द्वः एता इव कालको यः स तथा, ' नयणविसरोसपुण्णो ' नयनविषेण-दृष्टिविषेण रोपेण च पूर्ण  
 इत्यर्थः, ' अंजणपुंजनिगरप्पगासे' कञ्जलपुञ्जानां निकर इव प्रकाशते यः स तथा, ' रत्तच्छे जमलजुयलचंचलचलं-

तजोहे' यमलं-सहवर्चि युगलं-द्वयं चञ्चलं च यथा भवत्येवं चलन्त्योः-अतिचपलयोर्जिह्वयो यस्य स तथा, 'धरणि तल-  
वेणिसूर' धरणी तलस्य वेणीभूतो-वनिताशिरसः केशवन्धविशेष इव यः कृष्णत्वदीर्घन्त्रश्लक्ष्णत्पश्चाद्भाग्वादि साधम्यति स  
तथा, 'उक्कडुकुडिलजडिलककम्बडविगडफडाडोवकरणदच्छे' उक्कटो बलवताऽन्येनाध्वंसनीयत्वात् स्फुटो-व्यक्तः  
अपत्नविहितत्वात् कुटिलः-तत्स्वरूपत्वात् जटिलः-स्कन्धदेशे केशरिणामिवाहीनां केशसमूहात् कर्कशो-निष्ठुरो बलवत्त्वात्  
निकटञ्च-विस्तीर्णो यः स्फटाटोपः-फणासंरम्भः तत्करणे दक्षो यः स तथा, 'लोहागरधम्ममाणधमधमंतघोसे' -  
लोहाकरे ष्मायमानं-अग्निना ताप्यमानं लोहमिति गम्यते, तस्यैव यद्ब्रह्ममायमानो-धमधमेति वर्णव्यक्तिमिवोत्पादयन्  
बोषः-शब्दो यस्य स तथा, 'अणागल्लियचंडतिन्वरोसे'-अनर्गलितः-अनिवारितोऽनाकलितो वा-अप्रमेयश्चण्डतीव्रः-  
अत्यर्थतीव्रो रोषो यस्य स तथेति, 'ससुहिं तुरियं चवलं धमंतं'ति शुनो मुखं श्वमुखं तस्यैवावरणं श्वघृत्वि-कौलेयकस्यैव  
मषणतां त्वरितचपलं-अतिचदुलतया धमन्-शब्दं कुर्वन्नित्यर्थः ।

तए नं ते मागं दियदारया तओ सुहुत्तरस्स पासायवडिसए सहं वा, रतिं वा, धितिं वा, अलभ-  
माणा अपणमणं एवं वदासी-एवं खलु देवां !, रयणदीवदेवया अम्हे एवं वदासी-एवं खलु अहं सक्क-  
वयणसंदेसेणं सुट्टिएणं लवणाहिवइणा जाव वावत्ती भविस्सइ, तं सेयं खलु अम्हं देवाणुप्पिया !, पुर-  
च्छिमिल्ले वणसंडं गमित्तए, अपणमणस्स एयमट्टं पडिसुणंतिर, जेणेव पुरच्छिमिल्ले, वणसंडे, तेणेव  
उवागच्छंतिर, तत्थ णं वावीसु य जाव अभिरममाणा आलीघरएसु य जाव विहरंति; तते णं ते मागं-



दियदारया तत्थवि सइं वा जाव अलभमाणा, जेणेव उत्तरिल्ले वणसंडे, तेणेव उवा०२, तत्थ णं वावीसु  
 य जाव जालीघरएसु य विहरंति; तते णं ते मांगंदियदारया तत्थवि सतिं वा जाव अलभ० जेणेव  
 पच्चत्थिमिल्ले वणसंडे, तेणेव उवा० २ जाव विहरति; तते णं ते मांगंदिय० तत्थवि सतिं वा जाव अलभ०  
 अणमणं, एवं वदासी-एवं खलु देवा० !, अम्हे रयणदीवदेवया एवं वयासी-एवं खलु अहं देवाणु-  
 ष्पिया !, सक्कस्स वयणसंदेसेणं सुट्टिएण लवणाहिवइणा जाव मा णं तुभं सरीरगस्स वावत्ती भवि-  
 स्सति, तं भवियच्चं एत्थ कारणेणं, तं सेयं खलु अमहं दक्खिणिं वणसंडं गमित्तए त्तिकहु अणम-  
 णस्स एतमहं पडिसुणेंति२, जेणेव दक्खिणिं वणसंडे, तेणेव पहरेत्य गमणाए; तते णं गंधे निद्धाति  
 से जहा नामए अहिमडेति वा जाव अणिट्ठतराए चेव, तते णं ते मांगंदियदारया तेणं असुभेणं गंधेणं  
 अभिभूया समाणा सएहिं२ उत्तरिल्लेहिं आसातिं पिहेति२, जेणेव दक्खिणिं वणसंडे तेणेव उवागया,  
 तत्थ णं महं एणं आघातणं पासंति२; अट्टियरासिसतसंकुलं, भीमदरिसणिं, एणं च तत्थ सूलाइतयं,  
 पुरिसं, कलुणातिं विस्सरातिं कडातिं कुच्चमाणं पासंति; भीता जाव संजातभया जेणेव से सूलाति-  
 यपुरिसे तेणेव उवागच्छंति२, तं सूलाइयं एवं वदासी-एस णं दे० ! कस्साघयणे तुमं च णं के कओ  
 वा, इहं हव्वमागए केण वा इमेयारुवं आवतिं पाविए !; तते णं से सूलातियए पुरिसे मांगंदियदारए

१ वायतणं, अ ।

एवं वदासी-एस णं देवाणु० ? रयणदीवदेवयाए आघयणे अहणं देवाणुप्पिया ! जंबुदीवाओ दीवाओ, भारहाओ वासाओ, कागंदीए आसवाणियए, विपुलं पणियमंडमायाए पोतवहणेणं लवणसमुदं ओयाए, तते णं अहं पोयवहणविवत्तीए निब्बुडुभंडसारे एगं फलगंबंडं आसाएमि; तते णं अहं उवुज्जमाणे२; रयणदीवतेणं संबूढे, तते णं सा रयणदीवदेवया ममं ओहिणा पासइ२, ममं गेणहइ २, मए सद्धिं विपु-  
ल्लतिं भोगभोगातिं सुंजमानीं विहरति; तते णं सा रयणदीवदेवया अणदा कयाइ अहालहुसंगंसि अवराहंसि परिक्खुविया समानी ममं एतारूवं आवतिं पावेइ, तं ण गज्जति णं देवा० !, तुमंहंपि इमेसि सरीरगाणं का मण्णे आवती भविस्सइ ?, तते णं ते मागंदियदारया तस्स सूलाइयगस्स अंतिए एयमत्थं सोच्चा, णिसम्म, बलियतरं भीया जाव संजायभया सूलाइतयं पुरिसं एवं व०-कहणं देवाणु० !, अग्हे रतणदीवदेवयाए हत्थाओ साहत्थिं णित्थरिज्जामो ?, तते णं से सूलाइयए पुरिसे ते मागंदिय० एवं वदासी-एस णं देवाणु० !, पुरच्छिमिल्ले वणसंडे सेलगस्स जक्खस्स जक्खाययणे सेलए नामं आसरूव-  
धारी जक्खे परिवसति, तए णं से सेलए जक्खे चोइसट्टुसुद्धिपुणमासिणीसु आगयसमए पत्तसमये महया २ सदेणं एवं वदति-कं तारयामि ?, कं पालयामि ?; तं गच्छह, णं तुंभे देवा० !, पुरच्छिमिल्लं वणसंडं सेलगस्स जक्खस्स महरिहं पुफ्फणियं करेइ२, जणुपायवडियां पंजलिउडा विणएणं पज्जुवा-  
समणा चिट्ठह, जाहे णं से सेलए जक्खे आगतसमए पत्तसमए एवं वदेज्जा-कं तारयामि ?, कं पाल-

यामि !; ताहे तुम्भे वदह-अम्हे तारयाहि, अम्हे पालयाहि; सेलए भे जक्खे परं रयणदीवदेवयाए  
 हत्याओ साहत्थि गित्थारेज्जा, अण्णहा भे न याणामि इमेसिं सरीराणं का मण्णे आवई भविस्सह ?  
 ॥ सूत्रम् ८९ ॥ तते णं ते मागंदियं तस्स सुलाइयस्स अंतिए एयमहं सोच्चा, निसम्म; म्मिणं, चंडं,  
 चवलं, तुरियं, वेइयं जेणेव पुरच्छिमिह्ले वणसंढे, जेणेव पोक्खरिणी, तेणेव उवा०, पोक्खरिणिं गाहंति२,  
 जलमज्जणं करेन्ति२, जाहं तत्थ उप्पलाहं जाव गेण्हंति२, जेणेव मेलगस्स जक्खस्स जक्खाययेणे,  
 तेणेव उ०२, आलोए पणामं करेत्ति२, महरिहं पुक्खणियं करेत्ति२, जण्णुपायवडिया, सुस्सुसमाणा, णमं-  
 समाणा पज्जुवासंति; तते णं मे सेलए जक्खे आगतसमए पत्तसमए एवं वदासी-कं तारयामि !,  
 कं पालयामि !; तते णं ते मागंदियदारया उट्टाए उट्टेत्ति, करयल० एवं व०-अम्हे तारयाहि, अम्हे पाल-  
 याहि; तए णं से सेलए जक्खे ते मागंदियं, एवं वया०-एवं खलु देवाणुप्पिया !, तुम्भं मए सद्धिं लव-  
 णससुद्धेणं मज्झं२, बीहवयमाणेणं सा रयणदीवदेवया पावा, चंडा, रुद्धा, खुद्धा, साहसिया बह्महिं व्वरएहि  
 य, मउएहि य, अणुलोमेहि य, पडिलोमेहि य, सिंगारेहि य, कलुणेहि य, उवसग्गेहि य, उवसग्गं  
 करेहित्ति; तं जति णं तुम्भे देवा० ! रयणदीवदेवयाए एतमहं आढाह वा, परियाणह वा, अवयेक्खह वा,  
 तो भे अहं पिट्ठातो विद्युणामि, अह णं तुम्भे रयणदीवदेवयाए एतमहं णो आढाह, णो परियाणह, णो  
 अवेक्खह, तो भे रयणदीवदेवयाहत्थातो साहत्थि गित्थारेमि; तए णं ते मागंदियदारया सेलगं जक्खं,

नवाङ्गी-

५०. ५०

श्रीश्रीवा-

कीर्तिकाव्ये

॥ १७६ ॥

एवं वदासी-जणं देवाणु० ! बहूस्सन्ति तस्स णं उववायवयणणिहेसे चिद्धिस्सामो, तते णं से सेलए जंक्खे उत्तरपुरच्छिमं विसीभागं अवक्कमतिर, वेउव्वियसमुघाणं समोहणतिर, संखेज्जातिं जोयणाइं दंढं निस्सरह, दोचंपि तंचंपि वेउव्वियससु० २, एगं महं आसरूवं विउव्वहर, ते मागंदियदारए एवं वदासी-हं भो मागंदिया !, आरुह णं देवाणुप्पिया !, मम पिट्टंसि, तते णं ते मागंदिय०, हट्ट०, सेल-गस्स जक्खस्स पणामं करेतिर, सेलगस्स पिट्टिं दुरुढा; तते णं से सेलए ते मागंदिय०, दुरुढे जाणित्ता, सत्तट्ठतालप्पमाणमेत्ताति उडुं वेहासं उप्पयति, उप्पइत्ता य ताए उक्किट्ठाए, तुरियाए, देवयाए, लवण-समुदं मज्झमज्जेणं, जेणेव जंबुदीवे दीवे, जेणेव भारहे, जेणेव चंपा नयरी, तेणेव पहरेतथ गमणाए ॥ सुत्रम् १० ॥ तते णं सा रयणदीवदेवया लवणससुदं तिसत्तखुत्तो अणुपरियद्वति, जं तत्थ तणं वा जाव एहेति, जेणेव पासायवडेंसए तेणेव उवागच्छतिर, ते मागंदिया पासायवडेंसए अपासमाणी जेणेव पुरच्छिमिहे वणसंडे जाव सव्वतो समंता मग्गणवेसणं करेतिर, तेसिं मायंदियदारगणं कच्छइ सुतिं वा ३, अलभमाणी जेणेव उत्तरिहे एवं चेव पच्चत्थिमिहेवि जाव अपासमाणी ओहिं पउजंति; ते मागंदियदारए सेलएणं सद्धिं लवणससुदं मज्झमज्जेणं वीहवयमाणेर, पासतिर, आसुरुत्ता असिखेहगं गेणहतिर, सत्तट्ठ जाव उप्पयतिर, ताए उक्किट्ठाए जेणेव मागंदिय० तेणेव उवा०२, एवं व०-हं भो मागं-

१-श्री-

माकन्दी-

ज्ञाताव्य०

शैलकयश्च-

सम्बन्धा-

दिवर्णन-

सूत्रम् ।

दिय० अप्पत्थियपत्थिया क्किणं तुब्भे जाणह ममं विप्पज्जहाय सेलएणं जक्खेणं सद्धिं लवणसमुद्धं मज्झं-  
 मज्झेणं, वीतीवयमाणा !; तं एवमवि गए जह णं तुब्भे ममं अवयक्खह तो भे अत्थि जीवियं, अहण्णं  
 णावयक्खह तो भे इमेणं नीलुप्पलगवल जाव एडेमि, तते णं ते मागंदियदारया रयणदीवदेवयाए अंतिए  
 एयमद्धं सो०, णिस०; अभीया, अतत्था, अणुब्बिग्गा, अक्खुभििया, असंभंता, रयणदीवदेवयाए एयमद्धं  
 नो आहंति, नो परि०, णो अवयक्खंति; अणाढायमाणा अपरि०, अणवयक्खमाणा सेलएण जक्खेण  
 सद्धिं लवणसमुद्धं मज्झंमज्झेणं वीतिवयंति; तते णं सा रयणदीवदेवया ते मागंदिया जाहे नो संचाएति,  
 बहूहिं पडिलोमेहि य, उवसग्गेहि य, चालित्तए वा, खोभित्तए वा, विपरिणामित्तए वा, लोभित्तए वा,  
 ताहे महुरेहि सिंगारेहि य, कलुणेहि य, उवसग्गेहि य, उवसग्गेउं पयत्ता यावि होत्था; हं भो मागं-  
 दियदारगा !, जति णं तुब्भेहिं देवाणुप्पिया !, मए सद्धिं हसियाणि य, रमियाणि य, ललियाणि य,  
 कीलियाणि य, हिंढियाणि य, मोहियाणि य; ताहे णं तुब्भे सव्वत्तिं अगणेमाणा ममं विप्पज्जहाय  
 सेलएणं सद्धिं लवणसमुद्धं मज्झंमज्झेणं वीहवयह; तते णं सा रयणदीवदेवया जिणरक्खियस्स मणं  
 ओहिणा आभाएति आभोएत्ता एवं वदासी-णिच्चंऽपिय णं अहं जिणपालियस्स अणिट्ठा ५ निच्चं मम  
 जिणपालिए अणिट्ठे ५ निच्चंऽपिय णं अहं जिणरक्खियस्स इट्ठा ५ निच्चंऽपिय णं ममं जिणरक्खिए इट्ठे ५,  
 जति णं ममं जिणपालिए रोयमाणीं, कंदमाणीं, सोयमाणीं, तिप्पमाणीं, चिलवमाणीं, णावयक्खति



१-श्री-  
 माकन्दी-  
 ज्ञाताव्य०  
 रत्नद्वीप-  
 देवता-  
 विलापादि-  
 वर्णन-  
 सूत्रम् ।

॥ १७२ ॥

किष्णं तुमं जिणरक्खिया !, ममं रोयमणिं जाव णावयक्खसि ?; तते णं-“ सा पवररणदीवस्स देवया ओहिणा उ जिणरक्खियस्स मणं । नाळ्ण वधनिमित्तं उवरि सागंदियदारगणं दोण्हंपि ॥ १ ॥ ” दोसकलिया सललियं णाणाविहचुण्णवासमीसं (सिचं) दिव्वं । घाणमणनिव्वुइकरं सब्बोउयसुरभिक्कुसु- ममुट्ठिं पसुंचमणी ॥ २ ॥ णाणासमणिकणरणयणंधंटियिक्खिणिणेळरमेहलभूसणरवेणं । विसाओ विदि- साओ पूरयंती वयणमिणं बेति सा सकलुसा ॥ ३ ॥ होल वसुल गोल णाह दहत पिय रमण कंत सामिय णिग्घिण णित्थक्क । छिण्ण णिक्खिव अकयलुय सिठिलभाव निल्लज्ज लुक्ख लुक्ख अकलुण जिणरक्खिय मज्झं हियरक्खगा ! ॥ ४ ॥ णहु जुज्जसि एक्कियं अणाहं अबंधवं तुज्झ चलणओवायकारियं उज्झउं महणं । गुणसंकर ! अहं तुमे विह्वणा ण समत्थावि जीविउं खणंपि ॥ ५ ॥ इमस्स उ अणेगझसमगरविविचिसा- वयसयाउलघरस्स । रयणागरस्स मज्झे अप्पाणं वहेमि तुज्झ पुरओ एहि णियत्ताहि जइसि कुविओ खमाहि एक्कावराहं मे ॥ ६ ॥ तुज्झ य विगयघणविमलससिमंडलगारसस्सिरीयं सारयनवकमलकुसुद- कुवलयविमलदलनिकरसरिसिभं । नयणं वयणं पिवासागयाए सद्धा मे येच्छिउं जे अवलोएहि ता इओ ममं णाह जा ते पेच्छामि वयणकमलं ॥ ७ ॥ एवं सप्पणयसरलमहुरातिं पुणो २ कलुणाहं वय- णातिं जंपमणी सा पावा मग्गओ समणोह पावहियया ॥ ८ ॥ ” तते णं से जिणरक्खिए चलमणे तेजेव भूसणरवेणं कण्णसुहमणोहरेणं तेहि य सप्पणयसरलमहुरभणिएहिं संजायविउणराए रयणदी-




श्री-  
 ५०  
 ज्ञाता-  
 विलापादि-  
 १७२ ॥

वस्स देवयाए तीसे सुंदरथणजहणवयणकरचरणनयणलावन्नरूवजोव्वणसिरिं च दिव्वं सरभसउवग्ग-  
 हियाइं जातिं विब्बोयविलसियाणि य विहसियसकडक्खदिट्ठिनिससियमलियउवलियठियगमणपण-  
 यखिज्जियपासादियाणि य सरमाणे रागमोहियमई अवसे कम्मवसणए अवयक्खति मग्गतो सविलियं,  
 तते णं जिणरक्खियं समुप्पन्नकलुणभावं मरुडुगलत्थल्लुणोल्लियमइं अवयक्खंतं तहेव जक्खे य सेलए  
 जाणिऊण सणियं२ उव्विहति नियगपिट्ठाहि विगयसत्थं, तते णं सा रयणदीवदेवया निस्संसा कलुणं  
 जिणरक्खियं सकलुसा सेलगपिट्ठाहि उवयंतं दास ! मओसिति जंपमाणी अप्पत्तं सागरसलिलं गेण्हिय  
 बाह्महिं आरसंतं उडुं उव्विहति, अंबरत्थे ओवयमाणं च मंडलग्गेण पडिच्छित्ता नीलुप्पलगवलअय-  
 सिप्पगासेण असिचरेणं खंडाखंडिं करेति २ तत्थ विलवमाणं तस्स य सरसवहियस्स घेत्तूण अंगमंगतिं  
 सरुहिराइं उक्खित्तबलिं चउद्धिसिं करेति सा पंजली पहिट्ठा ॥ सूत्रम् ११ ॥ एवामेव समणाउसो !, जो  
 अमहं निगंगाण वा २, अंतिए पव्वतिए समाणे पुणरवि माणुस्सए कामभोगे आसायति, पत्थयति,  
 पीहेति, अभिलसति; से णं इह भवे च्चेव बहूणं समणाणं ४, जाव संसारं अनुपरियट्ठिस्सति; जहा वा  
 से जिणरक्खिए—“ छलओ अवयक्खंतो निरावयक्खो गओ अविग्घेणं । तम्हा पवयणसारं निरावय-  
 क्खेण भवियव्वं ॥ १ ॥ भोगे अवयक्खंता पडंति संसारसाचरे घोरे । भोगेहिं निरवयक्खत्ता तरंति संसा-  
 रकंतारं ॥ २ ॥ ( सूत्रम् १२ ) तते णं सा रयणदीवदेवया जेणेव जिणपालिए तेणेव उवा० बह्महिं अणुलो-

१-भी-  
 माकन्दी-  
 ज्ञानाद्य-  
 जिनपालि-  
 तस्य  
 स्वस्थान-  
 गमनादि-  
 सूत्रम् ।

॥ १७३ ॥

नेदि य, पहिप्रोमदि य, चारमटुगमितारं हं क्लृणंति य, उवसंगंति य, जात्रे नां संचाणह, चाञ्जिन य।  
 लोचि०, चिप्य०, तां संता, तंता, परितंता, निञ्चिण्णा, समाणा त्तमव दिमि पाउ० नामव दिमं पटि-  
 गवा, तते णं मे संमणं ज्जक्खं जिणपालिग मदिं लवणममुरं मत्तंमत्तं वीनीवयति०, जंणव चंपा-  
 मपरी, तेणेव उवागच्छति २, चंपाः नयगीए अगुज्जाणंमि जिणपालियं पट्टानां आयागंति२, एवं व०-एम  
 णं देवा० १, चंपानयरी वीमनि त्तिक्कु जिणपालियं आपुच्छति २, जामं व दिमि पाउ०भूण, नामेव दिमि  
 पडिणए ॥ सूत्रम् ०३ ॥ तते णं जिलपालिः चंपं अणुपत्तिसि २, जेणेव मण गिहे, जेणेव अम्मापियरो,  
 तेणेव उवागच्छइ२, अम्मपिऊणं रोयमाणे जाव विलवमाणे जिणरक्खियवावत्ति निवेदेति, तते णं  
 जिणपालिः अम्मपियरो मित्तणाति जाव परियणं सद्धिं रोयमाणानि बहूइं लोइयाइं मयक्खिवाइं  
 करेति२, कालेणं विगतसोया जाया; तते णं जिणपालियं अन्नया कथाइ सुहासणवरगतं अम्मपियरो  
 एवं ववासी-कहणं पुत्ता ! जिणरक्खिए कालगए १, तते णं से जिणपालिः अम्मपिऊणं लवणसमुद्धो-  
 एतं च कालियवायसमुत्थणं पोतवहणविवत्ति च फलह्वडआसातणं च रयणदीधुत्तारं च रयणदीवदेव-  
 धानिहं च भोगविभूहं च रयणदीवदेवया अप्पाहणं च सूलाइयपुरिसदरिसणं च सेलगजक्खआरुहणं च  
 रयणदीवदेवयाउवसगं च जिणरक्खियविवत्ति च लवणसमुद्धउत्तरणं च चंपाणमणं च सेलगजक्खआ-  
 पुच्छणं च जहाभूयमवितहमसंदिद्धं परिकहेति, तते णं जिणपालिः जाव अप्पसोगे जाव विपुलानि





भोगभोगाहं भुंजमाने विहरति ॥ सूत्रम् ९४ ॥ तेषां कालेणं २, समणे०, समोसडे, धम्मं सोच्चा, पव्व-  
 तिए, एक्कारसंगवी, मासिएणं, सोहम्ममे कप्पे, दो सागरोवमे; महाविदेहे सिञ्जिहिति । एवामेव समणा-  
 उसो !, जाव माणुस्सए कामभोए णो पुणरवि आसाति, से णं जाव वीतिवत्तिसति, जहा वा से जिण-  
 पालिए । एवं खल्लु जंबू !, समणेणं भगवया नवमस्स नायज्झयणस्स अयमट्ठे पणत्ते त्तिबेमि ॥ सूत्रम्  
 ॥ ९५ ॥ नवमं अज्झयणं समत्तं ॥ 'सहं व'चि-सुखलक्षणफलबहुलां स्मृतिं वा स्मरणं अतिव्याकुलचित्ततया न  
 लभते स्म, रति-चित्तरमणं, 'धिहं व'चि-दृतिं वित्तस्वास्थ्यमिति, 'आसयाहं'ति-आस्ये-सुखे, 'पिहंति'चि-पिधन्तः-  
 स्थगयन्तः, 'आघयणं'ति-वधस्थानं, 'सूलाहयगं'ति-शूलिकाभिन्नं, 'कलुणाहं'ति-करुणाजनकत्वात्, 'कट्ठाहं'ति-  
 कट्टं-दुःखं तत्प्रभवत्वात्, 'विरसराहं'ति-विरुषशब्दस्वरूपत्वात् वचनानीति गम्यते, 'कूजन्तं'-अव्यक्तं शब्दायमानं,  
 'काकं दीए'चि-काकन्दीनगरी तद्भवः, 'ओयाए'चि-उपायातः-उपागतः, 'अहाल्लहुस्सगंसि'चि-यथाप्रकारे लघु-  
 स्वरूपे 'उदिट्ठ'चि-अमावास्या, 'आगयसमए'चि-आसन्नोभूतोऽवसरो-यस्य स इत्यर्थः, प्राप्सस्तु साक्षादेव, 'हत्थाओ'चि-  
 हस्ताद् ग्रहणप्रवृत्तात्, 'साहत्थि'चि-स्वहस्तेन, 'सिगारेहि'चि-शृङ्गारसोपेतैः कामोत्कोचकैः करुणैस्तथैव, उपसर्गैः-  
 उपद्रवैर्वचनचेषाविशेषरूपैः, 'अवयक्खह'अपेक्ष्यं, 'मए सद्धिं हसियाणि' इत्यादि; इह क्तप्रत्ययो भावे तस्य  
 चोपाधिभेदेन भेदस्य विचक्षणाद् बहुवचनं, अन्यथा यदुवाभ्यां मया सार्द्धं हसितं चेत्यादि वाच्यं स्यात्, तथा रतानि च  
 अक्षादिभिः ललितानि च ईप्सितानि लीला वा, 'कीलियाणि य'चि-जलान्दोलनकक्रीडादिभिः हिण्डितानि च वनादिषु

निहतानि मोहितानि च-निधुवनानि, एतच्च वाक्यं काक्काऽध्यं, तत उपालम्भः प्रतीयते; 'तए णं सा रयणदीचै'त्यादि  
 च्छं वाचनान्तरे-रूपकविशेषद्वयम्रान्ति करोति, तथाहि-'सा पवररयणदीवस्स देवया ओहिणा उ जिणरक्खिअस्स  
 नाऊण वह्निमित्तं उवरिं माईदिदारगाण दोणहंपि' इत्येकं, 'दोसकलिया सलीलयं नाणाविहचुण्णवास-  
 मीसियं दिव्वं घाणमणनिव्वुहकरं सव्वोउयसुरहिक्कुसुमवुट्टिकरं पसुंचमाणी' इति द्वितीयं; एवमन्यान्यपि  
 परिभावनीयानि पद्यानि, पद्यबन्धं हि विना तुकारादिनिपातानां पादपूरणार्थानां निर्देशो न घटते, अपरिमितानि च छन्दः-  
 शास्त्राणीति, अर्थस्त्वेवम्-सा देवता जिनरक्षितस्य ज्ञात्वा भावमिति शेषो वधनिमित्तं तस्यैव, वचनमिदं ब्रवीति स्मेति  
 सम्बन्धः; 'दोसकलिय'चि-द्वेषयुक्ता 'सलीलयं'ति-सलीलं यथा भवतीत्यर्थः, 'चुण्णवास'चि-चूर्णलक्षणा वासाः चूर्ण-  
 वासाः तैर्मिश्रा या सा तथा तां दिव्यां घ्राणमनोनिवृत्तिकरीं सर्वतुकानां सुरभीणां च कुसुमानां या वृष्टिः सा तथा तां प्रमु-  
 श्रन्ती । तथा नानामणिकनकरत्नानां सम्बन्धीनि घण्टिकाश्च किङ्किण्यश्च-शुद्रघण्टिका नुपुरी च प्रतीतौ मेखला च-रसना  
 बसुलक्षणाणि यानि भूषणानि तेषां यो स्वस्तेन इति रूपकार्थं, 'दिसाओ चिदिसाओ पूरयंती वयणमिणं बेइ य'त्ति  
 किञ्चो विदिशश्च पूरयन्ती वचनमिदं वक्ष्यमाणं ब्रवीति सा देवता, 'सकलस'चि-सह कलुषेण पापेन वर्चते या सा तथेति  
 वृतीयं । हे हो (हा)ल हे वसुल हे गोल एतानि च पदानि नानादेशोपेक्षया पुरुषाद्यामन्नवचनानि गौरवकुत्सादिगर्भाणि  
 वर्चन्ते, हो (हा)ल इति दशचैकालिके होल इति दृश्यते, तथा नाथ !-योगक्षेमकरिन् !, दयित !-वल्लभ !, रक्षित ! इति  
 वा; मिय !-प्रेमकर्त्तः !, रमण-भर्त्तः !, कान्त !-कमनीय ! स्वामिक !-अधिपते !, निर्दृष्ट !-निर्दय !, सत्सेहाया वियोग-

दुःस्थायाममपरित्यागात्, 'नित्यक्व'चित्-अनवसरञ्च अनुरक्तायाममाकाण्डे एव त्यागादित्यर्द्धं, 'छिण्ण'चित्-स्त्यान !, कठिनमदीयात्यन्तानुकूलचरिताद्रवीकृतहृदयत्वात् निष्कृप !, मम दुःखिताया अप्रतीकारात्, अकृतज्ञ !, मदीयोपकारस्या-  
नपेक्षणात् स्थितिलभाव !, अकस्माद् मम मोचनात् निर्लज्ज ! प्रतिपन्नत्यागात्; रुक्ष !, खेहकार्याकारणात्; अकरुण !, हे  
जिनरक्षितमम हृदयरक्षक !-वियोगदुःखेन शतधास्फुटतो हृदयस्य त्रायकपुनर्मम स्वीकरणत इत्यर्थः इति चतुर्थं, 'नहु'-नैव  
युज्यसे-अहंसि एककामनाथामबान्धवां तत्र चलनोपपातकारिकां-पादसेवाविधायिनीमुज्झितुमधन्यामिति, इह च समानार्थानि-  
कशब्दोपादानेऽपि न पुनरुक्तदोषः सम्भ्रमाभिहितत्वात्, यदाह-"वक्ता हर्षभायादिभिराक्षिप्तमनाः स्तुवंस्तथा निन्दन् । यत्पद-  
मसकृद् ब्रूयात् तत्पुनरुक्तं न दोषाय ॥ १ ॥" इति अर्थं, हे गुणसंकर !-गुणसमुदायरूप !, हं इति अकारलोपदर्शनादहमिति  
दृश्यं त्वया विहीना न समर्था जीवितुं क्षणमपीति पञ्चमं । तथा 'इमस्स उ'चित्-अस्य पुनः अनेके ये ज्ञाषा-मत्स्या, मकरा-  
ग्राहाः, विविधश्चापदाश्च-जलचरशुद्रसत्त्वरूपास्तेषां यानि शतानि तेषामाकुलगृहं आकीर्णगोहं ज्ञाषादीनां वा सदा-नित्यं कुल-  
गृहमिव कुलगृहं यः स तथा तस्येत्यर्द्धं, रत्नाकरस्य-समुद्रस्य मध्ये आत्मानं, 'वहेमि'चित्-हन्मि तव-भवतः पुरतः-अग्रतः  
तथा एहि निवर्त्तस्व, 'जहसि'चित्-यदि भवसि कुपितः क्षमस्वैकापराधं त्वं मे इति षष्ठं । 'तुञ्ज य'चित्-तव च विगतघनं  
विमलं च यच्छशिमण्डलं तस्येवाकारो यस्य श्रिया च सह यद्दत्ते तत्तथा, पाठान्तरेण-विगतघनविमलशशिमण्डलेनोपमा  
यस्य सश्रीकं च यत्तत्तथा; शारदं-शारत्कालसम्भवं यन्नवं-प्रत्यग्रं कमलं च-सूर्यबोध्यं कुमुदं च-चन्द्रबोध्यं कुवलयं च-  
नीलोत्पलं तेषां यो दलनिकरः-दलवृन्दं तत्सदृशे नितरां मात इति-निमेषे च नयने यत्र तत्तथा, पाठान्तरेण-शारदनव-

कमलकुमुदे च ते विष्टकुले च ते विकसिते शेषं तथैव, वदनं-मुखं प्रतीति वाक्यशेषः, पिपासागतायाः-मुखदर्शनजलपानेच्छया आयातायाः तां वा गतायाः-प्राप्तायाः कस्याः ?-मे-मम श्रद्धा-अभिलाषः किं कर्तुं ?-प्रोक्षितं-अवलोकयितुं जे इति पादपूर्णे निपातः, अवलोकय ता इति-ततस्तावदिति वा इतः-अस्यां दिशि मां नाथ जा इति-येन यावदिति वा ते-तत्र प्रेक्षे वदनकमलमिति रूपकं ॥ ७ ॥ एवं सप्रणयानि-सखेहानीव सरलानि-सुखावगम्याभिधेयानि मधुराणि च-भाषया कोमलानि यानि सानि तथा; तथा करुणानि-करुणोत्पादकत्वात् वचनानि जल्पन्ती सा पापा क्रियया मार्गतः-पृष्ठतः, समन्वेति-समनु-गच्छति पापहृदयेति ॥ ८ ॥ ततोऽसौ जिनरक्षितश्चलमनाः-अभ्युपगमाच्चलितचेताः 'अवयकखह'चि-सम्बन्धः, किंभूतः ?-सञ्जातद्विगुणरागः पूर्वकालापेक्षया, कस्यां ?-रत्नद्वीपदेवतायां, केन कैश्चेत्याह-तेन च-पूर्वोक्तेन भूषणरवेण कर्णसुखो मनोहरश्च यस्तेन तैश्च पूर्ववर्णितैः सप्रणयसरलमधुरभणितैः, तथा तस्या देवतायाः सुन्दरं यस्तनजवनवदनकरचरणनयनानां लावण्यं-स्पृहणीयत्वं तच्च रूपं च-शरीरसुन्दरत्वं च यौवनं च-तारुण्यं तेषां या श्रीः-सम्पत् सा तथा तां च दिव्यां-देवसम्बन्धिनीं स्मरन्ति सम्बन्धः, तथा सरभसानि-सहर्षाणि यान्युपगूहितानि-आलिङ्गितानि तानि तथा 'विब्वोयक्ताः' स्त्रीचेष्टाविशेषाः, विलसितानि च-नेत्रविकारलक्षणानि च-तानि तथा, विहसितानि च-अर्द्धहसितादीनि, सकटाक्षाः-सापा-ङ्गदर्शनाः, दृष्टयो-विलोकितानि निःश्वसितानि च-कामक्रीडायाः समुद्भवानि मलितानि च-पुरुषाभिलषणीययोषिदङ्गम-र्दनानि च पाठान्तरेण-मणितानि च-रतच्छुजितानि उपललितानि च-क्रीडितविशेषरूपाणि, पाठान्तरेण-ललितानि-ईप्सितानि क्रीडितानि वा स्थितानि च-स्वभवनेषु उत्सङ्गासनादिषु वा अवस्थानानि गमनानि च-हंसगत्या चङ्कमणानि प्रण-

यखेदितानि च-प्रणयरोषणानि प्रसादितानि च-कोपप्रसादानानीति द्वन्द्वस्तानि च स्मरन्-चिन्तयन् रागमोहितमतिः अवश  
 आत्मन इति गम्यते, कर्ममवशं-कर्मणः पारतन्त्र्यं गतो यः स तथा, पाठान्तरे-कर्मवशात् वेगेन मोहस्य नडितो-विडम्बितो  
 यः स कर्मवशवेगनडितः, 'अवइकखइ'चि-अवेक्षते-निरीक्षते स्म मार्गतः-पृष्ठतोऽवलोकयति तामागच्छन्तीमित्यर्थः,  
 'सचिलियं'ति-सव्रीडं, सलज्जामित्यर्थः । 'मञ्जुगलत्थच्छणोच्छियमइं'ति-मृत्युना-यमराक्षसेन 'गलत्थच्छा' हस्तेन गल-  
 ग्रहणरूपा तथा नोदिता-स्वदेशगमनवैमृद्ध्येन यमपुरीगमनाभिमुखीकृता मतिर्यस्य स तथा, तं अवेकखमाणं तथैव यक्षस्तु  
 शैलको ज्ञात्वा शनैः२ 'उन्निवहइ'चि-उद्विजहाति-ऊर्द्धं शिपति, 'तद्देव सणियं'-इत्येतत् पदद्वयं वाचनान्तरे-नोपलभ्यते  
 निजकपृष्ठात् शरीरावयवविशेषात्, विगयसत्थं'ति-विगतस्वास्थ्यं पाठान्तरे-विगतश्रद्धो यक्षः शैलक इति, 'ओचयंतं'ति-  
 अवपतन्तं, 'सरसबहियस्स'चि-सरसं-अभिमानसोपेतं वधितो-हतो यः स तथा तस्य, अंगमंगाइं'ति-शरीरावय-  
 वान्, 'उक्खित्तबलिं'ति-उत्थिप्तः-ऊर्द्धं आकाशे शिप्तो न भूमिपट्टादिषु निवेशितो यो बलिः-देवतानामुपहारः स तथा  
 ते चतुर्हिंशं करोति, सा देवता 'पंजलि'चि-प्रकृताञ्जलिः प्रकृष्टतोषवती, 'एवमेवे'त्यादि, निगमनं; 'आसाय'चि-प्राप्ता-  
 नाश्रयति भजते-अप्राप्तान् प्रार्थयते, ऋद्धिमन्तं याचते, स्पृहयति-अप्रार्थित एव यद्ययं श्रीमान् भोगान् मे ददाति तदा साधु  
 भवति इत्येवंरूपां स्पृहां करोति, अभिलषति-दृष्टादृष्टेषु शब्दादिषु भोगेच्छां करोतीत्यर्थः; अत्रार्थे-'छलिउं' गाहा-छलितो-  
 व्यंसितोऽनर्थं प्राप्तः 'अवकाह्वन्'-पश्चाद्भागमवलोकयन् जिनरक्षित इति प्रस्तुतमेव 'निरवयक्खो'-निरवकाङ्क्षः पश्चाद्भा-  
 गमनवेक्षणस्तन्निःस्पृह इत्यर्थो गतः-स्वस्थानं प्राप्तोऽविघ्नेन-अन्तरायामावेन जिनपालित इति वक्ष्यमाणं; एष दृष्टान्ता-



बुवादो, दाष्टान्तिकस्त्वेवं-यस्मादेवं तस्मात् 'प्रवचनसारे'-चारित्रे लब्धे सतीति गम्यते, 'निरवकाङ्क्षेण'-परित्यक्तभोगान् प्रति निरपेक्षेण-अनभिलाषवता भवितव्यमिति, 'भोगे' गाहा चारित्रं प्रतिपद्यापि योगानवकाङ्क्षन्तः पतन्ति संसारसागरे घोरं जिनरक्षितवत्, इतरे तु तरन्ति जिनपालितवत् समुद्रमिति ॥ २ ॥ शेषं सूत्रसिद्धं ॥ इह विशेषोपनयमेवं वर्णयन्ति व्याख्यातारः-“जह रयणदीवदेवी तह एत्थं अविरई महापावा । जह लाहत्थी वणिथा तह सुहकामा इहं जीवा ॥ १ ॥ जह तेहिं भीएहिं दिट्ठो आघायमंडले पुरिसो । संसारदुक्खभीया पासंति तहेव धम्मकंहं ॥ २ ॥ जह तेण तेसि कहिया देवी दुक्खाण कारणं घोरं । तत्तो खिय नित्थारो सेलगजक्खाओ नन्नत्तो ॥ ३ ॥ तह धम्मकह्दी भव्वाण साहए दिट्ठअविरइसहावो । सयलदुहेहउभूओ विसया विरयंति जीवाणं ॥ ४ ॥ सत्ताणं दुहत्ताणं सरणं चरणं जिणिंदपन्नं । आणंदरूवनिव्वाणसाहणं तहय देसेइ ॥ ५ ॥ जह तेसिं तरियव्वो रुहसमुद्धो तहेव संसारो । जह तेसि सणिहगमणं निव्वाणगमो तहा एत्थं ॥ ६ ॥ जह सेलगगिड्ढाओ भट्ठो देवीइ मोहियमईओ । सावयसहस्सपउरंमि सायरे पाविओ निहणं ॥ ७ ॥ तह अविरइइ नडिओ

सा० १ यथा रत्नदीपदेवी तथात्राविरतिमहापापा । यथा लामार्थिनो वणिजौ तथा सुखकामा इह जीवाः ॥ १ ॥ यथा ताम्ब्यां भीताभ्यां दृष्ट आघातमण्डले पुरुषः । संसारदुःखभीताः पश्यन्ति तथैव धर्मकथकं ॥ २ ॥ यथा तेन ताम्ब्यां कथिता दुःखानां घोरं कारणं देवी । तत एव शैलकव्य-क्यात् निस्तारो नान्यस्मात् ॥ ३ ॥ तथा धर्मकथको भव्येभ्यः कथयेत् दृष्टमविरतिस्वभावम् । सकलदुःखहेतुभूतं विषयेभ्यो विरमयन्ति जीवान् ॥ ४ ॥ सत्त्वानां दुःखार्तानां शरणं चरणं जिनेन्द्रप्रज्ञतं । आनन्दरूपनिवर्णसाधनं तथैव दर्शयति ॥ ५ ॥ यथा ताम्ब्यां तरणीयो रुद्रः समुद्रस्तथैव संसारः । यथा तयोः स्वपृष्ठगमनं निर्वाणगमनं तथाऽत्र ॥ ६ ॥ यथा शैलकपृष्ठात् अष्टो देवीमोहितमत्तिकः । श्वापदसहस्रप्रसुरे सागरे प्राप्तो निधनम् ॥ ७ ॥

चेरणचुओ दुक्खसावयाइणो । निवडइ अपारसंसारसायरे दारुणसरूवे ॥ ८ ॥ जह देवीए अक्खाहो पचो सट्ठाण जीविय-  
सुहाइं । तह चरणट्ठिओ साहू अक्खोहो जाइ निव्वाणं ॥ ९ ॥ समाप्तमिंदं नवमज्ञाताध्ययनविवरणम् ॥

## ॥ १०-श्रीचन्द्रारख्यं ज्ञाताध्ययनम् ॥

अथ दशमं विव्रियते, अस्य चायं पूर्वेण सह सम्बन्धः-अनन्तराध्ययनेऽविरतिवश्वर्यवशवर्त्तिनोरनर्थतरावुक्तौ, इह तु  
गुणहानिवृद्धिलक्षणावनर्थाथी प्रमाद्यप्रमादिनोरभिधीयते इत्येवं सम्बद्धमिदम्—

जति णं भंते !, समणेणं० णवमस्स णायज्झयणस्स अयमट्ठे पणत्ते, दसमस्स के अट्ठे० ?; एवं खलु  
जंबू !, तेणं कालेणं २, रायगिहे नगरे सामी समोसहे, गोयमसामी एवं बदामी-कहणं भंते !, जीवा वड्ढति  
वा हायन्ति वा !, गो० !, से जहा नामए बहुलपक्खस्स पाडिवायांचेदं पुणिमाचंदं पणिहाय हीणो; वणणेणं  
हीणे, सोम्मयाए हीणे, निद्धयाए हीणे, कंतीए; एवं दित्तीए, जुत्तीए, छायाए, पभाए, ओयाए, खेस्साए,  
मंडलेणं; तयाणंतरं च णं बीयांचेदं पाडिवायं चंदं पणिहाय हीणतराए वणणेणं जाव मंडलेणं, तयाणंतरं च

सा० १ तथाऽविरत्या नदितश्चरणच्युतो दुःखश्चापदाकीर्णो । निपतत्यपारसंसारसागरे दारुणस्वरूपे ॥ ८ ॥ यथा देव्याऽश्लोभः प्रासः स्वस्थानं  
जोवितसुखानि च । तथा चरणस्थितः साधुरश्लोभो याति निर्वाणम् ॥ ९ ॥



णं तत्तिभाचंदं चित्तियाचंदं पणिहाय हीणतराए वण्णेणं जाव मंडलेणं, एवं खलु ण्णं कमेणं परिहायमाणं  
 २, जाव अमावसमाचंदं चाउदहमिचंदं पणिहाय नट्टे वण्णेणं जाव नट्टे मंडलेणं; एवमेव समणाउसो : जो  
 अमं निगंथो वा, निगंथी वा जाव पडवदए समणे हीणे खंतीए, एवं मुत्तीए, गुत्तीए, अज्जवणं,  
 मरेवेणं, लाघवेणं, संबेणं, नवेणं, चियाए, अक्किचणयाए, बंभचेरवासेणं, तयाणंतरं च णं हीणे हीणतराए,  
 खंतीए जाव हीणतराए बंभचेरवासेणं; एवं खलु ण्णं कमेणं परिहायमाणे २, णट्टे खंतीए जाव णट्टे  
 बंभचेरवासेणं, से जहा वा सुक्कपक्कवस्स पडिवयाचंदे अमावासाए चंदं पणिहाय अहिए वण्णेणं जाव  
 अहिए मंडलेणं, तयाणंतरं च णं विहयाचंदे पडिवयाचंदं पणिहाय अहिययराए वण्णेणं जाव अहियतराए  
 मंडलेणं; एवं खलु एणं कमेणं परिउड्डमाणे २, जाव पुण्णिमाचंदे चाउदहसि चंदं पणिहाय पडिपुण्णं  
 वण्णेणं जाव पडिपुण्णे मंडलेणं; एवमेव समणाउसो !, जाव पडवतिए समाणे अहिए, खंतीए, जाव बंभ-  
 चेरवासेणं, तयाणंतरं च णं अहिययराए खंतीए जाव बंभचेरवासेणं एवं खलु एणं कमेणं परिवट्टमाणे २,  
 जाव पडिपुण्णे बंभचेरवासेणं; एवं खलु जीवा वडुंति वा, हायंति वा एवं खलु जंझ !, समणेणं भगवता महा-  
 बीरेणं दसमस्स णायज्झयणस्स अयमट्टे पणत्ते तिबेमि ॥ सूत्रम्-१६ ॥ दसमं णायज्झयणं समत्तं ॥ १० ॥

सर्वं सुगमम्, नवरं जीवानां द्रव्यतोऽनन्तत्वेन प्रदेशतश्च प्रत्येकमसङ्ख्यातप्रदेशत्वेनावस्थितपरिमाणत्वात् वर्द्धन्ते गुणैः  
 हीयन्ते च तैरेव । अनन्तरनिर्देशत्वेन हानिमेव तावदाह-‘से जहे’त्यादि, ‘पणिहाए’चि-प्रणिघायापेक्ष्य, ‘वणेन’-

शुक्लतालक्षणेन, 'सौम्यतया'-सुखदर्शनीयतया, 'स्निग्धतया'-अरुक्षतया, 'कान्त्या'-कमनीयतया, 'दीप्त्या'-दीपनेन, वस्तुप्रकाशनेनेत्यर्थः; 'जुत्तीय'चि-युक्त्या आकाशसंयोगेन, खण्डेन हि मण्डलेनालपतरमाकाशं युज्यते न पुनर्यावत्सम्पूर्णं, 'छायया'-जलादौ प्रतिबिम्बलक्षणाया शोभया वा, 'प्रभया'-उद्गमनसमये यद् द्युतिस्फुरणं तया, 'ओयाए'चि-ओजसा दाहापनयनादिस्वकार्यकरणशक्त्या, 'लेह्यया'-किरणरूपतया, 'मण्डलेन'-वृत्ततया; श्वान्त्यादिगुणहानिश्च कुशीलसंसर्गात् सद्गुरूणामपर्युपासनात् प्रतिदिनं प्रमादपदासेवनात्, तथाविधचारित्रावरणकर्मोदयाच्च भवतीति; गुणवृद्धिस्वेतद्विपर्ययादिति, एवं च हीयमानानां जीवानां न वाञ्छितस्य निर्वाणसुखस्यावाप्तिरित्येनर्थः; आह च-'चंदोर्ब' कालपक्त्वे परिहर्तुं पए पमायपरो । तह उग्घरविग्घरनिरंगणोवि न य इच्छियं लहइ ॥ १ ॥ "त्ति गुणैर्वद्धमानानां तु वाञ्छिता-र्थावाप्तेरर्थ इति, विशेषयोजना पुनरेवम्-" जहं चंदो तह साहू राहुवरोहो जहा तह पमाओ । वण्णाई गुणगणो जह तहा खमाई समणधम्मो ॥ २ ॥ पुण्णोचि पइदिणं जह हायंतो सबहा ससी नस्से । तह पुण्णचरिचोऽविहु कुसीलसंसगिगमाईहि ॥ ३ ॥ जँणियपमाओ साहू हायंतो पइदिणं खमाईहि । जायइ नहुचरिचो ततो दुक्खाइं पावेइ ॥ ४ ॥ तथा-'हीणगुणो-

त्यर्थः अ । सा० १ चन्द्र इव कृष्णपक्षे परिहीयते पदे पदे प्रमादपरः । तथा उद्ग्रहविष्टनिरञ्जनोऽपि द्रव्यतो नेप्सितं लभते ॥ १ ॥ यथा चन्द्रस्तथा साधुः राहुपरोधो यथा तथा प्रमादः । वर्णादिगुणगणो यथा तथा क्षमादिः श्रमणधर्मः ॥ २ ॥ पूर्णोऽपि प्रतिदिनं यथा हीयमानः सर्वथा नश्यति शशी । तथा पूर्णचारित्रोऽपि कुशीलसंसर्गादिभिः ॥ ३ ॥ जातप्रमादः साधुः प्रतिदिनं हीयमानः क्षमादिभिः । जायते नष्टचारित्रः ततो दुःखानि प्राप्नोति ॥ ४ ॥

विह्वं होतं सुहयुरुजोगाहजणियसंवेगो । पुण्णसरूवो जायइ विवहुमाणो ससहरोव ॥ ५ ॥ समाप्तमिदं दशमश्रीचन्द्राख्यज्ञाता-  
 ध्ययनं विवरणम् ॥ ५ ॥

## ॥ ११-श्रीदावद्रवारुखं ज्ञाताध्ययनम् ॥

अथैकादशमं विवियते-अस्य पूर्वेण सहायं सम्बन्धः-पूर्वत्र च ग्रमाद्यप्रमादिनोर्गुणहानिद्विद्विलक्षणानवनीथीबुक्तौ, इह  
 तु मार्गाराधनविराधनाभ्यां तावुच्येते इतिसम्बद्धमिदम्—

जति णं भंते !, दसमस्स नायज्झणस्स अयमंहे एक्कारसमस्स के अंटे० !, एवं खल्ल जंबू !, तेणं  
 कालेणं २, रायणिहे गोयमे एवं वदासी-कह णं भंते !, जीवा आराहगा वा, विराहगा वा भवंति !;  
 गो० !, से जहा णामए एगंसि समुहकूलंसि दावइवा नामं रुक्खा पणत्ता, किण्हा जाव निउरुंखभूया  
 पत्तिया, पुप्फिया, फलिया, हरियगरेरिज्जमाणा सिरीए अतीव उवसोभेमाणा २, चिहंति; जया णं दीवि-  
 च्छगा ईसिं पुरेवाया, पच्छावाया, महावाया, मंदावाया वायति, तदा णं बहवे दावइवा रुक्खा पत्तिया

सा० १ हीनगुणोऽपि भूत्वा शुभगुणयोगादिजनितसवेगः । पूर्णस्वरूपो जायते विवर्धमानः शशधर इव ॥ ५ ॥

जाव चिद्वृत्ति, अप्येगतिया दावद्वा रुक्खा जुन्ना झोडा परिसडियपंडुपत्तपुष्पफला सुक्करुक्खओ विव  
 मिलायमाणा २, चिद्वृत्ति; एवामेव समणाउसो !, जे अम्हं निगंगथो वा, निगंगथी वा जाव पव्वत्ति  
 समणे बहूणं समणाणं ४, सम्मं सहति जाव अहियासेति; बहूणं अण्णउत्थियाणं, बहूणं गिहत्थाणं नो  
 सम्मं सहति, जाव नो अहियासेति एस णं मए पुरिसे देसविराहए पणत्ते समणाउसो ! । जया णं  
 सामुहगा ईसिं पुरेवाया पच्छावाया, मंदावाया महावाता वायंति, तदा णं बह्वे दावद्वा रुक्खा जुण्णा  
 झोडा जाव मिलायमाणा २, चिद्वृत्ति, अप्येगहया दावद्वा रुक्खा पत्तिया पुष्पिया जाव उवसोभेमाणा २,  
 चिद्वृत्ति; एवामेव समणाउसो !, जो अम्हं निगंगथो वा, निगंगथी वा पव्वत्तिए समणे बहूणं अण्णउत्थि-  
 याणं बहूणं गिहत्थाणं सम्मं सहति, बहूणं समणाणं ४, नो सम्मं सहति; एस णं मए पुरिसे देसाराहए  
 पत्तत्ते समणाउसो ! । जया णं नो दीविच्चगा णो सामुहगा ईसिं पुरेवाया पच्छावाया जाव महावाया तते  
 णं सब्वे दावद्वा रुक्खा जुण्णा झोडा० एवामेव समणाउसो ! जाव पव्वत्तिए समणे बहूणं समणाणं २  
 बहूणं अन्नउत्थियगिहत्थाणं नो सम्मं सहति, एस णं मए पुरिसे सब्वविराहए पणत्ते समणाउसो !,  
 जया णं दीविच्चगावि सामुहगावि ईसिं पुरेवाया पच्छावाया जाव वायंति तदा णं सब्वे दावद्वा रुक्खा  
 पत्तिया जाव चिद्वृत्ति; एवामेव समणाउसो !, जे अम्हं पव्वत्तिए समणे बहूणं समणाणं बहूणं अन्नउत्थि-  
 यगिहत्थाणं सम्मं सहति, एस णं मए पुरिसे सब्वाराहए पं० !, एवं खलु गो० !, जीवा आराहगा

वा चिराहगा वा भवंति; एवं खलु जंबू !, समणेणं भगवया एकारसमस्स अयमट्ठे पणत्ते त्तिवेमि ॥ सूत्रम्-१७ ॥ एकारसमं नायज्झयणं समत्तं ॥

सर्वं सुगमं, नवरं आराधका ज्ञानादिमोक्षमार्गस्य विराधका अपि तस्यैव 'जया ण'मित्यादि; 'द्वीविचगा'-द्वैप्या द्वीपसम्भवा ईषत् पुरोवाताः-मनाक्-सखेहवाता इत्यर्थः; पूर्वदिक्सम्बन्धिनो वा, पथ्या वाता-वनस्पतीनां सामान्येन हिता वायवः पश्चाद्वाता वा मन्दाः-शैतः सञ्चारिणः महावाताः-उहंडवाता वान्ति, तदा 'अप्येगह्य'त्ति-अप्येके केचनपि स्तोका इत्यर्थः; 'जुण्ण'त्ति-जीर्णा इव जीर्णाः, श्लोडः-पत्रादिशाटनं, तद्योगाच्चेऽपि श्लोडाः; अत एव परिश्रितानि कानि-विच पाण्डूनि पत्राणि पुष्पफलानि च येषां ते तथा शुक्लवृक्षक इव म्लायन्तस्तिष्ठन्ति इत्येष दृष्टान्तो, योजना त्वस्यैवं 'एवामेवे'त्यादि, 'अण्णउत्थियाणं'त्ति-अन्ययूथिकानां-तीर्थान्तरियाणां, कापिलादीनामित्यर्थः; दुर्वचनादीनुपसर्गात् नो सम्यक् सहते इति, 'एस णं'त्ति-य एवंभूतः एष पुरुषो देशविराधको ज्ञानादिमोक्षमार्गस्य, इयमत्र विकल्पचतुष्टयेऽपि भावना-यथा दावद्रव्यवृक्षसमूहः स्वभावतो द्वीपवायुभिः बहुतरदैशैः स्वसम्पदः समृद्धिमनुभवति देशेन चासमृद्धिः १, समृद्धवायुभिश्च देशैरसमृद्धि देशेन च समृद्धिम् २, उभयेषां च वायूनामभावे समृद्ध्यभावम् ३, उभयसद्भावे च सर्वतः समृद्धिम् ४; एवं क्रमेण साधुः कुतीर्थिकगृहस्थानां दुर्वचनादीन्यसहमानः क्षान्तिप्रधानस्य ज्ञानादिमोक्षमार्गस्य देशतो विराधनां करोति, श्रमणादीनां बहुमानविषयाणां दुर्वचनादिक्षमणेन बहुतरदेशानामाराधनात् १, श्रमणादिदुर्वचनानां त्वसहने कुती-

१ ° वा महावरेण थ । २ शनैः२३० थ ।

थिंकादीनां सहने देशानां विराधनेन देशत एवाराधनां करोति २, उभयेषामसहमानो विराधनायां सर्वथा तस्य वर्त्तते ३, सहमानश्च सर्वथाऽऽराधनायामिति ४, इह पुनर्विशेषयोजनामेयं वर्णयन्ति—“ जहं दावद्वतरुव्रणमेवं साहू जहेव दीविच्चा । वाया तह समणाइयसपक्खवयणाइं दुसहाइं ॥ १ ॥ जह साहूइयवाया तहऽण्णतित्थाइकड्डयवयणाइं । कुसुमाहसंपया जह सिवमगाराहणा तह उ ॥ २ ॥ जह कुसुमाइविणासो सिवमगगविराहणा तहा नेया । जह दीववाउजोगे बहु इड्डी ईसि य अणिड्डी ॥ ३ ॥ तह साहम्मियवयणाण सहमाणाराहणा भवे बहुया । इयराणमसहणे पुण सिवमगगविराहणा थोवा ॥ ४ ॥ जह जलहि वाउजोगे थोविड्डी बहुयरा यऽणिड्डी य । तह परपक्खक्खमणे आराहणमीसि बहुययरं ॥ ५ ॥ जह उभयवाउ-विरहे सवा तरुसंपया विणट्ठत्ति । अनिमिचोभयमच्छरूवे विराहणा तह य ॥ ६ ॥ जहं उभयवाउजोगे सबसमिड्डी वणस्स संजाया । तह उभयवयणसहणे सिवमगगाराहणा बुचा ॥ ७ ॥ ता पुन्नसमणघम्ममाराहणचिचो सया महासत्तो । सवेणनि कीरंतं सहेज्ज संबंपि पडिक्कलं ॥ ८ ॥ ” इति ॥ एकादशज्ञानतविवरणं समाप्तं ॥ ११ ॥

सा० १ यथा दावद्वतरुवनमेवं साधवः यथैव द्वीपगाः । वातास्तथा श्रमणादिकसपक्षवचनानि दुःसहानि ॥ १ ॥ यथा समुद्रवातास्तथाऽन्यतोधि-कादिकटुक्खवचनानि । कुसुमादिसंपत् यथा शिवमार्गाराधना तथेव ॥ २ ॥ यथा कुसुमादिविनाद्यः शिवमार्गविराधना तथा ज्ञेया । यथा द्वीपवायुयोगे बहुः ऋद्धिरीषच्चादृद्धिः ॥ ३ ॥ तथा साधार्भिकवचनानां सहमानानामाराधना भवेद्वहुका । इतरेषामसहने पुनः शिवमार्गविराधना स्तोका ॥ ४ ॥ यथा जलविवायु-योगे स्तोकाद्विर्बहुतकराऽनाद्विंश्च । तथा परपक्षमणे आराधनेषत् बहुकरा ( विराधना ) ॥ ५ ॥ यथोभयवायुविरहे सर्वा तरुसंपत् विनष्टेति । अनिमित्तो-भयमस्तरूनेह विराधना तथा च ॥ ६ ॥ यथोभयवायुयोगे सर्वा समृद्धिर्वनस्य नजाता । तथोभयवचनसहने शिवमार्गाराधनोका ॥ ७ ॥ तत् पूर्णश्रमण-धर्मारावनाचित्तः सदा महासत्त्वः । सर्वेणापि क्रियमाण सहेत सर्वमपि प्रतिकूलं ॥ ८ ॥

## ॥ १२-श्रीउदकाख्यं ज्ञाताध्ययनम् ॥

अधुना द्वादशं विव्रियते, अस्य चैवं सम्बन्धः-अनन्तरज्ञाते चारित्र्यधर्मस्य विराधकत्वमाराधकत्वं चोक्तिमिह तु चारित्र्याराधकत्वं प्रकृतिमलीमसनामापि भव्यानां सद्गुरुपरिकर्मणातो भवतीत्युदकोदाहरणेनाभिधीयते, इत्येवं सम्बद्धमिदम्-  
जति णं भंते !, समणेणं जाव संपत्तेणं एक्कारसमस्स नायज्झयणस्स, अयम० बारसमस्स णं नायज्झयणस्स के अट्ठे पं० ?; एवं खलु जंबू !, तेणं कालेणं २, चंपा नाम नयरी, पुण्णभेद्दे, जितसत्तू राया, धारिणी देवी, अदीणसत्तू नामं कुमारे जुवराया यावि होत्था, सुबुद्धी अमच्चे जाव रज्जधुराचित्तए समणो-  
वासए; तीसे णं चंपाए णयरीए, बहिया उत्तरपुरच्छिमेणं एगे परिहोदए यावि होत्था, मेयवसामंसरुहिर-  
पूयपडलपोच्चडे, मयगकलेवरसंछण्णे, अमणुण्णे वण्णेणं जाव फासेणं; से जहा नामए अहिमडेति वा,  
गोमडेति वा जाव मयक्कुहियविण्णट्ठकिमिणवावण्णदुरभिगंधे किमिजालाउले संसत्ते असुहविगयबी भत्थ-  
दरिसणिज्जे, भवेयारूवे सिया ?; णो इण्ठे समट्ठे, एत्तो अणिट्ठतराए चैव जाव गंधेणं पणत्ते ॥सूत्रम्-१८॥  
तते णं से जितसत्तू राया, अण्णदा कदाइ णहाए कयधलिकम्ममे जाव अप्पमहग्घाभरणालंक्रियसरीरे बह्णिं  
राईसर जाव सत्थवाहपभित्तिहिं सद्धिं भोगणवेलाए सुहासणवरगए विपुलं असणं ४ जाव विहरति,

जिम्मितसुत्ताराय जाव सुहभूते तंसि विपुलसि असण ४, जाव जायविम्हए, ते बहवे ईसर जाव  
पभितीए एवं वयासी-अहो णं देवा० !, इमे मणुणे असण ४, वणणेणं उववेए जाव फासेणं उववेते  
अस्सायणिज्जे, विस्सायणिज्जे, पीणणिज्जे, दीवणिज्जे, दप्पणिज्जे, मयणिज्जे, विंहणिज्जे, सच्चिवदियगाय-  
पल्हायणिज्जे; तते णं ते बहवे ईसर जाव पभियओ जितसत्तुं एवं व०-तद्देव णं सामी !, जणं तुम्भे  
वदह ! अहो णं इमे मणुणे असणं ४, वणणेणं उववेए जाव पल्हायणिज्जे; तते णं जितसत्तुं सुबुद्धिं अमच्चं  
एवं व०-अहो णं सुबुद्धी !, इमे मणुणे असणं ४, जाव पल्हायणिज्जे; तए णं सुबुद्धी जितसत्तुस्सेयमट्टं  
नो आढाइ जाव तुसिणीए सच्चिट्ठति, तते णं जितसत्तुणा सुबुद्धी दोच्चंपि एवं बुत्ते समाणे जितसत्तुं  
रायं एवं वदासी-नो खलु सामी !, अहं एयंसि मणुणंसि असण ४ केइ विम्हए, एवं खलु सामी !,  
सुब्भिसद्दावि पुग्गला दुब्भिसद्दाए परिणमंति, दुब्भिसद्दावि पोग्गला सुब्भिसद्दाए परिणमंति; सुर-  
वावि पोग्गला दुरूवत्ताए परिणमंति, दुरूवावि पोग्गला सुरूवत्ताए परिणमंति; सुब्भिभंगंघावि पोग्गला  
दुब्भिभंगंघत्ताए परिणमंति, दुब्भिभंगंघावि पोग्गला सुब्भिभंगंघत्ताए परिणमंति; सुरसावि पोग्गला दुर-  
सत्ताए परिणमंति, दुरसावि पोग्गला सुरसत्ताए परिणमंति; सुहफासावि पोग्गला दुहफासत्ताए परिण-  
मंति, दुहफासावि पोग्गला सुहफासत्ताए परिणमंति; पओगवीससापरिणयावि य णं सामी !, पोग्गला  
पणत्ता; तते णं से जितसत्तुं सुबुद्धिस्स अमच्चस्स एवमातिक्खमाणस्स ४, एयमट्टं नो आढाति, नो





परियाणई, तुसिणीए, संचिदइ; तए णं से जितसत्तू अण्णदा कदाई णहाइ आसबंधवगतं महया भड-  
 चडगरहआसवाहणियाए निज्जायमाणे तस्स फरिहोदगस्स अदूरसामंतेणं वीतीवयह । तते णं जितसत्तू  
 तस्स फरिहोदगस्स असुभेणं गंधेणं अभिभूते समाणे सएणं उत्तरिज्जेणेणं आसगं पिहेह, एणंतं अवक्कमत्ति,  
 ते बहवे ईसर जाव पभित्तिओ एवं वदासी-अहो णं देवाणुप्पिया इमे फरिहोदए ! अमणुणे वण्णेणं ४,  
 से जहा नामए अहिमडेति वा जाव अमणामतराए चेव; तए णं ते बहवे राईसरपभिइ जाव एवं व०-  
 तेहेव णं तं सामी !, जं णं तुब्भे एवं वयह, अहो णं इमे फरिहोदए अमणुणे वण्णेणं ४, से जहा णामए  
 अहिमडे इ वा जाव अमणामतराए चेव, तए णं से जियसत्तू सुबुद्धिं अमच्चं एवं वदासी-अहो णं सुबुद्धी !  
 इमे फरिहोदए अमणुणे वण्णेणं, से जहा नामए अहिमडेइ वा जाव अमणामतराए चेव, तए णं सुबुद्धी  
 अमच्चं जाव तुसिणीए, संचिदइ; तए णं से जियसत्तू राया सुबुद्धिं अमच्चं दोच्चंपि तच्चंपि एवं व०-अहो णं  
 तं चेव, तए णं से सुबुद्धी अमच्चं जियसत्तुणा रत्ता दोच्चंपि एवं वुत्ते समाणे एवं व०-नो खलु  
 सामी !, अम्महं एयंसि फरिहोदगंसि केइ विम्महए, एवं खलु सामी ! सुब्भिसद्दवि पोग्गला दुब्भिसद्द-  
 त्ताए परिणमंति, तं चेव जाव पओगवीससापरिणयावि य णं सामी !, पोग्गला पणत्ता, तते णं जित-  
 सत्तु सुबुद्धिं एवं चेव, मा णं तुमं देवाणु० !, अप्पणं च परं च तदुभयं वा बहूहि य असंभावुंभावणाहिं

मिच्छताभिनिवेशेण य बुग्गाहेमाणे बुप्पाएमाणे विहराहि, तते णं सुबुद्धिस्स इमेयारूवे अब्भत्थिए ५,  
 समुपज्जित्था-अहो णं जितसचू संते तच्चे तद्दिए अचित्तेहए संबूते जिणपणत्ते भावे णो उवलभति,  
 तं सेयं खल्ल मम जितसत्तुस्स रणो संताणं तच्चाणं तद्दियाणं अचित्ताणं सबूताणं जिणपणत्ताणं  
 भावाणं अभिगमणट्ठयाए एयमट्ठं उवाइणावेत्तए, एवं संपेहेति २, पच्चतिएहिं पुरिसेहिं सद्धि अंतरा-  
 वणाओ नवए घडयपडए पगेण्हति २, संझाकालसमयंसि पविरलमणुस्संसि णिसंतपडिनिसंतंसि जेणेव  
 फरिहोदए तेणेव उवागए २, तं फरिहोदगं गेण्हावेति २, नवएसु घडएसु गालावेति २, नवएसु घडएसु  
 पक्खिवावेति २, लंछियमुद्धिते करावेति २, सत्तरत्तं परिवसावेति २, दोब्बंवि नवएसु घडएसु गालावेति,  
 नवएसु घडएसु पक्खिवावेति २, सज्जक्खारं पक्खिवावेइं\* लंछियमुद्धिते कारवेति २, सत्तरत्तं परिवसा-  
 वेति २, तच्चंपि णवएसु घडएसु जाव संबसावेति, एवं खल्ल एणं उवाएणं अंतरा गलावेमाणे अंतरा  
 पक्खिवावेमाणे अंतराय विपरिवसावेमाणे २, सत्त २, रात्तिदिया विपरिवसावेति; तते णं से फरिहोदए  
 सत्तमसत्तयंसि परिणममाणंसि उदगरयणे जाए यावि होत्था, अच्छे, पत्थे, जच्चे, तणुए फलिह-  
 वणांभे वण्णेणं उववेते ४, आसायणिज्जे जाव सच्चिदियगायपल्हायणिज्जे; तते णं सुबुद्धी अमच्चे  
 जेणेव से उदगरयणे तेणेव उवा० २, करयलंसि\* आसादेति २, तं उदगरयणं वण्णेणं उववेयं ४, आसा-

यणिञ्जे जाव सन्विवियगायपल्हायणिहञ्जे जाणित्ता, हट्टुट्टे बहूहि उदगसंभारणिञ्जेहि संभारेति २, जितसत्तुस्स रण्णो पाणियघरियं सद्दवेति ३; एवं व०-तुमं च णं देवाणुप्पिया ! इमं उदगरयणं गेणहाहि जितसत्तुस्स रत्तो भोयणवेलाए उवणेञ्जासि; तते णं से पाणियघरिए सुबुद्धियस्स एतमट्ठं पडिसुणोति ३, तं उदगरयणं गिण्हति २, जितसत्तुस्स रण्णो भोयणवेलाए उवट्टवेति; तते णं से जितसत्तु राया तं विपुलं असण ४, आसाएमाणे जाव विहरइ; जिमियत्तुत्तराययावि य णं जाव परमसुहभूए तंसि उदगरयणे जायविम्हए, ते बहवे राईसर जाव एवं व०-अहो णं देवाणु० !, इमं उदगरयणे अच्छे जाव सन्विवियगायपल्हायणिञ्जे, तते णं बहवे राईसर जाव एवं व०-तहेव णं सामी !, जणं तुभे वदह जाव एवं चेव पल्हायणिञ्जे, तते णं जितसत्तु राया पाणियघरियं सद्दवेति २, एवं व०-एस णं तुभे देवा० ! उदगरयणे कओ आसादित्ते ?, तते णं से पाणियघरिए जितसत्तु एवं वदासी-एस णं सामी ! मए उदगरयणे सुबुद्धिस्स अंतियाओ आसादित्ते, तते णं जितसत्तु सुबुद्धि अमच्चं सद्दवेति २, एवं व०-अहो णं सुबुद्धी केणं कारणेणं अहं तव अणिट्ठे ५, जेणं तुमं मम कल्लाकळ्ळि भोयणवेलाए इमं उदगरयणं न उवट्टवेसि ?, तए णं तुमे देवा० ! उदगरयणे कओ उवलद्धे ?, तते णं सुबुद्धी जितसत्तु एवं व०-एस णं सामी !, से फरिहोदए, तते णं से जितसत्तु सुबुद्धि एवं व०-केणं कारणेणं सुबुद्धी !, एस से फरिहोदए ?, तते णं सुबुद्धी जितसत्तु

एवं व०-एवं खलु सामी !, तुम्हे तथा मम एवमातिक्रममाणस्स ४, एतमहं नो सदहह, तते णं मम इमे-  
 यारूवे अ०भत्थिते ६, अहो णं जितसत्तू संते जाव भावे नो सदहति, नो पत्तियत्ति, नो रोएत्ति, तं सेयं खलु  
 ममं जियसत्तुस्स रत्तो संताणं जाव स०भूत्ताणं जिणपन्नत्ताणं भावाणं अभिगमणट्टयाए एतमहं उवाइणा-  
 वेत्तए, एवं संपेहेमि २, तं चेव जाव पाणियघरियं सदावेमि २, एवं वदामि-तुमं णं देवाणु० !, उदगरतणं  
 जितसत्तुस्स रत्तो भोग्यवेलाए उवणेहि, तं एणं कारणेणं सामी !, एस से फरिहोदए । तते णं जितसत्तू  
 राया सुबुद्धिस्स अमच्चस्स एवमातिक्रममाणस्स ४, एतमहं नो सदहति ३, असदहमाणे ३, अ०भत-  
 रट्ठाणिज्जे पुरिसे सदावेति २, एवं वदासी-गच्छह णं तु०भे देवाणुत्पिया !, अंतरावणाओ नवघडए पडए  
 य गेणहह जाव उदगसंहारणिज्जेहिं द०वेहिं संभोरह, तेऽवि तहेव संभारंति २, जितसत्तुस्स उवणंति; तते  
 णं जितसत्तू राया तं उदगरयणं करयलंसि आसाएत्ति, आसातणिज्जं जाव स०विविदियगायपल्हायणिज्जं  
 जाणित्ता सुबुद्धिं अमच्चं सदावेति २, एवं व०-सुबुद्धी !, एए णं तुमे संता तच्चा जाव स०भूया भावा कतो  
 उवलद्धा !, तते णं सुबुद्धी जितसत्तुं एवं वदासी-एए णं सामी ! मए संता जाव भावा जिणवयणातो  
 उवलद्धा, तते णं जितसत्तू सुबुद्धिं एवं व०-तं इच्छामि णं देवाणु० !, तव अंतिए जिणवयणं निसामेत्तए,  
 तते णं सुबुद्धी जितसत्तूस्स विचितं केवलपन्नत्तं चाउज्जासं धम्मं परिकहेह, तमाहक्खति जहा जीवा  
 बज्झंति जाव पंच अणुव्वयानि, तते णं जितसत्तू सुबुद्धिस्स अंतिए धम्मं सोच्चा णिसम्म हह० सुबुद्धिं

अमचं एवं व०-सदहामि णं देवाणुप्पिया !, निगगंथं पावयणं ३, जाव से जहेयं तुभे वयह; तं इच्छामि  
णं तव अंतिए पंचाणुव्वहयं सत्तसिक्खावहयं जाव उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तए, अहासुहं देवा० ! मा  
पडिबंधं, तए णं से जियसत्तु सुबुद्धिस्स अमच्चस्स अंतिए पंचाणुव्वहयं जाव दुवालसविहं सावयधम्मं  
पडिबज्जह, तते णं जितसत्तु समणोवासए अभिगयजीवाजीवे जाव पडिलाभेमाणे विहरति । तेणं कालेणं  
२, थेरागमणं, जियसत्तु राया सुबुद्धी य निगगच्छति; सुबुद्धी धम्मं सोच्चा जं णवरं जियसत्तुं आपुच्छामि  
जाव पव्वयामि, अहासुहं देवा० !, तते णं सुबुद्धी जेणेव जितसत्तु तेणेव उवा० २ एवं व०-एवं खल्ल  
सामी !, मए थेराणं अंतिए धम्मे निसन्ते सेऽविय धम्मे इच्छियपडिच्छिए ३; तए णं अहं सामी !,  
संसारभउव्विग्गे भीए जाव इच्छामि णं तुभेहिं अब्भणुन्नाए स० जाव पव्वहत्तए, तते णं जितसत्तु  
सुबुद्धिं एवं व०-अच्छासु ताव देवाणु० ! कतिवयतिं वासाइं उरालतिं जाव खुंजमाणा ततो पच्छा  
एगयओ थेराणं अंतिए सुंढे भवित्ता जाव पव्वहस्सामो, तते णं सुबुद्धी जितसत्तूस्स एयमट्ठं पडिसुणेति,  
तते णं तस्स जितसत्तुस्स सुबुद्धीणा सद्धिं विपुलाइं माणुस्स० पच्चणुभवमाणस्स दुवालस वासाइं वीत्तिकं-  
ताइं तेणं कालेणं २, थेरागमणं, तते णं जितसत्तु धम्मं सोच्चा एवं जं नवरं देवा० !, सुबुद्धिं आमंतेमि  
जेट्ठपुत्तं रल्ले ठवेमि; तए णं तुभं जाव पव्वयामि, अहासुहं, तते णं जितसत्तु जेणेव सए गिहे तेणेव  
उवा० २, सुबुद्धिं सदावेति २, एवं वयासी-एवं खल्ल मए थेराणं जाव पव्वज्जामि, तुमं णं किं करेसि ?,

तते णं सुबुद्धी जितसत्तुं एवं व०-जाव के० अन्ने आहारे वा जाव पव्वयामि, तं जति णं देवा० जाव पव्वयह गच्छह णं देवाणु० ! जेट्टपुत्तं च कुडुंबे ठावेहि २, सीयं दुरुहत्ताणं ममं अंतिए सीया जाव पाउ० भवेति; तते णं सुबुद्धीए सीया जाव पाउ० भवइ, तते णं जितसत्तू कोडुंबियपुरिसे सहावेति २, एवं व०-गच्छह णं तु० भे देवा० !, अदीणसत्तुस्स कुमारस्स रायाभिसंयं उवट्टवेह जाव अभिसिंचति जाव पव्वतिए । तते णं जितसत्तू एक्कारस अंगाइं अहिज्जति, बहूणि वासाणि परियाओ मासियाए सिद्धे; तते णं सुबुद्धी एक्कारस अंगाइं अ० बहूणि वासाणि जाव सिद्धे । एवं खलु जंबू !, समणेणं भगवया महाधीरेणं बारसमस्स अयमेट्टे पणत्ते त्तिबेमि ॥ सूत्रम्—९९ ॥ बारसमं नाअज्झयणं समत्तं ॥

सर्वं सुगमं नवरं, 'फरिहोदए'चि-परिखायाः-खातवलयस्योदकं परिखोदकं, चापीति समुच्चये, ततश्चपादिकोऽर्थोऽभूद् एवं परिखोदकं चाभूदित्येवं, चः समुच्चये इति, 'मेये'त्यादि, अत्र मेदःप्रभृतीनां पटलेन-समूहेन, 'पोच्चंडं'—विलीनं मृतकानां यथा वा द्विपदादीनां कडेवरैः संछन्नं यत्तथा, अद्यादिकडेवरविशेषणयाह-मृतं-जीवविमुक्तमात्रं सद्यत् कुथितं-ईषत्तदुर्गन्धमित्यर्थः, तथा विनष्टं-उच्छूनत्वादिविकारवत्; 'किमिणं'ति-कतिपयकृमिवत् व्यापकं च-शकुन्यादिभक्षणाद्धी-भत्सतां गतं सद्यदुरभिगन्धं-तीव्रतरदुष्टगन्धं तत्तथा, 'सुन्निमसहावि'चि-सुमशब्दा अपि, 'दुन्निमसहत्ताए'चि-दुष्टशब्दतया, 'पओगवीससापरिणय'चि-प्रयोगेण-जीवव्यापारेण, विश्रसया च-स्वभावेन परिणताः-अवस्थान्तरमापन्ना ये ते तथा, 'आसखंधवरगए'चि अथ एव स्कन्धः-पुद्गलप्रचयरूपो वरः-प्रधानोऽथस्कन्धवरोऽथवा स्कन्धप्रदेशप्रत्यासत्तेः पृष्ठमपि

स्कन्ध इति व्यपदिष्टमिति, 'असंब्भावुभावरणाहिं'ति-असतां भावानां-वस्तूनां वस्तुधर्ममार्णां वा या उद्भावना-उत्क्षेप-  
णानि तास्तथा ताभिमिथ्यात्वाभिनिवेशेन च-विपर्यासाभिमानेन व्युद्ग्राहयन्-विविधत्वेनाधिक्येन च ग्राहयन् व्युत्पादयन्-  
अव्युत्पन्नमतिं व्युत्पन्नं कुर्वन् 'संते' इत्यादि, सतो-विद्यमानान्, 'तच्चे'ति-तत्त्वरूपानैदंपर्यसमन्वितानित्यर्थः; अत एव  
तथ्यान्-सत्यान्, एतदेव व्यतिरेकेणोच्यते-अवितथान् न वितथानित्यर्थः, किमुक्तं भवति ?-सद्भूतान् सता प्रकारेण  
भूतान्-यातान् सद्भूतान् एकार्थां वैते शब्दाः; 'अभिगमणदृयाए'-अवगमलक्षणाय अर्थोपेत्यर्थः, 'एतमट्ट'ति-एवं  
(तं)-पुद्गलानामपरापरपरिणामलक्षणमर्थं 'उवाहणावित्तए'ति-उपादापयितुं ग्राहयितुमित्यर्थः; 'अंतरावणाउ'-  
त्ति-परिखोदकमार्गान्तरालवर्तिनो हृद्वाक् कुम्भकारसम्बन्धिन इत्यर्थः, 'सज्जस्वारं'ति-सद्यो भस्म; 'अच्छे'त्यादि,  
अच्छं-निर्मलं, पथ्यं-आरोग्यकरं जात्यं-प्रधानमिति भावः, तनुकं-लघु सुजरमिति हृदयं, 'उदगसंभारणिज्जेहिं'ति-  
उदकवासकैः-वालकमुस्तादिभिः संभारयति-संभृतं करोति । इहाध्ययने यद्यपि सूत्रेणोपनयो न दर्शितः तथाऽप्येवं  
द्रष्टव्यः--"मिच्छत्तमोहियमणा पावपसत्तावि पाणिणो विगुणा । फरिहोदगं व गुणिणो हवंति वरगुरुपसायाओ ॥ १ ॥"ति  
समाप्तमिदं द्वादशज्ञाताध्ययनविवरणम् ॥



शा०—१ मिथ्यात्वमोहितमनसः पापप्रसक्ता अपि प्राणिनो विगुणाः । परिखोदकमिव गुणिनो भवन्ति वरगुरुप्रसादात् ॥ १ ॥



## ॥ १३-श्री दूर्दुराख्यं ज्ञाताध्ययनम् ॥

अथ त्रयोदशं व्याख्यायते, अस्य च पूर्वेण सहायं सम्बन्धः, -अनन्तराध्ययने संसर्गविशेषाद् गुणोत्कर्ष उक्तः; इह तु संसर्गविशेषाभावाद् गुणापकर्ष उच्यते, इत्येवं सम्बद्धमिदम्—

जति णं भंते !, समरणं० बारसमस्स अयमट्ठे पणत्ते, तेरसमस्स णं भंते !, नाय० के० अट्ठे पन्नत्ते !; एवं खल्ल जंबू !, तेणं कालेणं २, रायगिहे, गुणसिलए चेतिए, समोसरणं, परिसा निग्गया; तेणं कालेणं २, सोहम्ममे कल्पे, द्दुदुरचडिसए विमाणे, सभाए सुहम्माए, द्दुदुरंसि सीहासणंसि, द्दुदुरे देवे, चउहिं सामा-  
णियसाहस्सीहिं, चउहिं अग्गमहिसीहिं सपरिसाहिं, एवं जहा सुरियाभो भाव दिव्वातिं भोगभोगांइं  
सुंजमाणो विहरइ; इमं च णं केवलकल्पं जंबुदीवं २, विपुलेणं ओहिणा आभोएमाणे २, जाव नट्टविहिं  
उवदंसित्ता पडिगते जहा सुरियाभे । भंतेति भगवं गोयमे, समणं भगवं महावीरं वंदइ, नमंसति २;  
एवं व०-अहो णं भंते !, द्दुदुरे देवे महिहिण्ण २, द्दुदुरस्स णं भंते ! देवस्स सा दिव्वा देविड्डी २, कहिं  
गया० ?; गो० ! सरीरं गया सरीरं अणुपविट्ठा कूडागारदिट्ठतो, द्दुदुरेणं भंते ! देवेणं सा दिव्वा देविड्डी २  
किण्णा लद्धा जाव अभिसमन्नागया !, एवं खल्ल गो० ! इहेव जंबुदीवे २, भारहे वासे, रायगिहे, गुण-

सिद्धे चेतिए, सेणिए राया; तत्थ णं रायगिहे णंदे णामं मणियारसेट्ठी, अट्ठे दित्ते; तेणं कालेणं २, अहं  
 गोयसां १, समोसट्ठे, परिसा णिग्गया; सेणिए राया निग्गए, तते णं से नंदे मणियारसेट्ठी इमीसे कहाए  
 लद्धे समणे णहाए पायचारेणं जाव पज्जुवासति, णंदे धम्मं सोच्चा समणोवासए जाते; तते णं अहं  
 रायगिहाओ पडिनिकखन्ते, बहिया जणवयविहारं विहरामि; तते णं से णंदे मणियारसेट्ठी अन्नया कदाइ  
 असाहुदंसणेण, य, अपज्जुवासणाए य, अणणुसासणाए य, असुस्सूसणाए य, सम्मत्तपज्जवेहिं परिहाय-  
 माणेहिं २, मिच्छत्तपज्जवेहिं परिवड्ढुमाणेहिं २, मिच्छत्तं विप्पडिवन्ने जाए यावि होत्था; तते णं नंदे मणि-  
 यारसेट्ठी अन्नता गिम्हकालसमयंसि जेट्ठामूलंसि मासंसि अट्ठमभत्तं परिणेण्हति २, पोसहसालाए जाव  
 विहरति; तते णं णंदस्स अट्ठमभत्तंसि परिणममाणंसि तण्हाए, छुहाए य अभिभूतस्स समाणस्स इमेयारूवे  
 अब्भत्थिते ५-धन्ना णं ते जाव ईसरपभितओ जेसिं णं रायगिहस्स बहिया, बहूओ वावीतो, पोक्खर-  
 णीओ जाव सरसरंपतियाओ, जत्थ णं बहुजणो ण्हति य, पियति य, पाणियं च संवहति; तं संयं खलु  
 ममं कल्लं पाउ० सेणियं आयुच्छित्ता, रायगिहस्स बहिया उत्तरपुरच्छिमे दिसिभाए, वेभारपण्वयस्स अदूर-  
 सामंते, बत्थुपाढगरोहंतंसि भूमिभागंसि जाव णंदं पोक्खरणिं खणावेत्तए त्तिकट्टु, एवं संपेहेति २, कल्लं पा०  
 जाव पोसहं पारेति २, ण्हति कयबलिकम्मे मित्तणाइ जाव संपरिबुडे महत्थ जाव पाहुडं रायारिहं गेण्हति  
 २, जेणेव सेणिए राया तेणेव उवा० २, जाव पाहुडं उवट्ठेवेति २, एवं व०-इच्छामि णं सामी ! तुब्भेहिं अ-

ंभण्णाए समाणे रायगिहस्स बहिया जाव खणावेत्ताए, अहासुहं देवाणुप्पिया!; तते णं णंदे सेणिएणं रत्ता  
 अंभण्णाते समाणे हट्टं० रायगिहं मज्झमज्जेणं निगगच्छति २, वत्थुपाढयरोइयंसि भूमिभागंसि णंदं  
 पोक्खरणिं खणाविउं पयत्ते यावि होत्था, तते णं सा णंदा पोक्खरणी अणुपुब्बेणं खणमाणा २, पोक्ख-  
 रणी जाया यावि होत्था; चाउक्कोणा समतीरा, अणुपुब्बसुज्जायवप्पीयलजला, संछणपत्तबिससुणाला,  
 बहुप्पलपउमक्कुसुदनलिणसुभगसोगंधियपुंडरीयमहापुंडरीयसयपत्तसहस्सपत्तपफुल्लकैसरोवेया परिहत्थ-  
 भंमतमच्छप्पयअणेणसउणगणमिहुणवियरियसददुद्धइयमहुरसरनाइया पासाइया ४ । तते णं से णंदे  
 मणियारसेट्ठी णंदाए पोक्खरणीए चउद्धिसिं चत्तारि वणसंढे रोवावेति । तए णं ते वणसंडा अणुपुब्बेणं  
 सारक्खिज्जमाणा संगोचिज्जमाणा य संवड्डियमाणा य से वणसंडा जाया किण्हा जाव निकुहंबभूया  
 पत्तिया पुष्फिया जाव उवसोभमाणा २, चिहंति । तते णं नंदे पुरच्छिमिल्ले वणसंढे एगं महं चित्तसंभं  
 करावेति, अणेणखंभसयसंनिविट्टं पा०, तत्थ णं बहूणि किण्हाणि य जाव सुक्किलाणि य, कट्टकम्माणि य,  
 पोत्थकम्माणि चित्तं० लिप्पं० गंधिमवेढिमपूरिमसंघातिमं० उवदंसिज्जमाणाइं २, चिहंति; तत्थ णं बहूणि  
 आसणाणि य, सयणाणि य अत्थुयपच्चत्थुयाइं चिहंति; तत्थ णं बहूवे णडा य णट्टा य जाव दिन्नमइ-  
 भत्तवेयणा तालायरकम्मं करेमाणा विहरंति, रायगिहविणिग्गओ य जत्थ बहू जणो तेसु पुब्बन्नत्थेसु  
 आसणसयणेसु संनिसन्नो य, संतुयदो य, सुणमाणो य, पेच्छमाणो य, सोहेमाणो य सुहंसुहेणं विहरइ;

तते णं णंदे दाहिणिह्ले वणसंडे एगं महं महाणससालं करावेति अणेगखंभ० जाव रूवं तत्थ णं बहवे पुरिसा दिन्नभइभत्तवेयणा विपुलं असण ४ उवक्खडंति बहूणं समणमाहणअतिहीक्किवणवणीमगाणं परिभाएमाणा २, विहरंति, तते णं णंदे मणियारसेट्ठी पच्चत्थिमिह्ले वणसंडे एगं महं तेगिच्छियसालं करेति, अणेगखंभसय० जाव रूवं, तत्थ णं बहवे वेज्जा य वेज्जपुत्ता य जाणुया य जाणुयपुत्ता य कुसला य कुसुलपुत्ता य दिन्नभइभत्तवेयणा बहूणं वाहियाणं गिलाणाण य रोगियाण य दुब्बलाण य तेहच्छं करेमाणा विहरंति, अणे य एत्थ बहवे पुरिसा दिन्न तेसिं बहूणं वाहियाण य रोगि० गिला० दुब्बला० ओसहभेसज्जभत्तपाणेणं पडियारकम्मं करेमाणा विहरंति तते णं णंदे उत्तरिल्ले वणसंडे एगं महं अलंकारिसभं करेति, अणेगखंभसत० जावपडिरूवं, तत्थं णं बहवे अलंकारियपुरिसा दिन्नभइभत्त० बहूणं समणाण य अणाहाण य गिलाणाण य रोगि० दुब्ब० अलंकारियकम्मं करेमाणा २, विहरंति । तते णं तीए णंदाए पोक्खरणीए बहवे सणाहा य, अणाहा य, पंथिया य, पहिया य, करोडिया, कारिया०, तणहार०, पत्त० कट्ट०; अप्पेगतिया णहायंति, अप्पेगतिया पाणियं पिंयंति, अप्पेगतिया पाणियं संवहंति, अप्पे० विसज्जितसेय जल्लमलपरिस्समनिइखुण्णिपवासा सुहंसुहेणं विहरंति । राय-गिहविणिग्गओवि जत्थ बहुजणो किं ते जलरमणविविहमज्जणकयलिलयाघरयकुसुमसत्थरयअणेग सडणगणरुयरिभितसंकुलेसु सुहंसुहेणं अभिरममाणो २ विहरति । तते णं णंदाए पोक्खरिणीए

बहुजणो ष्हायमाणो पाणियं च संवहमाणो य'अन्नमन्नं एवं वदासी-घण्णे णं देवा० !, णंदे मणियार-  
सेट्ठी कयत्थे जाव जम्मजीवियफले जस्स णं इमेयारूवा णंदा पोक्खरणी चाउक्कोणा जाव पडिरूवा,  
जस्स णं पुरत्थिमिद्धे तं चैव सव्वं चउसुवि वणसंडेसु जाव रायगिहविणिगगओ जत्थ बहुजणो आसणेसु  
य सयणेसु य सन्निसन्नो य संतुयट्ठो य पेच्छमाणो य साहेमाणो य सुहंसुहेणं विहरति, तं घन्ने कयत्थे  
कयणुन्ने कयाणं० लोया ! सुलद्धे माणुस्सए जम्मजीवियफले नंदस्स मणियारस्स, तते णं रायगिहे संघाडग  
जाव बहुजणो अन्नमन्नस्स एवमातिकव्वति ४, घन्ने णं देवाणुप्पिया !, णंदे मणियारं सो चैव गमओ जाव  
सुहंसुहेणं विहरति । तते णं से णंदे मणियारं बहुजणस्स अंतिए एतमट्ठं सोच्चा०, हट्ट २ धाराहयकलंबगंपिव  
समूससियरोमक्खे परं सायासोक्खमणुभवमाणे विहरति ॥ सूत्रम्-१०० ॥

सर्वं सुगमं, नवरं 'एवं सुरियाभे'चि-यथा राजप्रश्नकृते ख्रिकाभो देवो वर्णितः, एवं अयमपि वर्णनीयः; कियता वर्ण-  
केनेत्याह-'जावदिब्वाइ'इत्यादि, स चायं वर्णकः-'तिहिं परिसाहिं, सत्तहिं अणिएहिं, सत्तहिं अणियाहवहहिं' इत्यादि;  
'इमं च णं केवलकप्पं'ति इमं च केवलः-परिपूर्णः, स चासौ कल्पश्च-स्वकार्यकरणसमर्थ इति केवलकल्पः, केवल एव  
वा केवलकल्पः, तं 'आभोएमाणे'-इह यावत्करणादिदं दृश्यं,-'पासइ समणं भगवं महावीर'मित्यादि; 'कूडागारदि-  
ट्टंते'चि एवं चासौ 'से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चइ सरीरं अणुपविट्ठा !, गोयसा ! से जहा नामए कूडागारसाला सिया  
दुहओ बहिस्त्तथ गुचा लिचा' सावरणत्वेन गोमयाद्युपलेपनेन च उभयतो गुप्तत्वमेवाह-गुप्ता-बहिः प्राकारावृता गुत्तडु-

वासा-अन्युत्सत्यर्थः, अथवा-पुसा पुसद्वारा द्वाराणां केषांचित् स्थगितत्वात् केषांचिच्चास्थगितत्वादिति; 'निवाया'-  
 वाचीपवेणात्, 'निवायगंभीरा'-किल महद् गृहं निवातं प्रायो न भवतीत्यत आह-निवातगम्भीरा निवातविशालेत्यर्थः;  
 तीतो गं कुहागारसालाए अदूरसामंते एत्थ णं महं एगे जणसमूहे चिद्धइ, तए णं से जणसमूहे एगं महं अबभवदलयं वा,  
 पांसपरलयं वा, महावायं वा एज्जमाणं पासइ, पासिता तं कुहागारसालं अंतो अणुपविसिचाणं चिद्धइ; से तेणङ्केणं गोयमा !  
 एवं बुचइ संरीसं गया संरीसं अणुपविद्ध'ति, 'असाधुदर्शनेने'ति-साधूनामदर्शनेनात एव, 'अपर्युपासनया'-  
 परिसनया, 'अननुशासनया'-शिक्षाया अभावेन, 'अधुअषणया'-श्रवणेच्छाया अभावेन, 'सम्यक्त्वपर्यवै'-सम्य-  
 क्त्वरूपपरिणामविशेषैवं, मिथ्यात्वपर्यवैरपि मिथ्यात्वं विशेषेण प्रतिपन्नो विप्रतिपन्नः, काण्ठकर्मणि-दारुमयपुत्रिकादि-  
 त्तमीपणानि एवं सर्वत्र, नवरं; पुस्तं-वस्त्रं, चित्रं लेप्यं च प्रसिद्धं, ग्रन्थिसानि-यानि सूत्रेण ग्रथयन्ते मालावत्, वेष्टिसानि-  
 यानि वेष्टनतो निष्पाद्यन्ते, पुष्पमालालम्बूसकवत्, पूरिसानि-यानि पूरणतो भवन्ति, कनकादिप्रतिमावत्; सङ्घातिसानि-  
 सङ्घातनिष्पाद्यानि रथादिवत्, उपदर्यमानानि लोकैस्त्योऽन्यमित्यर्थः; 'तालायरकम्मं'ति-प्रेक्षणकर्मविशेषः, 'तेगि-  
 च्छियसांलं'-ति-चिकित्साशालं अरोगशालां, वैद्याः-भिषग्वराः, आयुर्वेदपाठकाः, वैद्यपुत्राः-तत्पुत्रा एव; 'जाणुयं'चि-  
 ज्ञायकाः शास्त्रानव्यायिनोऽपि शास्त्रज्ञप्रवृत्तिदर्शनेन रोगस्वरूपतः चिकित्सावेदिनः, कुशलाः-स्ववितर्काचिकित्सादिप्रवीणाः;  
 'वाहियाणं' ति-व्याधितानां विशिष्टचिचपीडावतां शोकादिविच्छुतचित्तानामित्यर्थः अथवा-विशिष्टा आधिपर्यस्मात् स व्याधिः-  
 स्थिररोगः कुष्ठादिस्तद्वतां ग्लानानां-क्षीणवर्षाणामशक्तानामित्यर्थः, रोगितानां-सजातज्वरकुष्ठादिरोप्राणमाशुवातिरोप्राणां

वा, 'ओसह'मित्यादि, औषध-एकद्रव्यरूपं, षैषजं-द्रव्यसंयोगरूपं; अथवा-औषधं-एकानेकद्रव्यरूपं षैषजं तु-पृथ्यं, अर्कं तु-भोजनमात्रं, प्रतिवारककर्म-प्रतिवारकत्वं, 'अलंकारियसहं'ति-नापितकर्मशालां, 'विसल्लिए'त्यादि, विसृष्टस्वे-दजलमलपरिश्रमनिद्राश्रुतिपासाः, तत्र जल्लोऽस्थिरो मालिन्यहेतुर्मलस्तु स एव कठिनीभूत इति, 'रायगिहे'त्यादि, राज-गृहविनिर्गतोऽपि चात्र बहुजनः, 'किं ते'चि-किं तद् यत्करोति ?, उच्यते-जलरमणैः-जलक्रीडाभिः विविधमञ्जनैः-बहुप्र-कारत्वात्; कदलीनां च लतानां च गृहकैः कुसुमस्तम्भैः अनेकशकुनिगणरुतैश्च रिभितैः-स्वर्धोलनावद्धिमधुरैरित्यर्थः; सङ्कलानि यानि तानि तेषु पुष्करणीवनखण्डलक्षणेषु पञ्चसु वस्तुञ्चिति प्रक्रमः, 'संतुयद्यो य'चि-श्रयितः, 'साहेमा-णो य'चि प्रतिपादयन्, 'गमय'चि पूर्वोक्तः पाठः, 'सायासोक्त्वं'ति सातात्-सातवेदनीयोदयात् सौख्यं-सुखं ॥ १०० ॥

तत्ते णं तस्स नंदस्स मणियारसेट्टिस्स अन्नया कयाई सरीरंगंसि सोलस रोयायंका पाउब्भूया, तं०-  
 "सासे कासे जरे दाहे, कुच्छिसूले भगंदरे ६ । अरिसा अजीए दिट्टिसुद्धसूले अगारए ॥ १ ॥ अच्छि-  
 वेयणा कसंबेयणा कंडू दउदरे कोढे १६ ।" तते णं से णंदे मणियारसेट्टी सोलसहिं रोयायंकेहिं अभिभूते  
 समाणे कोढुंबियपुरिसे सदावेति २, एवं व०-गच्छह णं तुब्भे देवा० !, रायगिहे सिंघाडग जाव पहेसु  
 महया सरेणं उग्घोसेमाणा २, एवं व०-एवं खलु देवाणु० !, णंदस्स मणियारसेट्टिस्स सरीरंगंसि सोलस  
 रोयायंका पाउब्भूता, तं०-'सासे जाव कोढे' तं जो णं इच्छति देवाणुरिपिया !, वेज्जो वा, वेज्जपुत्तो वा,  
 जाणुओ वा २, कुसलो वा २, नंदस्स मणियारस्स तेसिं च णं सोलसण्हं रोयायंकाणं एगमचि रोयायंका

नवाङ्गी-  
३० इ०  
श्रीवाता-  
धर्मक्याङ्गे  
॥ १८८ ॥

उवसामेत्तए तस्स णं दे० ! मणियारे विउलं अत्थसंपदानं दलयति, त्तिकट्टु दोच्चंपि तच्चंपि घोसणं घोसेह  
२, पच्चप्पिणह, तेवि तहेव पच्चप्पिणंति; तते णं रायणिहे इमेयारूवं घोसणं सोच्चा णिसम्म बहवे वेज्जा  
य, वेज्जपुत्ता य जाव कुसलपुत्ता य, सत्थकोसहत्थगया य, कोसगपायहत्थगया य, सिलियाहत्थगया य,  
गुलिया० य ओसहभेसज्जहत्थगया य सएहिं २, गिहेहिंतो निक्खमंति २, रायणिहं मज्झमज्जेणं जेणेव  
णंदस्स मणियारसेट्ठिस्स गिहे तेणेव उवा० २, णंदस्स सरीरं पासंति, तेसिं रोयायंकाणं णियाणं पुच्छंति,  
णंदस्स मणियार० बहूहिं उव्वलणेहि य, उवट्टणेहि य, सिणेहपणेहि य, वमणेहि य, विरेयणेहि य,  
सेयणेहि य, अवदहणेहि य, अवणहाणेहि य, अणुवासणेहि य, वत्थिक्कमेहि य, निरूहेहि य, सिरावेहेहि  
य, तच्छणाहि, य, पच्छणाहि य, सिरावेहेहि य, तप्पणाहि य, वल्लीहि य, वल्लीहि य,  
मूलेहि य, कंदेहि य, पत्तेहि य, पुप्फेहि य, फलेहि य, बीएहि य, सिलियाहि य, गुलियाहि य, ओस-  
हेहि य, भेसज्जेहि य, इच्छंति तेसिं सोलसण्हं रोयायंकाणं एगमवि रोयायंकां उवसामित्तए, नो चव णं  
संचाएति उवसामेत्तए, तते णं ते बहवे वेज्जा य ६ जाहे नो संचाएति, तेसिं सोलसण्हं रोगाणं एगमवि  
रोगा० उव० ताहे संता तंता जाव पडिगया । तते णं नंदे तेहिं सोलसेहिं रोयायंकेहिं अभिभूते समाणे  
णंदापोक्खरणीए सुच्छिए ४ त्तिरिक्खजोणिएहिं निबद्धाउते बद्धपएसिए अट्टदुहट्टवसंटे कालमासे कालं  
किच्चा नंदाए पोक्खरणीए दडुरीए कुच्छिसि दडुरत्ताए उववन्ने । तए णं णंदे दडुरे गब्भाओ विणिम्मुक्के

१३-श्री-  
ददुं०  
ज्ञाताय०  
रोगाक्रा-  
न्तनन्दव-  
र्णनखत्रम् ।

॥ १८८ ॥



समाणे उम्मुक्कवालभावे विन्नायपरिणयमित्ते जोव्वणगमणुपत्ते नंदाए पोक्खरणीए अभिरममाणे २ विहरति, तते णं गंदाए पोक्खरणीए बहू जणे ग्हायमाणो य पियइ य पाणियं च संबहमाणो अन्नमन्नस्स एवमातिक्खति ४ धत्ते णं देवाणुप्पिया ! गंदे मणियारे जस्स णं इमेयारूवा गंदा पुक्खरणी चाउक्कोणा जाव पडिरूवा जस्स णं पुरत्थिमिल्ले वणसंढे चित्तसभा अगणेखंभं० तहेव चत्तारि सहाओ जाव जम्मजी-वियफले, तते णं तस्स ददुरस्स तं अभिक्खणं २ बहुजणस्स अंतिए एयमंठं सोच्चा णिसम्म इमेयारूवे अब्भत्थिए ६-से कहिं मन्ने मए इमेयारूवे सदे णिसंतपुव्वे त्तिकहु सुभेणं परिणामेणं जाव जाइसरणे समुप्पन्ने, पुव्वजातिं सम्मं समागच्छति, तते णं तस्स ददुरस्स इमेयारूवे अब्भत्थिए ५-एवं खल्ल अहं इहेव रायगिदे नगरे गंदे णामं मणियारे अहु । तेणं कालेणं तेणं समएणं समणे भगवं म० समोसंढे, तए णं समणस्स भगवओ० अंतिए पंचाणुव्वइए सत्तसिक्खावइए जाव पडिवन्ने, तए णं अहं अन्नया कयाई असाहुदंसणेण य जाव मिच्छत्तं विप्पडिवन्ने, तए णं अहं अन्नया कयाई गिम्हे कालसमयंसि जाव उपसंपज्जित्ता णं विहरामि, एवं जहेव चित्ता आपुच्छणा नंदापुक्खं वणसंडा सहाओ तं चेव सव्वं जाव नंदाए पु० ददुरत्ताए उववन्ने, तं अहो णं अहं अहन्ने अपुन्ने अकयपुन्ने निगंगथाओ पावयणाओ नट्टे भट्टे परिब्भट्टे तं सेयं खल्ल ममं समयमेव पुव्वपडिवन्नातिं पंचाणुव्वयातिं० उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तए, एवं संपेहेति २ पुव्वपडिवन्नातिं पंचाणुव्वयाई० आरुहेति २ इमेयारूवं अभिगहं अभिगिणहति-कप्पइ मे

जायसीव छट्टछट्टेणं अणि० अत्पणं भावेमाणस्स विहरित्तए, छट्टस्सविय णं पारणंगंसि कप्पह मे णंदाए  
 पोक्खरणीए परिपेरंतेसु फासुएणं णहाणोदएणं उम्मइणोलोलियाहि य विरिंत्तं कप्पेमाणस्स विहरित्तए,  
 इमेयारूव अमिगंइं अभिगेणंइति, जावल्लीवाए छट्टछट्टेणं जाव विहरति; तेणं कालेणं २, अंहं गो० १,  
 एणसिलए समोसढे, परिसा निग्गया; तए णं नंदाए पुक्खरिणीए बहुजणो णहाय० ३ अन्नमन्नं०, जाव  
 समणे ३ इहेव गुणसिलए०, तं गच्छामो णं देवाणु० समणं भगवं० वंदासो जाव पज्जुवासामो एयं मे  
 इह भवे पर भवे य हियाए जाव अणुगामियत्ताए भविस्सइ, तए णं तस्स ददुरस्स बहुजणस्स अंतिए  
 एयमइं सोच्चा निस्सम्म० अयमेयारूवे अब्भत्थिए ५ समुप्पज्जित्था-एवं खलु समणे० तं गच्छामि णं  
 गमामि०, एवं संपेहेति २, णंदाओ पुक्खरणीओ सणियं २, उत्तरइ; जेणेव रायमग्गे तेणेव उवा० २, ताए  
 च्छिट्ठाए ५, ददुरगईए वीतिवयमाणे जेणेव ममं अंतिए तेणेव पहारेत्थ गमणाए, इमं च णं सेणिए राया  
 मंससारे णहाए क्रयकोउय० जाव सव्वालंकारविमूसिए, हत्थिखंघवरगए, सकोरंटमल्लदामेणं, छत्तेणं०,  
 सेयवरचामरा०, हयगायरह०, महया भडचडगर०, चाउरंगिणीए सेणाए सद्धिं संपरिवुडे, मम पायवंदते  
 सुवमगच्छति; तते णं से ददुरे सेणियस्स रत्तो एणेणं आसकिसोरएणं वामपाएणं अक्कंते समणे अंत-  
 निग्घात्तिए कते यावि होत्था, तते णं से ददुरे अत्थामे अबले अबीरिए अपुरिसकारपरक्कमे आधारणि-

३. तिक्का जा ६ अ ।

ज्जमि त्तिक्कु एगंतमवक्कमति० कस्यलपरिग्गहिंयं० नमोऽस्त्यु णं जाव संपत्ताणं, नमोऽस्त्यु णं मम घम्माय-  
 रियस्स जाव संपावित्तामस्स पुण्णिवपिय णं मए समणस्स भगवतो महावीरस्स अंतिए थूलए पाणाति-  
 वाए पच्चक्खाए जाव थूलए परिग्गहे पच्चक्खाए, ते इयाणिंपि तस्सेव अंतिए सव्वं पाणातिवायं पच्च-  
 क्खामि जाव सव्वं परि० पच्च० जावजीवं सव्वं असण ४, पच्च० जावजीवं जंपिय इमं सरीरं इट्ठं कंतं  
 जाव मा कुसंतु एयंपि णं चरिमेहिं ऊसासेहिं वोसिरामि त्तिक्कु, तए णं से ददुदुरे कालमासे कालं किच्चा  
 जाव सोहम्मे कम्पे, ददुरवडिंसए विमाणे, उव्ववायसभाए, ददुरदेवत्ताए उववत्ते; एवं खल्ल गो० १,  
 ददुरेणं सा दिव्वा देविट्ठी लद्धा ३। ददुरस्स णं भंते ! देवस्स केवतिकालं ठिई पणत्ता १, गो० १,  
 चत्तारि पल्लिओवमाइं ठिती पं०, से णं ददुरे देवे० महाविदेहे वासे सिज्झिहिति, बुज्झि० जाव अंतं  
 करेहिइ य । एवं खल्ल समणेणं भग० महावीरेणं तेरसमस्स नायज्झयणस्स अयमट्ठे पणत्ते त्तिवमि ॥  
 सूत्रम्-१०१ ॥ तेरसमं णायज्झयणं समत्तं ॥ १३ ॥

'सासे'त्यादि श्लोकः प्रतीतार्थः, नवरं 'अजीरए'त्ति-आहारापरिणतिः, 'दिट्ठीसुद्धसूले'त्ति-दृष्टिशूलं-नेत्रशूलं,  
 मूर्द्धशूलं-मस्तकशूलं, 'अकारए'त्ति-भक्तद्वेषः, 'अच्छिचेयणे'त्यादि, श्लोकातिरिक्तं, 'कंडु'त्ति-खर्जुः, 'दउदरे'त्ति-  
 दकोदरं-जलोदरमित्यर्थः, 'सत्थकोसे'त्यादि, शस्त्रकोशः-धुरनखरदनादिभाजनं स हस्ते गतः-स्थितो येषां ते तथा, एवं  
 सर्वत्र, नवरं शिलिकाः-किराततिककादिवृणरूपाः प्रततपाषाणरूपा वा शस्त्रतीक्ष्णीकरणार्थाः, तथा गुटिका-द्रव्यसंयोगनि-

व्यादितगोलिकाः ओषधभेषजे तथैव 'उच्चलणेही'त्यादि, उद्वेलनानि-देहोपलेपनविशेषाः यानि देहाद्धस्तामर्शनेनापनीयमानानि मलादिकमादायोद्बलतीति उद्बर्चनानि-तान्येव विशेषस्तु लोकुरुहिममवसेय इति, स्नेहपानानि-द्रव्यविशेषकघृतादिपानानि वमनानि च प्रसिद्धानि विरेचनानि-अधोविरेकाः स्वेदनानि-सप्तधान्यकादिभिः अवदहनानि-दग्मनानि अपस्नानानि-स्नेहापनयनहेतुद्रव्यसंस्कृतजलेन स्नानानि अनुवासानाः-चर्मयन्त्रप्रयोगेणापानेन जठरे तैलविशेषप्रवेशनानि बस्तिकर्माणि-चर्मवेष्टनप्रयोगेण शिरःप्रभृतीनां स्नेहपूरणानि गुदे वा वत्स्योद्विशेषणानि निरूहा-अनुवासाना एव केवलं द्रव्यकृतो विशेषः शिरोवेधा-नाडीवेधनानि रुधिरमोक्षणानीत्यर्थः तक्षणानि-त्वचः क्षुरप्रादिना तनूकरणानि प्रक्षणानि-इस्वानि त्वचोविदारणानि शिरोबस्तयः-शिरसि बद्धस्य चर्मकोशस्य संस्कृततैलापूरलक्षणाः, प्रागुक्तानि बस्तिकर्माणि सामान्यानि अनुवासानानिरूहाशिरोबस्तयस्तु तद्भेदाः, तर्पणानि-स्नेहद्रव्यविशेषैर्बृंहणानि, पुटपाकाः-कुष्ठिकानां कणिकावेष्टितानामशिनपचनानि, अथवा-पुटपाकाः-पाकविशेषनिष्पन्ना औषधविशेषाः, छल्लयो-रोहिणीप्रभृतयः, वल्लयो-गुडूचीप्रभृतयः, कन्दादीनि प्रसिद्धानि एतैरिच्छन्ति एकमपि रोगमुपशमयितुमिति, 'निबद्धाउए'त्ति-प्रकृतिस्थित्यनुभागबन्धापेक्षया, 'बंधपएस्सिए'त्ति-प्रदेशबन्धापेक्षयेति, 'अंतनिग्घाइए'त्ति-निर्घातितान्तः, 'सबंधपाणाइवायं पचक्खामि' इत्यनेन यद्यपि सर्वग्रहणं तथापि तिरश्चां देशविरतिरेव, इहार्थे गाथे-"तिरियाणं चारिचं निवारियं अह य तो पुणो तेसि । सुव्वइ बहुयाणंपि हु महव्वया-रोहणं समए ॥१॥ न महव्वयसत्त्वावेवि चरणपरिणामसम्भवो तेसि । न बहुगुणाणंपि जओ केवलसंभूइपरिणामो ॥२॥" इति

चा० १ तिरश्चां चारिचं निवारितं अथ च तदा पुनस्तेषां श्रूयते बहूनमपि महाव्रतारोपणं समये ॥ १ ॥ न महाव्रतसद्भावेऽपि चरणपरिणामसंभवस्तेषां । बहुगुणानामपि न यतः केवलसंभूतिपरिणामः ॥२॥

इह यद्यपि सूत्रे उपनयो नोक्तः तथाऽप्येवं द्रष्टव्यः—“संपन्नगुणो वि जओ सुसाहुंसंगिवञ्जिओ पायं । पावह गुणपरि-  
हाणीं दहुरजीबोव मणियारो ॥ १ ॥” चि, अथा-तित्थयारवंदणत्थं चलिओ भावेण पावह संगं । जह दहुरदेवेणं पचं वेमा  
णियसुरचं ॥ २ ॥” चि समासमिदं त्रयोदशज्ञाताध्ययनविवरणम् ॥ १३ ॥

## ॥ १४-श्रीतेतलियुत्रज्ञाताध्ययनम् ॥

अथ चतुर्दशज्ञातं विव्रियते-अस्य चायं पूर्वेण सहाभिसम्बन्धः-पूर्वस्मिन् सतां गुणानां सामर्थ्यभावे हानिरुक्ता, इह तु  
तथाविषयसामग्रीसङ्कावे गुणसम्पदुपजायते इत्यभिधीयते, इत्येवं सम्बद्धमिदम्—

जति णं अंते ।, तेरसमस्स ना० अयमट्ठे पणणेत्ते, चोइसमस्स के अट्ठे पन्नत्ते !; एवं खलु जंबू !, तेणं  
काळेणं २, तेयलिपुरं नाम नगरं, पमयवणे उज्जाणे, कणगरहे राया, तस्स णं कणगरहस्स पउमावती  
देवी, तस्स णं कणगरहस्स तेयलिपुत्ते णामं अमच्चे, सामदंड०; तत्थ णं तेयलिपुरे कलादे नामं मूसियार-  
दारए होत्था, अट्ठे जाव अपरिश्चते, तस्स णं भहा नामं भारिया, तस्स णं कलायस्य मूसियारदारयस्य

सा० १ संपन्नगुणोऽपि यतः सुसाहुंसंगवर्जितः प्रायः । प्राप्नोति गुणपरिहाणिं दहुरजीव इव मणिकारः ॥ १ ॥ तीर्थकारवन्दनार्थं चलितो भावेन  
प्राप्नोति स्वर्गम् । यथा दहुरदेवेन प्रातं वैमानिकसुरत्वम् ॥ १ ॥

धूया भद्राए अत्तया पोड्डिला नामं दारिया होत्था, रूवेण जोव्वणेण य लावन्नेण उक्किट्टार, तते णं पोड्डिला दारिया, अन्नदा कदाइ णहाता सव्वालंकरविमूसिया चेडियाचक्कवालसंपरिबुडा उप्पि पासायवरगया आगा सत्तलंगंसि कणगमएणं तिंदूसएणं कीलमाणी २ विहरति, इमं च णं तेयलिपत्ते अमबं ण्हाए आसबंधव-  
रगए महया भडचडगरआसवाहणियाए णिज्जायमाणे कलायस्स मूसियारदारगस्स गिहस्स अदूरसामंतेणं वीतिवयति, तते णं से तेयलिपुत्ते मूसियारदारगगिहस्स अदूरसामंतेणं वीतीवयमाणे २, पोड्डिलं दारियं उप्पि पासायवरणं आगासत्तलंगंसि कणगतिंदूसएणं कीलमाणीं पासति २, पोड्डिलाए दारियाए रूवे य इ जाव अज्झोववन्ने कोडुंबियपुरिसे सहावेति २, एवं व०-एस णं देवा० !, कस्स दारिया किंनामधेज्जा ? , तते णं कोडुंबियपुरिसे तेयलिपुत्तं एवं वदासी-एस णं सामी !, कलायस्स मूसियारदारयस्स घूता, भद्राए अत्तया, पोड्डिला नामं दारिया रूवेण य जाव सरीरा; तते णं से तेयलिपुत्ते आसवाहणियाओ पड्डिनि-  
यते समाणे अग्गिभतरट्टाणिज्जे पुरिसे सहावेति २, एवं व०-गच्छह णे तुंभे देवाणुप्पिया ! कलादस्स मूसियार० धूयं भद्राए अत्तयं पोड्डिलं दारियं मम भारियत्ताए वरेह, तते णं ते अग्गंभतरट्टाणिज्जा पुरिसा तेतलिणा एवं बुत्ता समाणा हट्ट० करय० तहत्ति जेणेव कालयस्स मूसि० गिहे तेणेव उवागया, तते णं से कलाए मूसियारदारते पुरिसे एज्जमाणे पासति २, हट्टुट्टे आसणाओ अग्गुट्टेति २, सत्तट्टपदाति अणु-  
गच्छति २, आसणेणं उवणिमंतेति २, आसत्थे वीसत्थे सुहासणवरगए एवं व०-संदिसंतु णं देवाणु० !,

किमागमणपओयणं १; तते णं ते अडिभतरट्ठाणिज्जा पुरिसा कलायसूसियं० एवं व०-अमहे णं देवाणु० १,  
 तव धूर्यं भदाए अत्तयं पोद्विलं दारियं तेयल्लिपुत्तस्स भारियत्ताए वरेमो, तं जति णं जाणसि देवाणु०  
 जुत्तं वा पत्तं वा सलाहणिज्जं वा सरिसो वा संजोगो ता दिज्जउ णं पोद्विला दारिया तेयल्लिपुत्तस्स,  
 ता भण देवाणु० १, किं दलामो सुकं १, तते णं कलाए सूसियारदारए ते अडिभतरट्ठाणिज्जे पुरिसे एवं  
 वदासी-एस चेव णं दे० १, मम सुंके जंनं तेतल्लिपुत्ते मम दारियानिमित्तेणं अणुग्गहं करेति, ते ठाणिज्जे  
 पुरिसे विपुलेणं असणं ४, पुक्कवत्थ जाव मल्लालंकारेणं सक्कारेइ स० २, पडिविसंजेइ; तए णं कलायस्सवि  
 मूसि० गिहाओ पडिनि० २, जेणेव तेयल्लिपुत्ते अ० तेणेव एवा०, तेयल्लिपु० एयमहं निवेयंति; तते णं  
 कलादे सूसियदारए अन्नया कयाइं सोहणंसि तिहिक्खत्तमुहुत्तंसि पोद्विलं दारियं ण्हायं सव्वालंकारभू-  
 सियं सीयं दुरुहइरत्ता मित्तणाइसंपरिबुडे सातो गिहातो पडिक्खत्तमति २, सव्विड्डीए तेयलीपुरं मज्झं-  
 मज्झेणं जेणेव तेतल्लिस्स गिहे तेणेव उवा०, पोद्विलं दारियं तेतल्लिपुत्तस्स सयमेव भारियत्ताए दलयति;  
 तते णं तेतल्लिपुत्ते पोद्विलं दारियं भारियत्ताए उवणीयं पातति २, पोद्विलाए सद्धिं पट्टयं दुरुहति २,  
 सेतापीतएहिं कलसेहिं अग्गपाणं मज्जावेति २, अग्गिगहणं करेति २, पाणिग्गहणं करेति २, पोद्विलाए  
 भारियाए मित्तणाति जाव परिज्जणं विपुलेणं असणपाणत्तातिमसातिमेणं पुक्क जाव पडिविसंजेति; तते

णं से तेतलिपुत्ते पोद्विलाए भारियाए अणुरत्ते अचिरत्ते उरालाहं जाव विहरति ॥ सूत्रम्-१०२ ॥ तते णं से कणगरहे राया रज्जे य रट्टे य बले य बाहणे य कोसे य कोट्टागारे य अंतोउरे य मुच्छित्ते ४, जाते २, पुत्ते वियंगेति, अप्पेगइयाणं हत्थंगुलियाओ छिदति, अप्पेगइयाणं हत्थंगुट्टए छिदति, एवं पायंगुलियाओ पायंगुट्टएवि कन्नसक्कुलीएवि नासापुडाहं फालेति, अंगमंगार्ति वियंगेति; तते णं तीसे पउमावतीए देवीए अन्नया पुब्बरत्ताव० अयमेयारूवे अब्भत्थिए समुप्पज्जित्था ४-एवं खल्ल कणगरहे राया रज्जे य जाव पुत्ते वियंगेति जाव अंगमंगाहं वियंगेति, तं जति अहं दारयं पयायामि सेयं खल्ल भंमं तं दारगं कणगरहस्स रहस्सिसयं चेव सारक्खमाणीए संगोवेमाणीए विहरित्तए, त्तिकट्टु एवं संपेहेति २, तेयलिपुत्तं अमच्चं सदा-  
वेत्ति२, एवं व०-एवं खल्ल देवा० !, कणगरहे राया रज्जे य जाव वियंगेति तं जति णं अहं देवाणु० !, दारणं पयायामि; तते णं तुमं कणगरहस्स रहस्सिसयं चेव अणुपुब्बेणं सारक्खमाणे संगोवेमाणे संवड्डेहि, तते णं से दारए उम्मुक्कबालभावे जोब्बणगमणुप्पत्ते तव य मम य भिक्खाभायणे भविस्सति, तते णं से तेयलिपुत्ते पउमावतीए एयमट्टं पड्डिसुणेति२ पड्डिगए, तते णं पउमावतीय देवीए पोद्विलाय अमचीए सयमेव गच्चं गेणह-  
ति सयमेव परिवहति, तते णं सा पउमावती नवणहं मासाणं जाव पियंदसणं सुरूवं दारगं पयाया, जं रयणिं च णं पउमावती दारयं पयाया तं रयणिं च णं पोद्विलावि अमची नवणहं मासाणं विणिहायमावन्नं



दारियं पयाया, तते णं सा पउमावती देवी अम्मधाइं सद्दावेति २, एवं व०-गच्छह-णं तुमे अम्मो !  
 तेयलिगिहे तेयलिपु० रहस्सिसयं चैव सद्दावेह; तते णं सा अम्मधाइं तहत्ति पड्डिसुणेति २, अंतेउरस्स  
 अबद्दारेणं निग्गच्छति २, जेणेव तेयलिस्स गिहे जेणेव तेयलिपुत्ते तेणेव उवा० २, करयल जाव एवं  
 वदासी-एवं खल्ल देवा० !, पउमावती देवी सद्दावेति; तते णं तेयलिपुत्ते अम्मधातीए अंतिए एयमड्डं  
 सोच्चा हट्ट २, अम्मधातीए सद्धिं सातो गिहाओ णिग्गच्छति २, अंतेउरस्स अबद्दारेणं रहस्सिसयं चैव अणु-  
 पविससति २, जेणेव पउमावती तेणेव उवाग० करयल० एवं व०-संदिंसंतु णं देवाणुप्पिया ! जं मए कायब्बं !,  
 तते णं पउमावती तेयलीपुत्तं एवं व०-एवं खल्ल कणगरहे राया जाव वियंगेति अहं च णं देवा० ! दारगं  
 पयाया तं तुमं णं देवाणु० !, तं दारगं गेणहाहि जाव तव मम य भिक्खाभायणे भविस्सति त्तिकट्टु तेय-  
 लिपुत्तं दलयति; तते णं तेयलिपुत्ते पउमावतीए हत्थातो दारगं गेणहति, उत्तरिल्लेणं पिहेति २, अंतेउरस्स  
 रहस्सिसयं अबद्दारेणं निग्गच्छति २, जेणेव सए गिहे जेणेव पोड्डिला भारिया तेणेव उवा० २, पोड्डिलं एवं  
 व०-एवं खल्ल देवाणु० !, कणगरहे राया रल्ले य जाव वियंगेति अयं च णं दारए कणगरहस्स पुत्ते पउमा-  
 वद्दए अत्तए तेणं तुमं देवा० !, इमं दारगं कणगरहस्स रहस्सिसयं चैव अणुपुब्बेणं सारक्खाहि य, संगोवेहि  
 य, संबद्धेहि य; तते णं एस दारए उम्मुक्कवालभावे तव य मम य पउमावतीए य आहारे भविस्सति  
 त्तिकट्टु पोड्डिलाए पासे णिक्खिवति पोड्डिलाओ पासाओ तं विणिहायमावन्नियं दारियं गेणहति २, उत्तरि-

ज्जेणं पिहेति २, अंतेउरस्स अवहारंणं अणुपविसति २, जेणेव पउमावती देवी तेणेव उवा० २, पउमावतीए देवीए पासे ठावेति २, जाव पडिनिगते । तते णं तीसे पउमावतीए अंगपडियारियाओ पउमावहं देविं विणिहायमावन्नियं च दारियं पयायं पासति २ त्ता, जेणेव कणगरहे राया तेणेव० २ त्ता करयल०, एवं व०-एवं खल्लु सामी !, पउमावती देवी महल्लियं दारियं पयाया, तते णं कणगरहे राया तीसे महल्लियाए दारियाए नीहरणं करेति बहूणि लोइयाइं मयकिच्चाइं० कालेणं विगयसोए जाते; तते णं से तेतलियुत्ते कल्ले कोडुंबियपुरिसे सहवेति २ एवं व०-खिप्पामेव चारगसो० जाव ठितिपडियं जम्हा णं अमहं एस दारए कणगरहस्स रज्जे जाए तं होउ णं दारए नामेणं कणगज्झए जाव भोगसमत्थे जाते ॥ सूत्रम्-१०३ ॥

तते णं सा पोड्डिला अन्नया कयाई तेतलियुत्तस्स अणिट्ठा ५, जाया यावि होत्था णेच्छइ य तेयलियुत्ते पोड्डिलाए नामगोत्तमवि सवणयाए, किं पुण दरिसणं वा परिभोगं वा ?, तते णं तीसे पोड्डिलाए अन्नया कयाई पुव्वरत्त इमेयारूवे ५ जाव समुपज्जित्था-एवं खल्लु अहं तेतलिस्स पुड्वि इट्ठा ५, आसि इयाणि अणिट्ठा ५ जाया, नेच्छइ य तेयलियुत्ते मम नामं जाव परिभोगं वा ओहयमणसंकप्पा जाव झियायति; तए णं तेतलियुत्ते पोड्डिलं ओहयमणसंकप्पं जाव झियायमाणं पासति २, एवं व-मा णं तुमं दे० !, ओह-यमणसं० तुमं णं मम महाणसंसि विपुलं असण ४, उवक्खड्ढावेहि २, बहूणं समणमाहण जाव वर्णीम-णाणं देयमाणी य दवावेमाणी य विहराहि, तते णं सा पोड्डिला तेयलियुत्तेणं एवं बुत्ता समाणा हट्ठ०

तेयलिपुत्तस्स एयमट्ठं पडिसुणेति२, कल्लकल्लं महाणसंसि विपुलं असण४, जाव दवावेमाणी विहरति  
 ॥ सूत्रम्-१०४ ॥ तेणं कालेणं२, सुब्बयाओ नामं अज्जाओ इरियासमिताओ जाव गुत्तबंभयारिणीओ बहु-  
 स्सुयाओ बहुपरिचाराओ पुब्बाणुपुब्बिं जेणामेव तेयल्लिपे नयरे तेणेव उवा० २, अहापडिरूवं उग्गहं  
 उग्गिण्हंति२, संजमेण तवसा अप्पणं भावेमाणीओ विहरंति; तते णं तासिं सुब्बयाणं अज्जाणं एगे  
 संघाडए पढमाए पोरसीए सज्झायं करेति जाव अडमाणीओ तेतल्लिस्स गिहं अणुपविट्ठाओ, तते णं सा  
 पोट्टिला ताओ अज्जाओ एज्जमाणीओ पासति२ हट्ठं आसणाओ अब्बुट्ठेति२, वंदति नमंसति२, विपुलं  
 असण४, पडिलाभेति२, एवं व०-एवं खल्ल अहं अज्जाओ !, तेयलिपुत्तस्स पुब्बिं व इट्ठा ५, आसी इयाणिं  
 अणिट्ठा५, जाव वंसणं वा परिभोगं वा०; तं तुब्भे णं अज्जातो सिक्खियाओ बहुनायाओ बहुपट्टियाओ  
 बट्ठणि गामागर जाव आहिडह बट्ठणं राईसर जाव गिहंतिं अणुपविसह तं अत्थि याहं भे अज्जाओ !,  
 केइ कंहंवि चुन्नजोए वा, संतजोगे वा, कम्मणजोए वा, काउट्टावणे वा, आभिओगिए  
 वा, वसीकरणे वा, कोउयकम्मे वा, सूह०, मूले, कंदे, छल्ली, वल्ली, सिलिया वा, गुलिया वा, ओसहे वा,  
 भेसल्ले वा, उवल्लपुब्बे जेणाहं तेयलिपुत्तस्स पुणरवि इट्ठा ५ भवेज्जामि, तते णं ताओ अज्जाओ पोट्टि-  
 लाए एवं बुत्ताओ समाणीओ दोवि कन्ने ठाईति २, पोट्टिलं एवं वदासी-अम्हे णं देवा० ! समणीओ

निर्गङ्गीओ जाव गुत्तबंभचारिणीओ नो खलु कप्पइ अहं एयप्पयारं कन्नेहि वि णिसामेत्तए, किमंग पुण उचदिसित्तए वा आयरित्तए वा ?, अहंणे णं तव देवा० ! विचित्तं केवलपन्नत्तं धम्मं पडिकहिज्जामो; तते णं सा पोड्डिला ताओ अज्जाओ एवं व०-इच्छामि णं अज्जाओ !, तुमहं अंतिए केवलपन्नत्तं धम्मं निसामित्तए; तते णं ताओ अज्जाओ पोड्डिलाए विचित्तं धम्मं परिकहेति, तते णं सा पोड्डिला धम्मं सोचा निसम्म हट्ट०, एवं व०-सइहामि णं अज्जाओ !, निर्गङ्गं पावयणं जाव से जहेयं तुब्भे वयह, इच्छामि णं अहं तुब्भं अंतिए पंचाणुव्वयहं जाव धम्मं पडिवज्जित्तए, अहासुहं; तए णं सा पोड्डिला तासि अज्जाणं अंतिए पंचाणुव्वयहं जाव धम्मं पडिवज्जइ, ताओ अज्जाओ वंदति, नमंसतिर, पडिवि-सज्जेति; तए णं सा पोड्डिला समणोवासिया जाया जाव पडिलासेमाणी विहरइ ॥ सूत्रम्-१०५ ॥

सर्वं सुगमं, नवरं 'कलाए'त्ति-कलादो नाम्ना मूषिकारदारक इति पितृव्यपदेशेनेति 'अडिभतरठाणिज्जे'त्ति-आभ्य-न्तरानाप्तानित्यर्थः, 'वियंगेह'त्ति-व्यङ्ग्यति विगतकर्णनाशाहस्ताद्यङ्गान् करोतीत्यर्थः; 'विहंतेति'त्ति-विकृतन्तति छिन-चीत्यर्थः; 'संरक्खमाणीय'त्ति-संरक्षन्त्याः आपदः सङ्कोपयन्त्याः प्रच्छादनतः, 'भिकवाभायणे'त्ति-भिक्षाभाजनमिव भिक्षाभाजनं तदस्माकं भिक्षोरिव निर्वाहकारमित्यर्थः, 'पढमाए पोरुसीए सज्झाय'मित्यादौ यावत्करणादिदं द्रष्टव्यं- 'बीयाए पोरिसीए ज्ञाणं क्षियायइ, तईयाए पोरिसीए अतुरियमचवलमसंभंते म्महपोचियं पडिलेहेइ, मायणवत्थाणि पडिलेहेइ, मायणाणि पमज्जइ, मायणाणि उग्गाहेइर, जेणेव सुबयाओ अज्जाओ तेणेव उवागच्छन्तिर, सुबयाओ अज्जाओ वंदन्ति, नमं-

सन्ति२, एवं वयासी इच्छामो णं तुम्भेहिं अब्भणुत्ताए तेयलिपुरे नयरे उच्चनीयमज्झिमाइं कुलाइं घरसमुयाणस्स भिक्खाय-  
रियाए अडित्तए, अहासुहं देवाणुप्पिया !, मा पडिबंघं, तए णं ताओ अज्जयाओ सुव्वयाओ अब्भणुणायओ समा-  
णीओ सुव्वयाणं अज्जाणं अंतियाओ पडिस्सयाओ पडिनिकखमिति अतुरियमचवलमसंभंताए गतीए जुंगंतरपलयणाए दिट्ठीए  
पुरओ रिंयं सोहेमाणीओ तेयलिपुरे नयरे उच्चनीयमज्झिमाइं कुलाइं घरसमुयाणस्स भिक्खायरियं अडमाणीड'त्तिं गृहेषु  
समुदानं-भिक्खा गृहसमुदानं तस्मै गृहसमुदानाय भिक्षाचर्या-भिक्षानिमित्तं विचरणं अटन्त्यः-कुर्वाणाः, 'अत्थि याइं मे'त्ति  
आइंति-देशभाषायां भेत्ति-भवतीनां, 'चुण्णजोए'त्ति-द्रव्यचूर्णानां योगः स्तम्भनादिकर्मकारी, 'कम्मणजोए'त्ति-कुष्ठा-  
दिरोगहेतुः, 'कम्माजोए'त्ति-काम्ययोगः-कर्मनीयताहेतुः, 'हियउड्डावणे'त्ति-हृदयोद्घापनं चित्तार्कर्षणहेतुः, 'काउड्डा-  
वणे'त्ति-कार्यार्कर्षणहेतुः, 'आमिओगिए'त्ति-पराभिवनहेतुः, 'वसीकरणे'त्ति-वश्यताहेतुः, 'कोउयकम्मे'त्ति-सौभाग्य-  
निमित्तं स्वपनादि; 'भूइकम्मे'त्ति मन्त्राभिसंस्कृतभृतिदानं ॥ १०५ ॥

तते णं तीसे पोद्विलाए अन्नया कयाइ पुव्वरत्तावरत्तकालस० कुडुंबजागरियं० अयमेयारूवे अब्भ-  
त्थित्ते० एवं खल्ल अहं तेतलि० पुड्वि इट्ठा<sup>५</sup>, आसि इयाणि अणिट्ठा<sup>५</sup> जाव परिभोगं वा तं सेयं खल्ल  
मम सुव्वयाणं अज्जाणं अंतिए पव्वत्तिए, एवं संपेहेतिर कल्लं पाउ० जेणेव तेतलिपुत्ते तेणेव उवा०२  
करयलपरि० एवं व०-एवं खल्ल देवाणुप्पिया !, मए सुव्वयाणं अज्जाणं अंतिए धम्मे णिसंते जाव अब्भ-

णुन्नाया पव्वहत्तए, तते णं तेयलियुत्ते पोद्धिलं एवं व०-खल्ल तुमं देवानुप्पिए ! मुंडो पव्वइया समाणी कालमासे कालं किच्चा अन्नतरेसु देवलोएसु देवत्ताए उववज्जिहिसि, तं जति णं तुमं देवा०, ममं ताओ देवलोयाओ आगम्म केवलपन्नत्ते धम्ममे बोहिहि तोऽहं विसज्जेमि, अह णं तुमं ममं ण संबोहेसि तो ते ण विसज्जेमि; तते णं सा पोद्धिला तेयलियुत्तस्स एयमट्ठं पडिसुणेति, तते णं तेयलियुत्ते विपुलं असण४, उववखड्ढावेति२, भित्तणातिजावआमंतेइ२ जाव सम्माणेइ२ पोद्धिलं पहायं जाव पुरिससहस्सवाहणीयं सिअं दुरुहत्ता भित्तणाति जाव परिवुडे सव्विड्ढिए जाव रवेणं तेतलीपुत्तस्स मज्झंमज्जेणं जेणेव सुव्वयाणं उवस्सए तेणेव उवा० सीयाओ पच्चोरुहति २ पोद्धिलं पुरतो ऋडु जेणेव सुव्वया अज्जा तेणेव उवा- गच्छति२, वंदति-नमंसति२, एवं व०-एवं खल्ल देवा० !, मम पोद्धिला भारिया इट्ठा ५ एस णं संसार- भउव्विग्गा जाव पव्वतित्तए पडिच्छंतु णं देवा० ! सिरिसणिभिव्वलं दलयामि, अहासुहं मा० प०, तते णं सा पोद्धिला सुव्वर्याहं अज्जाहिं एवं वुत्ता समाणा हट्ठ० उत्तरपुर० सयमेव आभरणमल्लालंकारं ओसु- यति२ सयमेव पंचमुट्ठियं लोयं करेइ२, जेणेव सुव्वयाओ अज्जाओ तेणेव उवागच्छइ२, वंदति-नमंसति२, एवं व०-आलित्ते णं भंते !, लोए एवं जहा देवाणंदा जाव एक्कारस अंगां बहूणि वासाणि सामन्नपरि- यागं पाउणइ२, मासियाए संलेहणाए अत्ताणं झोसेत्ता सट्ठिं भत्ताइं अण० आलोइयपडि० समाहिं पत्ता

कालमासे कालं किञ्चा अन्नतरेसु देवलोएसु देवदत्ताए उववन्ना ॥ सूत्रम्-१०६ ॥ तते णं से कणगरहे राया  
 अन्नया कयाई कालघम्मुणा संजुत्ते यावि होत्था, तते णं राईसर जाव णीहरणं करेति २ अन्नमन्नं एवं  
 व०-एवं खलु देवाणु० ! कणगरहे राया रज्जे य जाव पुत्ते वियंगित्था, अम्हे णं देवा० ! रायाहीणा राया-  
 हिट्ठिया रायाहीणकज्जा अयं च णं तेतली अमच्चे कणगरहस्स रत्तो सब्बट्ठाणोसु सब्बभूमियासु लद्धपच्चए  
 दिन्नवियारे सब्बकज्जवट्ठावए यावि होत्था, तं सेयं खलु अम्हं तेतल्लिपुत्तं अमच्चं कुमारं जात्तिए त्तिकहु  
 अन्नमन्नस्स एयमट्ठं पडिसुणोत्ति२, जेणेव तेयल्लिपुत्ते अमच्चे तेणेव उवा०२, तेयल्लिपुत्तं एवं व०-एवं खलु  
 देवाणु० !, कणगरहे राया रज्जे य रट्ठे य जाव वियंगेह, अम्हे य णं देवाणु० ! रायाहीणा जाव रायाहीण-  
 कज्जा, तुमं च णं देवा० ! कणगरहस्स रत्तो सब्बट्ठाणोसु जाव रज्जधुराचिंतए, तं जइ णं देवाणु० ! अत्थि  
 केइ कुमारे रायलक्खणसंपन्ने अभिसेयारिहे तणं तुमं अम्हं दलाहि, जा णं अम्हे महया२ रायाभिसे-  
 एणं अभिसिंचामो, तए णं तेतल्लिपुत्ते तेसि ईसर० एतमट्ठं पडिसुणोत्ति२, कणगज्जयं कुमारं प्हायं जाव  
 सस्सिरीयं करेइ २ चा, तेसि ईसर जाव उवणेति२, एवं व०-एस णं देवा० !, कणगरहस्स रत्तो पुत्ते  
 पउमावतीए देवीए अत्तए कणगज्जए नामं कुमारे अभिसेयारिहे रायलक्खणसंपन्ने मए कणगरहस्स रत्तो  
 रहसियं संबड्ढिए, एयं णं तुम्भे महया २ रायाभिसेएणं अभिसिंचह, सब्बं च तेसि उट्ठाणपरियावणियं  
 परिकेहइ । तते णं ते ईसर० कणगज्जयं कुमारं महया २ अभिसिंचंति । तते णं से कणगज्जए कुमारे

राया जाए महया हिमवंतमलय० वणओ जाव रळं पसासेमाणे विहरइ । तते णं सा पउमावती देवी कणगज्झयं रायं सद्दावेति २ एवं व०-एस णं पुत्ता ! तव० रळ्जे जाव अंतेउरे य० तुमं च तेतल्लिपुत्तस्स पहावेणं, तं तुमं णं तेतल्लिपुत्तं अमच्चं आढाहि, परिजाणाहि, सम्माणेहि इंतं अब्भुद्धेहि इयं पज्जुवासाहि वच्चंतं पडिसंसाहेहि अद्धासणेणं उवणिमंतेहि भोगं च से अणुवड्ढेहि, तते णं से कणगज्झए पउमावतीए तहत्ति पडि० जाव भोगं च से वड्ढेति ॥ सूत्रम्-१०७ ॥

‘रायाहीणा’इत्यादि, राजाधीनाः राज्ञो दूरेऽपि वर्त्तमाना राजवशवर्त्तिन इत्यर्थः, राजाधिष्ठितास्तेन स्वयमध्यासिताः, राजाधीनानि-राजायत्तानि कार्याणि येषां ते वयं राजाधीनकार्याः, ‘सब्बं च से उट्ठाणपरियावणियं’ति-सर्वं च से-तस्म उत्थानं च-उत्पात्तं परियापनिका च-कालान्तरं यावत् स्थितिरित्युत्थानपरियापनिकं तत्परिक्रथयतीति, ‘वयंतं पडिसंसाहेहि’त्ति विनयप्रस्तावात् व्रजन्तं प्रतिसंसाधय-अनुव्रज, अथवा वदन्तं प्रति संश्लाघय-साधूक्तं साध्वित्येवं श्रंसां क्वचित्यर्थः, भोगं-वर्त्तनं ॥ १०७ ॥

तते णं से पोद्धिले देवे तेतल्लिपुत्तं अभिकखणं२, केवलपन्नते धम्मं संबोहेति, नो चेव णं से तेतल्लिपुत्ते संबुज्झति, तते णं तस्स पोद्धिलेदेवस्स इमेयारूवे अब्भत्थिते५, एवं खलु कणगज्झए राया तेयल्लिपुत्तं आढाति जाव भोगं च संबड्ढेति, तते णं से तेतली अभिकखणं२, संबोहिज्जमाणेवि धम्मं नो संबुज्झति, तं सेयं खलु कणगज्झयं तेतल्लिपुत्तातो विप्परिणामेत्तए त्तिकहु एवं संपेहेति२त्ता, कणगज्झयं तेत-



लिपुत्तातो विष्परिणामेह । तते णं तेतलिपुत्ते कल्लं णहाते जाव पायच्छित्ते आसखंधवगए बहूहिं पुरिसेहिं  
 संपरिबुद्धे सातो गिहातो निग्गच्छति२, जेणेव कणगज्झए राया तेणेव पहारेत्थ गमणाए, तते णं तेतलि-  
 पुत्तं अमखं जे जहा बहवे राईसरतलवर जाव पभियओ पासति ते तेहेव आढायंति, परिजाणंति,  
 अब्भुद्धंति३, अंजलिपरिगहं करंति, इट्ठाहिं कंताहिं जाव वग्गहिं आलवेमाणा य, संलवेमाणा य, पुरतो य,  
 पिट्ठतो य, पासतो य, मग्गतो य, समणुगच्छंति, तते णं से तेतलिपुत्ते जेणेव कणगज्झए तेणेव उवा-  
 गच्छति, तते णं कणगज्झए तेतलिपुत्तं एज्जमाणं पासति२, नो आढाति, नो परियाणाति, नो अब्भुद्धंति;  
 अणाढायमाणे ३, परम्भुहे संचिद्धति; तते णं तेतलिपुत्ते कणगज्झयस्स रत्तो अंजलिं करेह, तते णं से  
 कणगज्झए राया अणाढायमाणे, तुसिणीए, परम्भुहे संचिद्धति; तते णं तेतलिपुत्ते कणगज्झयं विष्परिणयं  
 जाणित्ता भीते जाव संजातभए, एवं व०-द्धे णं ममं कणगज्झए राया हीणे णं मम कणगज्झए राया  
 अवज्झाए णं कणगज्झए, तं ण नज्झ णं मम केणइ कुमारेण मारेहिति त्तिकट्ठु भीते तत्थे य जाव सणियं  
 २, पबोसक्कोति२, तमेव आसखंधं दुरुहेति२, तेतलिपुरं मज्झमज्झेणं जेणेव सए गिहे तेणेव पहारेत्थ  
 गमणाए; तते णं तेयलिपुत्तं जे जहा ईसर जाव पासति ते तेहा नो आढायंति, नो परियाणंति, नो  
 अब्भुद्धंति, नो अंजलिं, इट्ठाहिं जाव णो संलवंति नो पुरओ य, पिट्ठओ य, पासओ य, ( मग्गतो य ),  
 समणुगच्छंति; तते णं तेतलिपुत्ते जेणेव सए गिहे तेणेव उवागच्छति, जावि य से तत्थ बाहिरिया परिसा

भवति, तं०-दासेति वा, पेसेति वा, भाइल्लएति वा, सावि य णं नो आढाइ २, जाविय से अङ्गिभत्तरिया परिसा भवति, तंजहा-पियाइ वा, माताति वा, जाव सुणहाति वा, साविय णं वा नो आढाइ ३; तत्ते णं से तेतल्लियुत्ते जेणेव वासघरे जेणेव सए सयणिल्ले तेणेव उवागच्छति २, सयणिल्लंसि णिसीयति २, एवं व०-एवं खल्ल अहं सयातो णिहातो निगगच्छामि, तं चेंव जाव अङ्गिभत्तरिया परिसा नो आढाति, नो परियाणाति, नो अ०सुट्टेति, तं सेयं खल्ल मम अप्पाणं जीवियातो ववरोवित्तए स्तिकडु एवं संपेहेति २, तालउडं विसं आसंगंसि पक्खिवति, से य विसे णो संकमति; तत्ते णं से तेतल्लियुत्ते नील्लुप्पल जाव असिं खंधे ओहरति, तत्थवि य से धारा ओपह्छा; तत्ते णं से तेतल्लियुत्ते जेणेव असोगवणिया तेणेव उवागच्छति २, पासंगं गीवाए बंधति २, रुक्खं दुरूहति २, पासं रुक्खे बंधति २, अप्पाणं सुयति, तत्थवि य से रज्जू छिन्ना; तत्ते णं से तेतल्लियुत्ते महतिमहालयं सिलं गीवाए बंधति २, अत्थाहमतारमपोरिसियंसि उदगंसि अप्पाणं सुयति, तत्थवि य से अगणिकाए विज्झाए; तत्ते णं से तेतली एवं व०-सद्धेयं खल्ल, भो समणा वयंति सद्धेयं खल्ल, भो माहणा वयंति सद्धेयं खल्ल, भो समणा माहणा वयंति; अहं एगो असद्धेयं वयामि, एवं खल्ल अहं सह पुत्तेहिं अपुत्ते को मेदं सहहिस्सति !, सह भित्तेहिं अभित्ते को मेदं सहहिस्सति !, एवं अत्थेणं दारेणं दासेहिं परिज्जेणं, एवं खल्ल तेयल्लियुत्ते णं अ० कणगज्झएणं रत्ता अवज्झाएणं समाणेणं तेयल्लियुत्ते तालुडणे विसे आसंगंसि पक्खित्ते सेविय णो कमति को मेयं सहहिस्सति !, तेतल्लियुत्ते नील्लुप्पल

जाव खंधसि ओहरिए तथविय से धारा ओपछा को मेदं सदहिससति !, तेतलियुत्तस पासगं गीवाए बंधेत्ता  
 जाव रज्जू छिन्ना को मेदं सदहिससति !, तेतलियुत्ते महासिलयं जाव बंधित्ता अत्थाह जाव उदगंसि  
 अप्पा सुक्के तथविय णं थाहे जाए को मेयं सदहिससति !, तेतलियुत्ते सुक्कंसि तणकूडे, अग्गी विज्झाए,  
 को मेदं सदहिससति !; ओहतमणसंकप्पे जाव क्षियाह । तते णं से पोदिले देवे पोदिलारूवं विउब्बतिर,  
 तेतलियुत्तस अदूरसामंते ठिच्चा एवं व०-हं भो । तेतलियुत्ता !, पुरतो पवाए, पिट्टओ हत्थिभयं दुहओ  
 अचक्खुफासे मज्झे सराणि वरिसयंति, गामे पलित्ते, रत्ते क्षियाति, रत्ते पलित्ते गामे क्षियाति; आउसो !,  
 तेतलियुत्ता !, कओ वयामो !; तते णं से तेतलियुत्ते पोदिलं एवं वयासी-भीयस्स खलु भो !, पव्वञ्जा  
 सरणं, उक्कंटियस्स सदेसगमणं, छुहियस्स अन्नं, तिसियस्स पाणं, आउरस्स भेसज्जं माइयस्स रहस्सं,  
 अभिजुत्तस्स पच्चयकरणं, अद्धानपरिसंतस्स वाहणगमणं, तरिउकामस्स पवहणं; किच्चं परं अभिओजि-  
 तुकामस्स सहायकिच्चं खंतस्स दंतस्स जित्तिदियस्स एत्तो एगमवि ण भवति, तते णं से पोदिले देवे  
 तेयलियुत्तं अमच्चं एवं व०-सुहु णं तुमं तेतलियुत्ता ! एयमट्ठं आयाणिहि त्तिक्कहु दोच्चंपि एवं वयइर, जाम्भेव  
 दिसं पाउब्भूए तामेव विसि पडिगए ॥ सूत्रम्-१०८ ॥ तते णं तस्स तेयलियुत्तस्स सुभेणं परिणामेणं  
 जाइसरणे समुप्यत्ते, तते णं तस्स तेयलियुत्तस्स अयमेयारूवे अब्भत्थिते ५, समु०-एवं खलु अहं इहेव  
 जंबुदीवेर, महाविदेहे वासे पोक्खलावतीविजये पौडरीणितीते रायहाणीए महापउमं नामं राया होत्था;

तते णं अहं थेराणं अंतिए सुंढे भवित्ता जाव चोइस पुब्बार्तिं०, बहूणि वासाणि सामन्नपरियाए०, मासि-  
याए०, संलेहणाए, महासुक्के कप्पे देवे; तते णं अहं ताओ देवलोयाओ आउक्खएणं इहेव तेयलिपुरे तेय-  
लिस्स अमच्चस्स भदाए भारियाए दारगत्ताए पच्चायाते; तं सेयं खल्लु मम पुब्बदिट्ठाइं महव्वयाइं समयमेव  
उवसंपल्लित्ताणं विहरित्तए, एवं संपेहेति२ समयमेव महव्वयाइं आरुहेति२, जेणेव पमयवणे उज्जाणे तेणेव  
उवा०२, असोगवरपायवस्स अहे पुढविसिलापट्टयंसि सुहनिसन्नस्स अणुच्चित्तमाणस्स पुब्बाहीयातिं  
सामाइयमातियाइं चोइसपुब्वाइं समयमेव अभिसमन्नागयाइं, तते णं तस्स तेयल्लियुत्तस्स अणगारस्स  
सुभेणं परिणामेणं जाव तयावरणिज्जाणं कम्ममाणं खओवसमेणं कम्मरयविकरणकरं अपुब्बकरणं पविट्टस्स  
केवलवरणाणदंसणे ससुप्पन्ने ॥ सूत्रम्-१०९ ॥ तए णं तेतलिपुरे नगरे अहासत्तिहिइहिं वाणमंतरेइिं देवेहिं  
देवीहि य देवदुंडुभीओ समाहयाओ दसद्धवन्ने कुसुमे निवाइए, दिव्वे गीयगंधव्वनिनाए कए यावि  
होत्था, तते णं से कणगज्झए राया इमीसे कहाए लद्धे, एवं व०-एवं खल्लु तेतलिं मए अवज्झाते सुंढे  
भवित्ता पव्वतिते तं गच्छामि णं तेयल्लियुत्तं अणगारं वंदामि-नमंसामि २, एयमट्ठं विणएणं सुज्जो२,  
खामेमि; एवं संपेहेति२, ण्हाए चाउरंगिणीए सेणाए जेणेव पमयवणे उज्जाणे जेणेव तेतलिपुत्ते अणगारं  
तेणेव उवागच्छति२, तेतलिपुत्तं अणगारं वंदति-नमंसति२, एयमट्ठं च विणएणं सुज्जो२ खामेइ नच्चासन्ने  
जाव पज्जुवासइ; तते णं से तेयल्लियुत्ते अणगारे कणगज्झयस्स रत्तो तीसे य महइ० धम्मं परिकेहेइ,

तते णं से कणजस्ये राया तेतलिपुत्तस्स केवलस्स अंतिए धम्मं सोचा णिसम्म पंचाणुब्बइयं सत्तसिक्खा-  
 वइयं सावगधम्मं पडिवज्जइर, समणेवासए जाते जाव अहिगयजीवाजीवे । तते णं तेतलिपुत्ते केवली  
 बड्डणि वासाणि केवलपरियागं पाडणित्ता जाव सिद्धे । एवं खलु जंबू ! भगवया समणेणं महावीरेणं  
 चोइसमस्स नायजस्यणस्स अयमट्ठे पन्नत्ते, तिबेमि ॥ सूत्रम्-११० ॥ चउदसमं अज्झयणं समत्तं ॥ १४ ॥

‘कूटे ण’मित्यादौ, हीनोऽयं मम शील्येति गम्यते, अपच्यतो-दुष्टचिन्तावान् ममेति-ममोपरि कनकध्वजः, पाठान्तरेण  
 दुष्यतोऽहं-दुष्टचिन्ताविषयीकृतोऽहं कनकध्वजेन राज्ञा, तव-तस्मान्न ज्ञायते केनापि कुमारेण-विरूपमारणप्रकारेण मारयिष्य-  
 तीति ‘खंधंसि उवहरइ’ इति-स्कन्धे उपहरति विनाशयतीति, ‘घारा ओपल्ल’त्ति-अपदीर्णा कुण्ठीभूतेत्यर्थः; ‘अत्थाहं’ति-  
 अस्तं-निरस्तमविद्यमानमघस्त्वं प्रतिष्ठानं यस्य तदस्तांघं स्ताघो वा-प्रतिष्ठानं तदभावादस्तांघं, अतारं यस्य तरणं  
 नास्ति पुरुषः परिमाणं यस्य तत्पौरुष्यं तन्निषेधादपौरुष्यं ततः पदत्रयस्य कर्मधारयो, मकारौ च प्राकृतत्वात्; अतस्तत्र,  
 ‘सद्धेय’मित्यादि, श्रद्धेयं श्रमणा वदन्ति आत्मपरलोकगुण्यपापादिकमर्थजातं, अतीन्द्रियस्यापि तस्य प्रमाणाबाधितत्वेन  
 श्रद्धानगोचरत्वात्, अहं पुनरेकोऽश्रद्धेयं वदामि पुत्रादिपरिवारयुक्तस्यात्यर्थं राजसम्मतस्य च अनुत्रादित्वमराजसम्मतत्वं  
 च विषखड्गपाशकजलाग्निभिरहिंस्यत्वं चात्मनः प्रतिपादयतो मम युक्तिबाधितत्वेन जनप्रतीतेरविषयत्वेनाश्रद्धेयत्वादिति  
 प्रस्तुतसन्नभावना, ‘तए ण’मित्यादि, हं सो !, इत्यामन्त्रणे, पुरतः-अप्रतः, प्रपातो-गर्त्तः पृष्ठतो हस्तिभयं, ‘बुहओ’त्ति-  
 उभयतः अचलुःस्पर्शः--अन्धकारं मध्ये-मध्यभागे यत्र वयमास्महे तत्र शरा-बाणा निपतन्ति, ततश्च सर्वतो भयं वर्त्तते इत्यर्थः;

नवाङ्गी-  
३० पु०  
श्रीजाता-  
धर्मकथाज्ञे

॥ १९९ ॥

तत्रात्मनोऽपि न च लसि; अस्मिन्नुपशान्तदहं वचते, अथवा-स्यायतीव ध्यायति, अग्नरविध्यानेन जागर्त्ती-  
वित्तमन्त्राणां शान्त-अरण्यं-पक्षिं आसौ स्वमायते; न विभ्रयायति, एवं-सर्वस्वापि भयानकत्वात् स्थानान्तरस्य चाभावादायुष्मं-  
स्तेनास्त्रिभुक्तः, 'कळ'ति-कञ्जसः-१, भीतिगन्तव्यमस्माभिरिधान्येनापि भवतीति प्रश्नः, उत्तरं च भीतस्य प्रव्रज्या शरणं  
भक्त्यति-प्रत्यये, यथोल्कण्ठिवासीनां स्वदेशशमनादीनि, तत्र 'छु'हियस्स'चि-बुभुक्षितस्य मायिनो-बंधकस्य रहस्यं-गुप्तत्वं  
प्रशामिति सर्वत्र गमनीयं, अभियुक्तस्य-सम्पादितदूषणस्य प्रत्ययकरणं-दूषणापोहेन प्रतीत्युत्पादनं अध्वानं अरियतो (अध्व-  
परिश्रान्तस्य)-गन्तुमशक्तस्य वाहनगमनं-शकटाद्यारोहणं तरीतुकामस्य नद्यादिकं प्लवनं-तरणं कृत्यं-कार्यं यस्य तत् प्लव-  
नकृत्यं-तरकाश्रं परमभिद्योक्तुकामस्य-अभिभवितुकामस्य सहायकृत्यं-मित्रादिकृतं सहायकर्मति, अथ कथं भीतस्य प्रव्रज्या  
शरणं भवति, अत उच्यते-'खते'त्यादि, शान्तस्य क्रोधनिग्रहेण, दान्तस्येन्द्रियनोहन्द्रियदमेन, जितेन्द्रियस्य विषयेषु रागादि-  
निरोद्धुः, 'एतो'ति-एतेभ्योऽनन्तरोदितेभ्योऽग्रतः प्रपातादिभ्यो भयेभ्यः एकमपि भयं न भवति, प्रव्रजितस्य सामाधिक्यपरि-  
णत्या शरीरादिषु निरभिवृत्त्वात् मरणादिभयाभावादिति, एवं देवेनामात्यः स्वभावा भीतस्य प्रव्रज्या श्रेयसीत्यभ्युपगमं कार-  
यित्वा एवमुक्तः 'सुहु'इत्यादि, अयमर्थो-भीतस्य प्रव्रज्या शरणमिति, यदि प्रतिज्ञायते तदा सुष्ठु ते मतं, भयाभिभूतस्त्वभि-  
दानीमसीति-एतमर्थमाजानीहि-अनुष्ठानद्वारेणावबुध्यस्व प्रव्रज्यां विधेहीतियावत् । इह च यद्यपि सूत्रे उपनयो नोक्तः तथा-  
प्येवमुक्तः, -जब न दुक्खं पत्ता माण्णंसं च पाणिणो पायं । ताव न धम्मं गेहंति भावओ तेयलीसुउव ॥ १ ॥

समाप्तमिदं चतुर्दशशाखाध्ययनविचरणम् ॥ १४ ॥

सां-प्राणिनः-मायेण-तावच्च धर्मं शुक्लन्ति भावतः, यावहुःखं न प्राप्ता मानभ्रंशं च तेतल्लिसुतवत् ॥ १ ॥

१४-भी-  
तेतलि०  
ज्ञाताध्य०  
तेतलि-  
पुत्रस्य  
विचारणादि  
स्वरूपम् ।

॥ १९९ ॥

## ॥ १५-श्रीनन्दीफलाख्यं ज्ञाताध्ययनम् ॥

अधुना पञ्चदशं विव्रियते, अस्य चैवं पूर्वेण सह सम्बन्धः-पूर्वस्मिन्नपमानाद्विषयत्यागः प्रतिपादितः, इह तु जिनोपदे-  
शात्, तत्र च सत्यर्थप्राप्तिस्तद्वाषे-त्वनर्थप्राप्तिरभिधीयत इत्येवंसम्बद्धमिदम्—

जति णं भंतेः!, चोद्दसमस्स नायज्झयणस्स अयमट्ठे पणत्ते, पन्नरसमस्स के अट्ठे पन्नत्ते !; एवं खलु  
जंजु !, तेणं काळेणंर, चंपा नाम नयरी होत्था, पुन्नभहे चेहए, जियसत्तू राया; तत्थ णं चंपाए नयरीए घण्णे  
णामं सत्थवाहे होत्था, अट्ठे जाव अपरिभूए; तीसे णं चंपाए नयरीए उत्तरपुरच्छिमे दिसिभाए अहि-  
च्छत्ता नाम नयरी होत्था, रिद्धत्थिमियसमिद्धा वन्नओ; तत्थ णं अहिच्छत्ताए नयरीए कणगकेउ नामं  
राया होत्था; महया वन्नओ, तस्स घण्णस्स सत्थवाहस्स अन्नदा कदाह पुब्बरत्तावरत्तकालसमयंसि इमे-  
यारूवे अब्भत्थिते चित्तिए पत्थिए मणोणए संकप्पे ससुप्पज्जित्था-सेयं खलु मम विपुलं पणियमंडमा-  
याए अहिच्छत्तं-नगरं वाणिज्जाए गमित्तए, एवं संपेहेत्तिर, गणिमं च ४ चउव्विहं भंडं गेणहहर, सगडी-  
सागडं सज्जेहर, सगडीसागडं भरेत्तिर, कोडुंबिययुरिसे सद्दवेत्तिर, एवं व०-गच्छह णं तुब्भे देवा० !  
चंपाए नगरीए सिंघाडग जाव पहेसुं एवं खलु देवाणु० ! घण्णे सत्थवाहे विपुले पणिय० इच्छति, अहि-  
च्छत्तं नगरं वाणिज्जाए गमित्तते, ते जो णं देवाणु० !, चरए वा चीरिए वा, चम्मखंडिए वा, भिच्छुंडे वा  
पंडुरगे वा, गोतमे वा, गोवतीते वा, गिहिधम्ममे वा, गिहिधम्मचित्तए वा, अचिरुद्धविरुद्धुडुसावगरत्तपड-

नवाङ्गी-  
३० वृ०  
श्रीश्रीता-  
धर्मकथाङ्गे

॥ २०० ॥

निगन्थप्यभितिपासंडत्ये वा, गिहत्ये वा, तस्स णं घण्णेणं सद्धिं अहिच्छत्तं नगरिं गच्छह; तस्स णं घण्णे अच्छत्तगस्स छत्तगं दलाइ अणुवाहणस्स उवाहणाउ दलयह, अङ्कुडियस्स कंडियं दलयह, अपत्थय-  
-णस्स पत्थयणं दलयह, अपक्खेवगस्स पक्खेवं दलयह, अंतराडविय से पडियस्स वा भग्गलुग्गसा-  
हेल्लं दलयति, सुहंसुहेण य णं अहिच्छत्तं संपवेति त्तिकहु दोचंपि तच्चंपि घोसेह२, मम एयमाणत्तियं पच्चप्पिणह; तते णं ते कोडुंबियपुरिसा जाव एवं व०-हंदि सुणंतु भगवंतो चंपानगरीवत्थव्वा बहवे चरणा य जाव पच्चप्पिणंति, तते णं से कोडुंबियघोसणं सुच्चा चंपापे णयरीए बहवे चरणा य जाव गिहतथा य जेणेव घण्णे सत्थवाहे तेणेव उवागच्छन्ति, तते णं घण्णे तेसिं चरणेण य जाव गिहतथाण य अच्छत्तगस्स छत्तं दलयह जाव पत्थयणं दलाति, गच्छह णं तुब्भे देवाणुप्पिया १, चंपापे नयरीए बहिया अग्गुल्लाणंसि ममं पडिवाल्लेमाणा चिट्ठह, तते णं चरणा य० घण्णेणं सत्थवाहेणं एवं बुत्ता समाणा जाव चिट्ठति, तते णं घण्णे सत्थवाहे सोहणंसि तिहिकरणक्खत्तंसि चिपुलं असणं ४ उवक्खडावेह२ ता, भित्तनाई आमंतेति२, भोयणं भोयांवेति२, आपुच्छति२, सगडीसागडं जोयावेति२, चंपानगरीओ निगच्छति; णाहविप्पगिट्ठिहं अद्धाणेहिं वसमाणे२ सुहेहिं वसहिपायरासेहिं अंगं जणवयं मज्झंमज्झेणं जेणेव देसगं तेणेव उवाग-  
च्छति२, सगडीसागडं मोयांवेति२, सत्थणिवेसं करेति२, कोडुंबियपुरिसे सद्दावेतिं; एवं व-तुब्भे णं देवा०

१ ०ति २ ता ए० अ ।

१५-श्री-  
नन्दी०  
ज्ञाताच्य०  
सार्थवाह-  
प्रवासादि-  
वर्णन-  
सूत्रम् ।

॥ २०० ॥



मम सत्थनिवेशंसि महयार, सदेणं उग्घोसेमाणार, एवं वदह-एवं खलु देवाणु० ! इमीसे आगामियाए  
छिन्नावायाए वीहमद्धाए अडवीए बहुमज्झदेसभाए बहवे णंदिफला नामं रुक्खा पन्नत्ता, किण्हा जाव  
पत्तिया, पुप्फिया, फलिया, हरियरेरिज्जमाणा सिरीए अईव अतीव उवसोभेमाणा चिडंति, मणुण्णा वनेणं ४  
जाव मणुन्ना फासेणं मणुन्ना छायाए, तं जो णं देवाणुप्पिया ! तेसि नंदिफलाणं रुक्खाणं मूलाणि वा कंद०  
तय० पत्त० पुप्फ० फल० बीयाणि वा हरियाणि वा आहारेति छायाए वा वीसमति, तस्स णं आवाए भइए  
भवति, ततो पच्छा परिणममाणार, अकाले चैव जीवियातो ववरोवेंति, तं मा णं देवाणुप्पिया ! केह तेसि  
नंदिफलाणं मूलाणि वा जाव छायाए वा वीसमउ, मा णं सेऽपि अकाले चैव जीवियातो ववरोचिज्जिस्सति;  
तुब्भे णं देवाणु० ! अत्तेसि रुक्खाणं मूलाणि य जाव हरियाणि य आहारेण छायासु वीसमहत्ति घोसणं  
घोसेह जाव पच्चप्पिणंति, तते णं घण्णे सत्थवाहे सगडीसागडं जोएतिर, जेणेव नंदिफला रुक्खा तेणेव  
उवागच्छतिर, तेसि नंदिफलाणं अदूरसामंते सत्थणिवेसं करेतिर, दोच्चंपि तच्चंपि कोडुंबिययुरिसे सद्दा-  
वेतिर, एवं व०-तुब्भे णं देवाणु० !, मम सत्थनिवेशंसि महता सदेणं उग्घोसेमाणार, एवं वयह-एए णं  
देवाणु० ! ते णंदिफला किण्हा जाव मणुन्ना छायाए तं जो णं देवाणु० ! एएसि णंदिफलाणं रुक्खाणं  
मूलाणि वा कंद० पुप्फ० तय० फल० जाव अकाले चैव जीवियाओ ववरोवेंति, तं मा णं तुब्भे जाव दूरं  
दूरेणं परिहरमाणा वीसमह, मा णं अकाले जीवितातो ववरोचिस्संति, अत्तेसि रुक्खाणं मूलाणि य जाव

वीसमहत्ति कहु घोसणं पच्चप्पिणंति, तत्थ णं अत्थेगइया पुरिसा धणणस्स सत्थवाहस्स एयमट्ठं सइहंति जाव रोयंति, एयमट्ठं सइहमाणा तेसिं नंदिफलाणं दूरं दूरेण परिहरमाणा२, अत्थेमिं रुक्खाणं मूलाणि य जाव वीसमंति, तेसिं णं आवाए नो भइए भवति, ततो पच्छा परिणममाणा२, सुहरूवत्ताए ५ सुज्जो२, परिणमंति; एवामेव समणाउसो ! जो अमहं निगंथो वा२ जाव पंचसु कामगुणेषु नो सज्जेति, नो रज्जेति; से. णं इह भवे चेव बहूणं समणाणं ४ अच्चणिल्ले परलोए नो आगच्छति जाव वीतीवतिस्सति; तत्थ णं जे से. अप्पेगतिया पुरिसा धणणस्स एयमट्ठं नो सइहंति३, धणणस्स एतमट्ठं असइहमाणा२, जेणेव ते नंदिफला तेणेव उवागच्छंति२, तेसिं नंदिफलाणं मूलाणि य जाव वीसमंति, तेसिं णं आवाए भइए भवति, ततो पच्छा परिणममाणा जाव बवरोवेंति, एवामेव समणाउसो ! जो अमहं निगंथो वा निगंथी वा पच्चवतिए पंचसु कामगुणेषु सज्जेति३ जाव अणुपरियट्ठिस्सति जहा व ते पुरिसा, तते णं से धण्णे सगडीसागडं जोया वेसिं३ जेणेव अहिच्छसा नगरी तेणेव उवागच्छति२, अहिच्छत्ताए णयरीए बहिया अगुज्जाणे सत्थनिवसें णमेसिं२, सगडीसागडं मोयावेइ; तए णं से धण्णे सत्थवाहे महत्थं३, रायरिहं पाहुडं गेणहइ२, बहुपुरिसेहिं तसिं३ संघसिंहुटे. अहिच्छत्तं नयरं मज्झमज्जेणं अणुपपविसइ, जेणेव कणगकेऊ राया तेणेव उवागच्छति, कणगकेऊ-जाव अस्सवेइ, तं महत्थं३, पाहुडं उबणेइ; तए णं से कणगकेऊ राया हट्टुट्टु० धणणस्स सत्थवा- हट्टुत्तं३, जाव पच्छिच्छइ२, धण्णं सत्थवाहं सकारेइ, सम्माणेइ२, उस्सुकं वियरति २, पड्डिविस-

जिह्वः भङ्गविणिसयं करोइ२, पडिभङ्गं गेण्हति२, सुहंसुहेणं जेणेव चंपानयरी तेणेव उवागच्छति२, मित्त-  
नाति० अभिसमन्नागते विपुलाइं माणुस्सगाइं जाव विहरति; तेणं कालेणं २ थेरागमणं धण्णे धम्मं  
सोच्चा, जेइपुत्तं कुडुंबे ठावेत्ता पव्वइए एक्कारस सामाइयातिं अंगतिं बहूणि वासाणि जाव मासियाए सं०  
अन्नतरेसु देवलोएसु देवत्ताए उवबन्ने, महाविदेहे वासे सिञ्झिहिति जाव अंतं करोति । एवं खल्लु जंबू !,  
स्सम्पण्णेणं भगवया महावीरेणं पन्नरसस्स नायज्झयणस्स अयमठ्ठे पण्णत्ते त्ति बेमि ॥ सूत्रम्-१११ ॥  
पन्नरससं नायज्झयणं समत्तं ।

सर्व-सुगमं नवरं 'चरए वे' त्यादि, तत्र चरको-धाटिमिक्षाचरः, चीरिको-रथ्यापतितचीवरपरिधानः, चीरोपकरण  
इत्यन्ये-वर्षखण्डकः-चर्मपरिधानः, चर्मोपकरण इति चान्ये; भिक्षाण्डो-भिक्षामोजी सुगतशासनस्थ इत्यन्ये, पाण्डुरागः-शैवः,  
गोप्तमः-लघुतराक्षमालाचर्चितविचित्रपादपतनादिशिक्षाकलापवद्दुष्प्रसक्तोपायतः कणभिक्षाग्राही गोत्रतिकः-गोश्रयानुकारी,  
उक्तं च-"गौवीहिं समं निगमपवेसठणासणाइ पक्कंति सुंजंति । जहा गावी तिरिक्खवासं विभावता ॥१॥ गृहिधर्मा-गृहस्थ-  
धर्म एक्क श्रेयसित्थमिसन्धाय तवथोक्तकारी धम्ममिन्वत्तको-धर्मसंहितापरिज्ञानवान् सभासदः अविरुद्धो-वैनयिकः, उक्तं च-  
"अविरुद्धो विणयकारी देवाइणं पराए भचीए । जह वेसियायणसुओ एवं अबेवि नायवा ॥ २ ॥" विरुद्धो-अक्रियावादी

सा० १ गोभिः समं प्रवेशनिर्गमस्थानासनादि प्रकुर्वन्ति । मुजन्ति यथा गावस्तिर्यग्वासं विभावयन्तः ॥ १ ॥

२ अविरुद्धो विनयकारी देवादीनां परया भक्त्वा । यथा वैश्यायनसुत एवमन्येऽपि ज्ञातव्याः ॥ २ ॥

परलोकानभ्युपगमात् सर्ववादिभ्यो विरुद्धः, एवं बृद्धः-तापस प्रथमश्रुत्यभक्तत्वात् प्रायो बृद्धकाले च दीक्षाप्रतिपत्तेः श्रावको-  
ब्राह्मणः, अन्ये तु बृद्धश्रावक इति व्याचक्षते, स च ब्राह्मण एव, रक्तपटः-परिव्राजको निर्भन्धः-साधु प्रश्रुतिग्रहणात् कापि-  
लादिपरिग्रह इति, 'पत्थयणं'ति पथ्यदने-शुम्बलं 'पक्खिवं' ति अर्द्धपथे नृटितशुम्बलस्य शुम्बलपूर्णं द्रव्यं प्रक्षेपकः,  
'पच्छियस्स' ति वाहनात्पतितस्य रोगो वा पतितस्य, 'अगगरुग्गस्स' ति वाहनात् स्खलनाद्वा पतने भग्नस्य रुग्णस्य  
च जीर्णतां गतस्येत्यर्थः, 'हंदि' ति-आमन्त्रणे, 'नाइविगिट्ठेहि' अद्धाणेहि 'ति-नातिविप्रकृष्टेषु-नातिदीर्घेष्वध्वसु-  
प्रयाणकमार्गेषु बसन् शुभैरनुकूलैः 'वसत्तिप्रातराशौ'-आवासस्थानैः प्रातर्भोजनकालैश्चेत्यर्थः, 'देस्सग्ं'ति-देशान्तं ।  
इहोपनयः द्धन्नाभिहित एव, विशेषतः पुनरेवं तं प्रतिपादयन्ति-"चंपा इव मणुयगती धणोव भयवं जिणो दएक्करसो ।  
अहिच्छानयारिसमं इह निव्वाणं सुणोयव्वं ॥ १ ॥ घोसणया इव तित्थंकरस्स सिवसग्गदेसणमहव्वं । चरगाहणोव इत्थं सिव-  
सुहकामा जिया बहवे ॥ २ ॥ नंदिफलाइ व्व इहं सिवपहपडिच्चणगाण विसया उ । तब्बमक्खणाओ मरणं जह तह विसएहि  
संसारो ॥ ३ ॥ तव्वज्जेण जह इहपुरगमो विसयवज्जेण तहा । परमानंदनिबंधणसिवपुरगमं सुणोयव्वं ॥ ४ ॥

समाप्तमिदं पञ्चदशज्ञातविवरणम् ॥ १५ ॥

सा० चम्पेव मनुष्यगतिर्धन इव भगवान् जिनो दयैकरसः अहिच्छत्रानगरीसममिह निर्वाणं ज्ञातव्यं ॥ १ ॥ घोषणमिव तीर्थंकरस्य शिवमार्गदेशन-  
मनधं । चरकादिवदन्न शिवसुखकामा जीवा बहवः ॥ २ ॥ नन्दीफलानीवेह शिवपथप्रतिपत्तानां विषयाः । तद्भक्षणत् मरणं यथा तथेह विषयैः संसारः  
॥ ३ ॥ तद्भजेनेनेच्छपुरगमो यथा विषयवर्जनेन तथा । परमानन्दनिबन्धनशिवपुरगमं ज्ञातव्यं ॥ ४ ॥

## ॥ १६-श्रीअपरकङ्कार्ख्यं ज्ञाताध्ययनम् ॥

अथ षोडशं व्याख्यायते, अस्य च पूर्वेण सहायमभिसम्बन्धः—पूर्वत्र विषयामिष्वङ्गस्यानर्थफलतोक्ता, इह तु तद्विषय-  
निदानस्य सोच्यते इत्येवंसम्बद्धमिदम्—

जति णं भंते ! स० अ० म० पद्भरसमस्स नायज्झयणस्स अयमट्ठे प० सोलसमस्स णं णायज्झयणस्स  
णं सम० भग० महा० के अट्ठे पण्णत्ते ? एवं खल्ल जंबू ! तेणं कालेणं २ चंपा नाम नयरी होत्था, तीसे णं  
चंपाए नयरीए बहिया उत्तरपुरच्छिमे दिसिभाए सुभूमिभागे उज्जाणे होत्था, तत्थ णं चंपाए नयरीए तओ  
माहणा भातरो परिचसंति, तंजहा-सोमे, सोमदत्ते, सोमभूती; अट्ठा जाव रिउब्बेद ४ जाव सुपरिनिट्ठिया,  
तेसि णं माहणाणं तओ भारियातो होत्था, तं-नागसिरी, जक्खसिरी; सुकुमाल जाव तेसि णं  
माहणाणं इट्ठाओ विपुले माणुस्सए जाव विहरंति । तते णं तेसि माहणाणं अन्नया कयाई एणयओ  
समुवागयाणं जाव इमेयारूवे मिहो कहासमुल्लोवे समुप्पज्जित्था, एवं खल्ल देवाणुण्डिया ! अम्हं इमे विपुले  
घणे जाव सावतेज्जे अलाहि जाव आसत्तमाओ कुलवंसाओ पकामं दाउं पकामं भोत्तुं पकामं परिभाए०  
तं सेयं खल्ल अम्हं देवाणु० अन्नमन्नस्स गिहेसु कल्लकल्लिं विपुलं असणं ४ उवक्खडेउं २ परिभुंजमाणानं  
विहरित्तए, अन्नमन्नस्स एयमट्ठं पडिसुणेंति, कल्लकल्लिं अन्नमन्नस्स गिहेसु विपुलं असण ४ उवक्खडावेति

नवाङ्गी-  
 ३० ३०  
 श्रीज्ञाता-  
 र्थकथाज्ञे

॥ २०३ ॥

२ पशुंशुब्धाणां विहरंति; तते णं तीसे नागसिरिए माहगीए अघ्घदा भोयणवारए जाते यावि होत्था, तते णंःसः नागसिरी विपुलं असणं ४, उवक्खडेति २; एणं महं सालतियं तित्तालाउअं बहुसंभारसंजुत्तं णेहाव-  
 गाहं उवक्खड्ढावेत्ति; एणं विट्ठयं करयलंसि आसाएइ तं खारं कडुयं अक्खलं अ भोज्जे विसम्भूयं जाणित्ता  
 एणं व०-धिरत्थु णं मम नागसिरीए अहन्नाए अयुत्ताए दूभगाए दूभगसत्ताए दूभगणिबोलियाए जीए णं  
 मएः सखलएः बहुसंभारसंभिए नेहावगाडे उवक्खड्ढिए सुबहुदव्वक्खएणं, नेहक्खए य कए, तं जति णं  
 मणं जाखयाओ जाणिसंति, तो णं मम खिसिस्संति, तं जाव ताव ममं जाउयाओ ण जाणंति ताव मम  
 सेयं. एणं सालतियं तित्तालाउ बहुसंभारणेहकयं एणंते गोवेत्ताए, अन्नं सालहयं महुरालाउयं जाव  
 नेहावगाहं उवक्खडेत्ताए, एवं संयेहेति २ तं सालतियं जाव गोवेह, अन्नं सालतियं महुरालाउयं उव-  
 क्खडेह; तेसिः माहणणं णहायाणं जाव सुहासणवरगयाणं तं विपुलं असण ४, परिवेसेत्ति; तते णं  
 ते माह्मा-खिमित्तसुत्तरागया समाणा आयंता चोक्खा परमसुहभूया सकम्मसंपत्ता जाया यावि  
 होत्था, तते णं ताओ माहणीओ णहायाओ जाव विभूसियाओ तं विपुलं असण ४, आहरंति २;  
 जेणेव सयाइं २ गेहाइं तेणेव उवा० २ सकम्मसंपत्तातो जायातो सूत्रम्-११२ ॥ तेणं कालेणं २,  
 घम्मघोसा नाम थेरा जाव बहुपरिवारा, जेणेव चंपा नामं नगरी, जेणेव सुभूमिभागे उज्जाणे, तेणेव  
 उवा० २ अहापडिरूवं जाव विहरंति, परिसा निग्गया, घम्मो कहिओ, परिसा पडिग्गया; तए णं

१६-श्री-  
 अ२०  
 ज्ञाताध्य०  
 ब्राह्मण-  
 भोजनादि-  
 वर्णन-  
 सूत्रम् ।

॥ २०३ ॥

तेऽसि धम्मघोसणं थेराणं अंतैवासी. धम्मरुई नाम अणगारे ओगळे जाव तेउलेस्से मासं मासेणं खम-  
 माणे विहरति, तते णं से धम्मरुई अणगारे मासखमणपारणंगंसि पढमाए पोरिसीए सज्झायं करेइ,  
 २ बीक्काए पोरिसीए एवं जहा गोयमसामी तद्देव उग्गाहेति २ तद्देव धम्मघोसं थेरं आपुच्छइ जाव चंपाए  
 नयरीए उचनीयमज्झिमकुलाहं जाव अडमाणे, जेणेव नागसिरीए माहणीए गिहे तेणेव अणुपविट्ठे; तते णं  
 सा नागसिरी माहणी धम्मरुई एज्जमाणं पासति २ त्ता, तस्स सालइयस्स तित्तकडुयस्स बहु० णेहा०  
 निस्सिण्हय्याए हट्टतुडा उट्टेति २ जेणेव भत्तघरे तेणेव उवा० २ तं सालतियं तित्तकडुयं च बहुनेहं धम्म-  
 रुइस्स अणगारस्स पडिग्गहंसि सव्वमेव निसिरइ, तते णं से धम्मरुई अणगारे अहापज्जत्तमिति कडु  
 णागसिरीए-माहणीए गिहातो पडिनिक्खमति २ चंपाए नगरीए मज्झंमज्झेणं पडिनिक्खमति २, जेणेव  
 सुभूमिभाणे उज्जमणे तेणेव उवागच्छति २ धम्मघोसस्स अदूरसामंते अन्नपाणं पडिदंसेइ २, अन्नपाणं  
 करवळंसि पडिदंसेति; तते णं ते धम्मघोसा थेरा तस्स सालइतस्स नेहावगाहस्स गंधेणं अभिभूया  
 समण्णा, ततो सालइयातो नेहावगाढाओ एणं बिंदुगं गहाय करयंलंसि आसादेति तित्तगं खारं कडुयं  
 अज्जं अभोज्जं-विसभूयं जाणित्ता धम्मरुई अणगारं एवं वदासी-जति णं तुमं देवाणु० ! एवं सालइयं  
 जाव नेहावगाढं आहारेसि तो णं तुमं अकाले चेव जीवितातो ववरोविज्जसि, तं मा णं तुमं देवाणु० ! इमं  
 समलतियं जाव आहारेसि, मा णं तुमं अकाले चेव जीविताओ ववरोविज्जसि, तं गच्छ णं तुमं देवाणु० !

इमं सालतियं एगंतमणावाए अचित्ते थंडिले परिट्टवेहि २, अन्नं फासुयं एसणिज्जं असण ४, पडिगाहेत्ता आहारं आहारेहि; तते णं से धम्मरूई अणगारे धम्मघोसेणं थेरें एवं वुत्ते समाणे धम्मघोसस्स थेरस्स अंतियाओ पडिनिकखमति २, सुभूमिभागउज्जाणाओ अदूरसामंते थंडिल्लं पडिलेहेति २; ततो सालइयातो एगं बिंदुगं गहेइ २, थंडिलंसि निसिरति; तते णं तस्स सालतियस्स तित्तकडुयस्स बहुनेहावगाढस्स गंधेणं बहूणि पिपीलिगासहस्साणि पाउ० जा जहा य णं पिपीलिका आहारेति सा तथा अकाले चेव जीचितातो ववरोविज्जति, तते णं तस्स धम्मरूइस्स अणगारस्स इमेयारूवे अब्भत्थिए ५-जह ताव इमस्स सालतियस्स जाव एगंसि बिंदुगंसि पक्खत्तंसि अणेगात्तिं पिपीलिकासहसाइं ववरोविज्जति, तं जति णं अहं एयं सालइयं थंडिल्लंसि सव्वं निसिरामि, तते णं बहूणं पाणाणं ४ बहकरणं भविस्सति; तं सेयं खल्ल ममेयं सालइयं जाव गाढं सयमेव आहारेत्तए, मम चेव एएणं सरीरेणं णिज्जाउ त्तिकडु एव संपेहेति २, सुहपोत्तियं २, पडिलेहेति २, ससीसोवरियं कायं पमज्जेति २, तं सालइयं तित्तकडुयं बहुनेहावगाढं बिल-  
मिच पन्नगभूतेणं अप्पाणेणं सव्वं सरीरकोट्टंसि पक्खिवति; तते णं तस्स धम्मरूइस्स तं सालइयं जाव नेहावगाढं आहारियस्स समाणस्स सुहुत्तंत्तरेणं परिणममाणंसि सरीरंगंसि वेयणा पाउब्भृता उज्जला जाव दुरहियासा, तते णं से धम्मरूची अणगारे अथामे अबले अवीरिए अपुरिसक्कारपरक्कमे अधारणिज्जमि-  
त्तिकडु आथारभंडगं एणं ते ठवेइ २ थंडिल्लं पडिलेहेति २ दब्भसंथारगं संथारेइ २ दब्भसंथारगं दुइरूत्ति २



पुरस्थाभिस्तुहे संपलियंकनिसन्ने करयलपरिगगहियं एवं व०-नमोऽस्तु णं अरहंताणं जाव संपत्ताणं, णमो-  
 ऽस्तु णं धम्मघोसाणं थेराणं मम धम्मामयरियाणं धम्ममोवएसगाणं, पुड्विपि णं मए धम्मघोसाणं थेराणं  
 अंतिए सब्बे पाणातिवाए पच्चक्खाए जावज्जीवाए जाव परिगगहे; इयाणिपि णं अहं तेसिं चेव भगवंताणं  
 अंतियं सब्बं पाणाति० पच्चक्खामि जाव परिगगहं पच्चक्खामि जावजीवाए, जहा खंदओ जाव चरिमेहिं  
 उस्सासेहिं वोसिरामित्तिकट्टु आलोइयपडिक्कंते समाहिपत्ते कालगए, तते णं ते धम्मघोसा थेरा धम्मरुहं  
 अणगारं चिरं गयं जाणित्ता समणे निगगंथे सहावेंतिर एवं व०, एवं खलु देवाणु० ! धम्मरुहस्स अणगारस्स  
 मासखमणपारणगंसि सालइयस्स जाव गाढस्स णिसिरणट्टयाए बहिया निगगते चिराति तं गच्छह णं तुब्भे  
 देवाणु० ! धम्मरुहस्स अणगारस्स सब्बतो समंता मगगणवसेसणं करेह, तते णं ते समणा निगगंथा जाव  
 पडिसुणेंतिर धम्मघोसाणं थेराणं अंतियाओ पडिनिकखमंतिर, धम्मरुहस्स अणगारस्स सब्बओ समंता  
 मगगणवसेसणं करेमाणा जेणेव थंडिल्लं तेणेव उवागच्छंतिर, धम्मरुहस्स अणगारस्स सरीरगं निप्पाणं  
 निचेट्टं जीवविप्पजडं पासंतिर, हा हा अहो अकज्जामित्तिकट्टु धम्मरुहस्स अणगारस्स परिनिव्वाणवत्तियं  
 काउस्सगं करेंति, धम्मरुहस्स आयारभंडगं गेणहंतिर, जेणेव धम्मघोसा थेरा तेणेव उवागच्छंतिर,  
 गमणागमणं पडिक्कमंतिर, एवं व०-एवं खलु अम्हे तुब्भं अंतियाओ पडिनिकखमामो२ सुभूमिभागस्स  
 उ० परिपेरेंतेणं धम्मरुहस्स अणगारस्स सब्बं जाव करेमाणे जेणेव थंडिल्ले तेणेव उवा०२ जाव इहं

हृत्त्वसाम्राज्ञा, तं कालमात्रं भंते ! धम्मरुई अणगारे इमे से आयारभंडए, तते णं ते धम्मघोसा थेरा पुरुक्कए इवओगं गच्छंतिर, समणे निगंगंथे निगंगीओ य सदावेंतिर एवं व०-एवं खलु अज्जो ! मम अंसेवससी धम्मरुची नाम अणगारे पगइभइए जाव विणीए मासंमासेणं अणिकिखत्तेणं तवोकम्मणेणं जम्भ नागसिरीए माहणीए गिहे अनुपविंठे, तए णं सा नागसिरी माहणी जाव निसिरइ, तए णं से चम्मरुई अणगारे अहापज्जत्तमित्तिकहु जाव कालं अणवकंलेमाणे विहरति, से णं धम्मरुई अणगारे चट्टुणि कासएणि सामन्नपरियागं पाडणित्ता आलोइयपडिक्कंते समाहिपत्ते कालमासे कालं किचा उहुं सोइम्म ज्जाव सब्बहसिद्धे महाविमाणे देवत्ताए उववन्ने, तत्थ णं अजहणणमणुक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोव-काइं ठिती पत्तत्ता, तत्थ धम्मरुइस्सवि देवस्स तेत्तीसं सागरोवमाइं ठिती पणत्ता, से णं धम्मरुई देवे त्ताओ देवलोयाओ जाव महाविदेहे वासे सिज्जिहति ॥ सूत्रम्-११३ ॥ तं धिरत्थु णं अज्जो ! णागसिरीए माहणीए अधन्नाए अपुक्काए जाव णिबोलियाए जाए णं तहारूवे साहु धम्मरुई अणगारे मासखमण-परण्यंसि सालइएणं जाव गाढेणं अकाले चेवे जीवितातो ववरोविए, तते णं ते समणा निगंगंथा धम्म-लोसाणं थेराणं अंतिए एतमहुं सोबा णिसम्म चंपाए सिंघाडगतिगजाव बहुजणस्स एवमातिक्खंति-स्सिस्सु णं देवा० ! नागसिरीए माहणीए जाव णिबोलियाए जाए णं तहारूवे साहु सालत्तिएणं जीविताओ ववरोवेइ, तए णं तेसिं समणाणं अंतिए एयमहुं सोबा णिसम्म बहुजणो अन्नमन्नस्स एवमा-

तिक्त्वति एवं भासति-धिरत्यु णं नागसिरीए माहणीए जाव जीवियाओ ववरोविते, तते णं ते माहणा  
 चंपाए नयरीए बहुजणस्स अंतिए एतमट्ठं सोच्चा निसम्म आसुरुत्ता जाव मिसिमिसेमाणा जेणेव नाग-  
 सिरी माहणी तेणेव उवागच्छंति२, णागसिरीं माहणीं एवं वदासी-हं ओ ! नागसिरी ! अपत्थियपत्थिए  
 दुरंतपंतलक्खणे हीणपुण्णचाउदसे धिरत्यु णं तव अधन्नाए अपुन्नाए जाव णिंबोलियाते जाए णं तुमे तहा-  
 ल्वे साइ साहुरूवे मासखमणपारणंगंसि सालतिएणं जाव ववरोविते, उच्चावएहिं अक्कोसणाहिं अक्कोसंति,  
 उच्चावयाहिं उद्धंसणाहिं उद्धंसंति, उच्चावयाहिं णिंबत्थणाहिं णिंबत्थंति उच्चावयाहिं णिच्छोडणाहिं  
 निच्छोडंति तल्लंति तालेंति तालेत्ता तालेत्ता सयात्तो गिहात्तो निच्छुभंति; तते णं सा नागसिरी सयात्तो  
 गिहात्तो निच्छुद्धा समाणी चंपाए नगरीए सिंघाडगतिघचउक्कचचउम्मुह० बहुजणेणं हीलिज्जमाणी  
 खिसिज्जमाणी निदिज्जमाणी गरहिज्जमाणी तज्जिज्जमाणी पव्वहिज्जमाणी धिक्कारिज्जमाणी थुक्कारिज्जमाणी  
 कत्थइ ठाणं वा निलयं वा अलभमाणी २ दंडीलंडनिवसणा खंडमल्लयखंडघडगहत्थगया फुट्टहडाहडसीसा  
 मच्छियाचडगरेणं अन्निज्जमाणमग्गा गेहंगेहेणं देहंबलियाए चित्ति कप्पेमाणी विहरति, तते णं तीसे नाग-  
 सिरीए माहणीए त्ठभवंसि चैव सोलस रोयायंका पाउब्भूया, तंजहा-“सासे कासे जोणिसूले जाव कोढे,”  
 तए णं सा नागसिरी माहणी सोलसहिं रोयायंकेहिं अभिभूता समाणी अट्टुडुहद्ववसट्टा कालमासे कालं  
 क्रिवा, छट्टीए पुढबीए उक्कोसेणं बाबीससागरोवमट्ठितीएसु नरएसु नेरइयत्ताते उववत्ता; सा णं तओज्ज-

तरंसि उव्वट्ठिता मच्छेसु उववन्ना, तत्थ णं सत्थवज्झा दाहवक्कंतिए कालमासे कालं किच्चा अहेसत्तमीए पुढवीए उक्कोसाए तित्तीसंसागरोवमट्ठितीएसु नेरइएसु उववन्ना, सा णं ततोऽणंतरं उव्वट्ठिता दोब्बपि मच्छेसु उववज्जति, तत्थविय णं सत्थवज्झा दाहवक्कंतीए दोब्बपि अहे सत्तमीए पुढवीए उक्कोसं तेत्तीस-सागरोवमट्ठितीएसु नेरइएसु उववज्जति, सा णं तओहिंतो जाव उव्वट्ठिता तच्चपि मच्छेसु उववन्ना, तत्थविय णं सत्थवज्झा जाव कालं किच्चा दोब्बपि छट्ठीए पुढवीए उक्कोसेणं० तओऽणंतरं उव्वट्ठिता नरएसु एवं जहा गोसाले तहा नेयव्वं जाव रयणप्पभाए सत्तसु उववन्ना, ततो उव्वट्ठिता जाव इमाइं खहयरविहाणाइं जाव अदुत्तरं च णं खरबायरपुढविकाइयत्ताते तेसु अणेगसतसहस्स खुत्तो ।सुत्रम्-११४॥

सर्वं सुगमं, नवरं 'सालइयं'ति-शारदिकं सारेण वा-रसेन चितं-युक्तं सारचितं, 'तित्तालाउयं'ति-कटुकतुम्बकं 'बहुसंभारसंजुत्तं'-बहुभिः सम्भारद्रव्यैः-उपरि प्रक्षेपद्रव्यैस्त्वगेलाप्रभृतिभिः संयुक्तं यच्चथा 'स्नेहावगाहं'-स्नेहव्याप्तं 'दूभगसत्ताए'चि-दुर्भगः सत्तः-प्राणी यस्याः सा तथा, 'दूभगनिबोलियाए'चि-निम्बगुलिकेव-निम्बफलमिव अत्य-नादेयत्वसाधर्म्यति दुर्भगणां मध्ये निम्बगुलिका दुर्भगानां मध्ये निबोलिता-निमज्जिता-दुर्भ-गनिबोलिता, 'जाउयाउ'चि-देवराणां जाया भार्या इत्यर्थः; 'बिलमिबे'त्यादि, बिले इव-रन्ध्रे इव पन्नगभूतेन-सर्पकल्पेन आत्मना करणभूतेन सर्वं तदलाबु शरीरकोष्ठके प्रक्षिपति, यथा किल बिले सर्प आत्मानं प्रक्षिपति पार्श्वान् असंस्पृशन् एवमसौ वदनकन्दरपार्श्वान् असंस्पृशन् आहारेण तदसञ्चारणतस्तदलाबु जठरबिले प्रवेशितवानिति भाव 'गमणागमणाए

पडिक्कमंति'त्ति-गमनागमनं-ईर्यापथिकी, 'उच्चावयां'हि'त्ति-असमञ्जसाभिः, 'अक्कोसणा'हि'त्ति-मृताऽसि त्वमित्यादिभि-  
 र्वचनैः, 'उद्धंसणा'हि'त्ति-दुष्कृतीनेत्यादिभिः कुलाद्यभिमानपातनार्थैः, 'निच्छुहणा'हि'त्ति-निःसारास्मद्गोहादित्यादिभिः,  
 'निच्छोडणा'हि'त्ति-त्यज्जास्मदीयं वज्रादीत्यादिभिः, 'तज्जे'त्ति-ज्ञास्यसि पापे ! इत्यादिभणनतः, ' ताल्लि'त्ति-  
 चपेटादिभिः, हील्यमाना-जात्याद्बुद्धवद्दनेन, स्विस्यमाना-परोक्षकुत्सनेन, निन्द्यमाना-मनसा जनेन, गर्ह्यमाणा-तत्समक्षमेव  
 तर्ज्यमाना-अङ्गुलीचालनेन ज्ञास्यसि पापे इत्यादिभणनतः प्रव्यथ्यमाना-यथ्यादिताडनेन धिक्क्रियमाणा-धिक्शब्दविषयी-  
 क्रियमाणा, एवं शूत्क्रियमाणा, दण्डी-कृतसन्धानं जीर्णवस्त्रं तस्य खण्डं निवसनं-परिधानं यस्याः सा तथा, खण्डमल्लुकं-  
 खण्डशरावं मिक्षाभाजनं खण्डघटकञ्च-पानीयभाजनं ते हस्तयोगते यस्याः सा तथा, ' फुट्टं 'त्ति-स्फुटितया स्फुटितकेश-  
 सञ्चयत्वेन विकीर्णकेशं, 'हड्डाहड्डं'त्ति अत्यर्थं-'शीर्षं' शिरो यस्याः सा तथा, मक्षिकाचटकरेण-मक्षिकासमुदायेन अन्वीय-  
 मानमार्गा-अनुगम्यमानमार्गा मलाविलं हि वस्तु मक्षिकाभिर्वेष्ट्यते एवेति, देह बलिमित्येतस्याख्यानं देहबलिका तथा,  
 अनुस्वारो नैपातिकः, ' सत्थवज्झ 'त्ति-शस्त्रवध्या जातेति गम्यते, ' दाहवक्कंति'त्ति-दाहव्युत्क्रान्त्या-दाहोत्पत्त्या  
 'खहयरविहाणा'हं जाव अदुत्तरं चे'त्यत्र गोशालकाध्ययनसमानं सूत्रं तत एव दृश्यं, बहुत्वात्तु न लिखितं ॥११४॥

सा णं तओऽणंतरं उव्वट्ठित्ता इहेव जंबुदीवे दीवे भारहे वासे चंपाए नयरीए सागरदत्तस्स सत्थवा-  
 हस्स भद्दाए भारियाए कुच्छिंसि दारियाए पच्चायाया, तते णं सा भद्दा सत्थवाही णवणं मासाणं  
 दारियं पयाया सुकुमालकोमलियं गयताल्लुयसमाणं तीसे दारियाए निव्वत्ते बारसाहियाए अम्मपियरो

इमं एतारूढं गोघ्न गुणनिष्कलं नामधेजं करेति-जम्हा णं अम्हं एसा दारिया सुकुमाला गयतालुयसमाणा तं होउ णं अम्हं इमीसे दारियाए नामधेजे सुकुमालिया, तते णं तीसे दारियाए अम्मापितरो नामधेजं करेति सूमालियत्ति, तए णं सा सूमालिया दा० पंचघाईपरिग्गहिया तंजहा-खीरघाईए जाव गिरिकंदर-मल्लीणा इव चंपकलया निव्वाए निव्वाघायंसि जाव परिवडुह, तते णं सा सूमालिया दारिया उम्मुक्कवाल-भावा जाव रूवेण य जोव्वणेण य लावणेण य उक्किट्टा उक्किट्टसरीरा जाता यावि होत्था ॥ सूत्रम्-११५ ॥

तत्थ णं चंपाए नयरीए जिणदत्ते नाम सत्थवाहे अहे०, तस्स णं जिणदत्तस्स भद्दा भारिया सूमाला इट्ठा जाव माणुस्सए काम भोए पच्चणु०भवमाणा विहरति, तस्स णं जिणदत्तस्स पुत्ते भद्दाए भारियाए अत्तए सागरए नाम दारए सुकुमाले जाव सुरूवे, तते णं से जिणदत्ते सत्थवाहे अन्नदा कदाई सातो गिहातो पच्चिनिक्कवमत्ति२, सागरदत्तस्स गिहस्स अदूरसामंतेणं वीतीवयइ इमं च णं सूमालिया दारिया प्हाया चेच्चिसासंधपरिवुडा उष्णि आगासतलगंसि कणगतेदूसएणं कीलमाणी२ विहरति, तते णं से जिणदत्ते सत्थवाहे सूमालियं दारियं पासति२, सूमालियाए दारियाए रूवे य ३ जायविम्हए कोडुंबियपुरिसे सद्दा-वेत्ति२, एवं व०-एस णं देवा० ! कस्स दारिया !, किं वा णामधेजं से ?, तते णं ते कोडुंबियपुरिसा जिण-दत्तेया सत्थवाहेणं एवं बुत्ता समाणा हट्ट करयल जाव एवं वयासी-एस णं देवाणु० ! सागरदत्तस्स सत्थ-वाणुस्स-धुधा, भद्दाए अत्तया, सूमालिया नाम दारिया, सुकुमालपणिपाया जाव उक्किट्टा; तते णं से जिण-

वृत्ते सत्थवाहे तेस्मिं कोडुंबियाणं अंतिए एयमड्डं सोच्चा जेणेव सए गिहे तेणेव उंवा० २ ण्हाए जाव मित्त-  
 दाइपरिखुहे चंफए जेणेव सागरदत्तस्स गिहे तेणेव उवागच्छइ, तए णं सागरदत्ते सत्थवाहे जिणदत्तं सत्थ-  
 वाहं एज्जमाणं पासइ, एज्जमाणं पासइत्ता, आसणाओ अब्भुडुइ २ त्ता, आसणेणं उवणिमंतेति २, आसत्थं  
 वीसत्थं सुहासणवरगंधं एवं वयासी-अण देवाणुप्पिया ! किमागमणपओयणं १, तते णं से जिणदत्ते  
 सत्थवाहे सागरदत्तं सत्थवाहं एवं वयासी-एवं खल्ल अहं देवा० !, तव धूर्यं, अद्दाए अत्तियं, सुमालियं,  
 सागरस्स भारियत्ताए वरेमि, जति णं जाणाह देवा० ! जुत्तं वा पत्तं वा सलाहणिज्जं वा सरिसो वा  
 संजोगो ता विज्जउ णं सुमालिया सागरस्स, तते णं देवा० ! किं दलयामो सुंकरं सुमालियाए १, तए णं से  
 सागइदत्ते तं जिणदत्तं एवं वयासी-एवं खल्ल देवा० ! सुमालिया दारिया मम एगा एगजाया इट्ठा जाव  
 किमंग पुण पासण्याए तं नो खल्ल अहं इच्छामि सुमालियाए दारियाए खणमवि विप्पओगं, तं जति णं  
 देवाणुप्पिया ! सागरदारए मम घरजामाउए भवति, तो णं अहं सागरस्स दारगस्स सुमालियं दलयामि;  
 तते णं से जिणदत्ते सत्थवाहे सागरदत्तेणं सत्थवाहेणं एवं वुत्ते समाणे जेणेव सए गिहे तेणेव उवाग-  
 च्छइ २ सागरदारगं सद्दावेति २ एवं व०-एवं खल्ल पुत्ता ! सागरदत्ते स० मम एवं वयासी-एवं खल्ल देवा० !  
 सुमालिया दारिया इट्ठा तं च्चैव तं जति णं सागरदारए मम घरजामाउए भवइ, ता दलयामि; तते णं से  
 सागरए दारए जिणदत्तेणं सत्थवाहेणं एवं वुत्ते समाणे तुसिणीए, तते णं जिणदत्ते स० अन्नदा कदाइ

सोहणंसि तिहिकरणे विडलं असण ४ उक्कखड्ढावेति २, मित्तणाई आमंतेइ जाव सम्माणित्ता सागरं दारगं  
ण्हायं जाव सब्वालंकारविभ्रूसियं करेइ २ पुरिससहस्सवाहिणिं सीयं दुरूहोवेति २, मित्तणाइ जाव संप-  
रिबुडे सत्विट्ठीए सातो गिहाओ निगच्छति २ चंपानयरिं मज्झमज्जेणं जेणेव सागरदत्तस्स गिहे तेणेव  
उबागच्छति २, सीयाओ पबोरुहति २, सागरगं दारगं सागरदत्तस्स सत्थं उवणेति; तते णं सागरदत्ते  
सत्थवाहे विपुलं असण ४ उक्कखड्ढावेइ २ जाव सम्माणेत्ता सागरगं दारगं सूमालियाए दारियाए सद्धिं  
पट्टयं दुरूहोवेइ २ सेयापीतएहिं कलसेहिं मज्जावेति २, होमं करावेति २, सागरं दारयं सूमालियाए दारियाए  
पाणिं गेण्हार्विति ॥ सूत्रम् ११६ ॥ तते णं सागरदारए सूमालियाए दारि० इमं एयारूवं पाणिफासं पडि-  
संवेदेति से जहा नाम ए असिपत्ते इ वा जाव सुम्भुरे इ वा इतो अणिट्ठतराए चैव पाणिफासं पडि-  
संवेदेति, तते णं से सागरए अकामए अवसब्बसे तं शुहुत्तमित्तं संचिद्धति, तते णं से सागरदत्ते  
सत्थवाहे सागरस्स दारगस्स अम्मापियरो मित्तणाइ विडलं असण ४ पुण्फवत्थ जाव सम्माणेत्ता  
पडिविसज्जति, तते णं सागरए दारए सूमालियाए सद्धिं जेणेव वासघरे तेणेव उवा० २ सूमालियाए  
दारियाए सद्धिं तलिंगंसि निवज्जइ, तते णं ते सागरए दा० सूमालियाए दा० इमं एयारूवं अंगफासं  
पडिसंवेदेति, से जहा नामए असिपत्तेइ वा जाव अमणामयरागं चैव अंगफासं पबणुभवमाणे  
विहरति, तते णं से सागरए अंगफासं असहमाणे अवसब्बसे शुहुत्तमित्तं संचिद्धति, तते णं से



सागरदारए सूमालियं दारियं सुहपसुत्तं जाणित्ता सूमालियाए दारियाए पासाउ उट्टेति२, जेणेव सए सय-  
 णिज्जे तेणेव उवा० २ सयणीयंसि निवज्जह, तते णं सूमालिया दारिया तओ सुहुत्तंतरस्स पडिबुद्धा  
 समाणी पत्तिवया पइमणुरत्ता पत्ति पासे अपस्समाणी तलिमाउ उट्टेति२ जेणेव से सयणिज्जे तेणेव  
 उवागच्छति२ सागरस्स पासे णुवज्जह, तते णं से सागरदारए सूमालियाए दारि० दुब्बंपि इमं एयारूवं  
 अंगफासं पडिसंबेदेति जाव अकामए अवसव्वसे सुहुत्तमित्तं संचिद्धति, तते णं से सागरदारए सूमालियं  
 दारियं सुहपसुत्तं जाणित्ता सयणिज्जाओ उट्टेइ२ वासघरस्स दारं विहाडेति२ मारासुक्के विव काए जामेव  
 विसि पाउव्वए तामेव विसि पडिगए ॥सूत्रम्-११७॥ तते णं सूमालिया दारिया ततो सुहुत्तंतरस्स पडिबुद्धा  
 पत्तिवया जाव अपासमाणी सयणिज्जाओ उट्टेति सागरस्स दा० सव्वतो समंता मग्गणगंवेसणं करेमाणी  
 २ वासघरस्स दारं विहाडियं पासइ २ एवं व०-गए से सागरे त्तिकहु ओहयमसंकप्पा जाव श्रियायह, तते  
 णं सा भद्दा सत्थवाही कल्लं पाउ० दासचेडियं सहवेति २ एवं व०-गच्छह णं तुमं देवाणुरिपए ! बहुव-  
 रस्स सुहसोहणियं उवणेहि, तते णं सा दासचेडी भद्दाए एवं उत्ता समाणी एयमहं तहत्ति पडिसुणंति,  
 सुहधोवणियं गेण्हति २ जेणेव वासघरे तेणेव उवागच्छति २ सूमालियं दारियं जाव श्रियायमाणि  
 पासति२ एवं व०-किन्नं तुमं देवाणु० ! ओहयमणसंकप्पा जाव श्रियाहिसि !, तते णं सा सूमालिया दारिया  
 तं दासचेडियं एवं व० एवं खल्ल देवा० ! सागरए दारए मम सुहपसुत्तं जाणित्ता मम पासाओ उट्टेति २

अस्यभस्कुमारं अय्यगुण्डति जाव पडिगए, तते णं ततो अहं सुहुत्ततरस्स जाव विहाडियं पासामि, गंए णं से  
सागरस्स स्तिकट्टु ओहयमण जाव शियायामि, तते णं सा दासचेडी सूमालियाए दारि० एयमट्टं सोचा जेणेव  
सागरदत्ते तेणेव उबगच्छइ २ ता सागरदत्तस्स एयमट्टं निवेएइ, तते मं से सागरदत्ते दासचेडीए अंतिए  
एयमट्टं सोचा निस्सम्म आसुरुत्ते जेणेव जिणदत्तसत्थवाहगिहे तेणेव उवा० २ जिणद० एवं व०-किण्णं  
केवाणुप्पिय्या ! एवं जुत्तं वा, पत्तं वा, कुलाणुरूवं वा, कुलसरिसं वा, जन्नं सागरदारए सूमालियं दारियं  
अविट्ठोसं पइवयं विपपज्जाय इहममओ बहूहिं खिअणियाहि य इंदणियाहि य उवालभत्ति, तए णं जिण-  
दत्ते सागरदत्तस्स एयमट्टं सोचा जेणेव सागरए दारए तेणेव उवा० २ सागरयं दारयं एवं व०-दुहु णं पुत्ता !  
जुमे कयं सागरदत्तस्स गिहाथो इहं हच्चमागते, तेणं तं गच्छह णं तुमं पुत्ता ! एवमवि गते सागरदत्तस्स  
सिद्धे, तते णं से सागरए जिणदत्तं एवं व०-अवि यार्ति अहं ताथो ! गिरिपडणं वा, तरुपडणं वा, मरुपवायं  
वा, जल्लस्येवंसं वा, विसम्भक्खणं वा, वेहाणसं वा, सत्थोवाडणं वा, गिद्धाप्पिट्ठं वा, पब्बज्जं वा, विदेसगमणं वा,  
असुत्तसच्चिअस्सि नो बल्लु अहं सागरदत्तस्स गिहं गच्छिअ, तते णं से सागरदत्ते सत्थवाहे कुडुंतरिए  
सागरदत्त एयमट्टं तिसामत्ति३ लज्जिए किलीए विट्ठे जिणदत्तस्स गिहातो पडिनिक्खमहं जेणेव सए गिहे  
तेणेव उवा० २ सुकुमालिचं दारियं सइवेइ३, अंके निक्खेइ३, एवं व०-किण्णं तव पुत्ता ! सागरएणं

वारणं युक्ताः, अहं णं तुमं तस्स दाहामि जस्स णं तुमं इट्ठा जाव मणामा भविस्ससिस्सि सुमालियं दारियं  
 त्महि इट्ठाहिं वगस्सहिं समात्तासेह २ पडिबिसजेह २ तए णं से सगरदत्ते सत्थं अन्नया उप्पि आगासत्त-  
 त्यांस्सि सुहस्सिमाणे राधमग्गं ओलोएसणे २ चिट्ठति, तते णं से सागरदत्ते एगं महं दमगपुरिसं पासइ  
 दं चिखंडतिवस्सणं खंडगमल्लघडगहत्थग्गं मच्छियत्ताहस्सेहिं जाव अड्डिजमाणमग्गं तते णं से सागरदत्ते  
 कोडुंबियपुरिसे सदावेत्ति २ एवं व०-तुब्भे णं देवा० ! एयं दमगपुरिसं चिउलेणं असण ४ पलोभेहि २, गिहं  
 अणुप्पवेसेह २, खंडगमल्लघडं खंडघडगं ते एयंते एवेह २, अलंकारियकम्मं कारेह २, ण्हायं कयबलि० जाव  
 सव्वाखंकाविसुसियं करेह २ मणुणं असण ४ भोयांकेह २ मम अंतियं उवणेह; तए णं कोडुंबियपुरिसा  
 जाव पडिसुवेत्ति २ जेणेव से दमगपुरिसे तेणेव उवा० २ त्ता तं दमगं असणं उवप्पलोभेत्ति २ त्ता सयं  
 गिहं अणुपवेत्ति २ तं खंडगमल्लघडं खंडगघडगं च तस्स दमगपुरिसस्स एगंते एडंति, तते णं से दमगे तं  
 खंडमल्लंस्सि खंडघडगंस्सि य एगंते एडिजमाणंस्सि महया २ सदेणं आरसति, तए णं से सागरदत्ते तस्स  
 दमगपुरिसस्स तं महया २ आरसियसइ सोच्चा निसम्म कोडुंबियपुरिसे एवं व०-किणं देवाणु० ! एस  
 दमगपुरिसे महया २ सदेणं आरसति !, तते णं ते कोडुंबियपुरिसा एवं व०-एस णं सामी ! तंसि खंडमल्ल-  
 गंस्सि खंडघडगंस्सि एगंते एडिजमाणंस्सि महया २ सदेणं आरसइ, तते णं से सागरदत्ते सत्थं ते कोडुं-  
 बियपुरिसे एवं व०-मा णं तुब्भे देवा० ! एयस्स दमगस्स तं खंड जाव एडेह पासे ठंवेह जहा णं पत्तियं

भवति, तेवि तद्देव ठवेति; तए णं ते कोडुविद्यपुरिसा तस्स दमगस्स अलंकारियकम्मं करेति २ सयपा-  
 गसहस्सपागेहिं तिच्छेहिं अबभंगेति अबभंगिए समाणे सुरभिगंधुव्वदृणेणं गायं उव्वट्टिति २ उस्सिणो-  
 दगगंधोवएणं सीतोदगेणं णहाणेति, पम्हलसुखुमालगंधकासाईए गायाइं त्खंति २ हंसलवखणं पट्टसाडगं  
 परिहंति २, सब्वालंकारविभूसियं करेति २, विडलं असण ४ भोयावेति २ सागरदत्तस्स उवणेन्ति, तए  
 णं सागरदत्ते सुमालियं दारियं णहायं जाव सब्वालंकारभूसियं करित्ता तं दमगपुरिसं एवं व०-एस णं  
 देवा० मम धूया इट्ठा एयं णं अहं तव आरियत्ताए दलाभि भदियाए भहतो भविज्जासि, तते णं से दम-  
 गपुरिसे सागरदत्तस्स एयमट्टं पडिसुणेति २ सुमालियाए दारियाए सट्ठि वासधरं अणुपविसति सुमा-  
 लियाए वा० सट्ठि तलिंगंसि निवज्जइ, तते णं से दमगपुरिसे सुमालियाए इमं एयारूवं अंगपासं पडि-  
 संवेवेति, सेसं जहा सागरस्स जाव सयणिज्जाओ अब्बुट्टेति २ वासघराओ निगच्छति २, खंडमल्लुणं  
 खंडवटं च गहाय. मारासुके विव काए जामेव दिसं पाउब्बए तामेव दिसं पडिगए, तते णं सा सुमा-  
 लिया जाव गए णं से दमगपुरिसे त्तिकट्ट ओहयमण जाव भियायति ॥सुत्रम्-१८॥ तते णं सा भइा कल्लं  
 पाउ० वासवेदिं सदावेति २ एवं वयासी जाव सागरदत्तस्स एयमट्टं निवेवेति, तते णं से सागरदत्ते तद्देव  
 संभंते समाणे जेणेव वासहरे तेणेव उवा० २सुमालियं दारियं अंके निवेसेति २ एवं व-अहो णं तुमं पुत्ता ।

पुरापोराणेणं जाव पवणुभवमानी विहरसि तं मा णं तुमं पुत्ता ! ओहयमण जाव झियाहि तुमं णं पुत्ता, मम महाणसंसि विपुलं असणं ४ जहा पुट्टिला जाव परिभाएमानी विहराहि; तते णं सा सूमालिया दारिया एयमट्टं पडिसुणेति २ महाणसंसि विपुलं असण जाव दलमानी विहरह । तेणं कालेणं २ गोवालियाओ अज्जाओ बहुसुयाओ एवं जहेव तेयलिणाए सुव्वयाओ तहेव समोसट्टाओ तहेव संघाडओ जाव अणुपविट्ठे तहेव जाव सूमालिया पडिलाभित्ता एवं वदासी-एवं खलु अज्जाओ ! अहं सागरस्स अणिट्ठा जाव अमणामा नेच्छह णं सागरए मम नामं वा जाव परिभोगं वा, जस्स २ विय णं दिज्जामि तस्स २ विय णं अणिट्ठा जाव अमणामा भवामि, तुब्भे य णं अज्जाओ ! बहुनायाओ एवं जहा पुट्टिला जाव उवलद्धे जे णं अहं सागरस्स दार० इट्ठा कंता जाव भवेज्जामि, अज्जाओ तहेव भणंति तहेव साविया जाया तहेव चिंता तहेव सागरदत्तं सत्थवाहं आपुच्छति जाव गोवालियाणं अंतिए पव्वहया तते, णं सा सूमालिया अज्जा जाया ईरियासमिया जावें बंभयारिणी बहूहि चउत्थच्छट्टम जाव विहरति, तते णं सा सूमालिया अज्जा अन्नया कयाइ जेणेव गोवालियाओ अज्जाओ तेणेव उवा० २ वंदति नमंसति २ एवं व०-इच्छामि णं अज्जाओ ! तुब्भेहि अब्भणुन्नाया समानी चंपाओ बाहिं सुभूमिभागस्स उज्जाणस्स अदूरसामंते छट्ठं छट्ठेणं अणिकिखत्तेणं तवोकम्मणेणं सूराभिमुही आयावेमानी विहरित्तए, तते णं ताओ

गोवाल्लिखमथो अज्जाओ सूमालियं एवं व०-अम्हे णं अज्जे ! समणीओ इरियासमियाओ जाव सुखत्तं-सञ्चारिणीओ नो बल्लु अम्हं कप्पति बहिया गामस्स जाव सण्णिवेस्स वा छट्ठं २ जाव विहरि-त्ताए, कप्पति णं अम्हं अंतो उवस्सयस्स वतिपरिक्खित्तस्स संघाडिच्चियाए णं समतलपतियाए आया-चित्तए, तते णं सा सूमालिया गोवाल्लिया एयमट्ठं नो सदहति, नो पत्तियह, नो रोएति, एयमट्ठं अ० ३ सुश्रुमिभागस्स उज्जाणस्स अहूरसामंते छट्ठं छट्ठेणं जाव विहरति ॥ सूत्रम्-११९ ॥

सुकुमालक्कोमल्लिक्का-अत्यर्थं सुकुमारं, गजतालुसमानं, गजतालुकं ह्यत्यर्थं सुकुमालं भवतीति, 'जुत्तं वा' इत्यादि बुज्जं-सज्जत्तं, 'पत्तं'ति प्राप्तं प्राप्तकालं पात्रं वा गुणानामेष पुत्रः, श्लाघनीयं वा सदृशो वा संयोगो विवाहयोरिति, 'से जहा नामए अस्सिपत्तेह वा' इत्यत्र यावत्कारणादिदं द्रष्टव्यं। 'करपत्तेह वा, खुरपत्तेह वा, कलंबचीरिगापत्तेह वा, सत्तिअग्गेति वा, कोत्तग्गेति वा, तोमरग्गेति वा, भिडिमालग्गेह वा, ख्विक्कलावएति वा, विच्छुयडंकेह वा, कविकच्छूह वा, इंगा-लेहति वा, मुग्गुरेति वा, अचीह वा, जालेह वा, अलाएति वा, सुद्धागणीह वा; भवेतारूवे ? , नो इण्णे समट्ठे, एचो अणिट्ठ-तसए चेष, अकंततराए चेष, अप्पियतराए चेष, असणुभतराए चेष, अमणाभतराए चेष 'त्ति; तत्रात्तिपत्रं-खड्गः, करपत्रं-क्रकचं, खुरपत्रं-सुरः, कदम्बचीरिकादीनि लोकरूढाऽवसेयानि, वृश्चिककण्टकः, वृश्चिकच्छु-खज्जुकारी वनस्पतिविशेषः, अक्करो-विज्जमलोऽग्निक्कणः, मुग्गुरः-अग्निक्कणभिन्नं भस्म, अर्विः-इन्धनप्रतिबद्धा ज्वालाला तु-इन्धनच्छिन्ना अलातं-उत्सृज्जं, सुद्धाभिः-अयस्विण्डान्तर्गतोऽग्निरिति 'अकामए'त्ति अकामज्जो-निरभिलाषः, 'अवस्सवसे'त्ति अपस्ववशः,

अफसतास्पन्तस्व इत्यर्थः, 'तलियंसि निवज्जइ'ति तल्पे-श्रयनीये निषद्यते-शेते 'पइवय'ति पति-भर्तारं व्रत-  
 यति-तमेवमभिगच्छामीत्येव नियमं करोतीति पतिव्रता, पतिमनुरक्ता-भर्तारं प्रति रागवतीति, 'सारासुक्रेचिव काए' ति  
 मार्यन्ते प्राणिनो यस्यां शालार्यां सा मारा-शूनूना तस्या मुक्तो यः स मारामुक्तो माराद्वा-मरणान्मारकपुरुषाद्वा मुक्तो-  
 धिच्छुटितः काको-वायसः, 'वहुवरस्स'ति वधूश्च वरश्च वधूरं तस्य, 'कुलाणुरूवं'ति कुलोचितं वणिजां वाणिज्य-  
 भिव 'कुलससिंसं'ति श्रीमद्वणिजां रत्नवाणिज्यभिव 'अदिट्टदोसवडियं'ति न दृष्टे-उपलभ्यस्वरूपे दोषे-दूषणे  
 पक्षिता-समाप्रन्ना अदृष्टदोषपतिता तां, 'खिज्जणिययाहिं'ति खेदक्रियाभिः रुटनकादिभिः-रुदितक्रियाभिः, 'मरुप्प-  
 वायं व'ति निर्जलदेशप्रपातं 'सत्थोवाडणं'ति शस्त्रेणावपाटनं-विदारणमात्मन इत्यर्थः, 'गिद्धपट्टं'ति गृध्रस्पृष्टं-  
 गृध्रेः स्पर्शानं कण्डेवरणां मध्ये निपत्य गृध्रैरात्मनो भक्षणमित्यर्थः, 'अब्भुवेज्जामि'ति अभ्युपमि, 'पुरा पोराराणाण'  
 मित्यत्र याक्त्तकणादेचं द्रष्टव्यं 'दुच्चिणाणं दुप्परकंताणं कडाणं पावाणं कम्माणं पावणं फलविचिचिविसेसं'ति अयमर्थः-  
 'पुरा पोराराणाण' मित्यत्र यावत्करणादेवं द्रष्टव्यं 'दुच्चिणाणं दुप्परकंताणं कडाणं पावाणं कम्माणं पावणं फलविचिचिविसेसं'ति  
 अयमर्थः-पुरा-पूर्वमक्थु, पुराणानां-अतीतकालभाविनां तथा दुश्चीणं-दुश्चरितं सृषावादनपारदार्योदि तद्धेतुकानि कर्माण्यपि  
 दुश्चीर्णानि व्यग्रविश्यन्ते अतस्तेषामेव दुष्पराक्रान्तानां नवरं दुष्पराक्रान्तं-प्राणिघातादत्तापहारादिकृतानां प्रकृत्यादिभेदेन,  
 पुराक्रान्तस्येह सम्बन्धः, पापानां-अपुण्यरूपानां, 'कर्माणं' ज्ञानावरणादीनां, पापकं-अशुभं 'फलवृत्तिविशेषं' उदय-  
 वर्षमभेदं, 'प्रत्यनु भवन्ती'-वेदयन्ती, 'विहरसि'-वर्त्तते, 'कप्पइ णं अम्महं' इत्यादि 'अम्महं'ति अस्माकं मते

नवाङ्गी-  
५० ५०  
श्रीज्ञाता-  
वर्मकथाके  
५ २१२ ॥

प्रव्रजिताया इति गम्यते, अन्तः-मध्ये 'उपाश्रयस्य' वसतेर्बृत्तिपरिधिप्तस्य परेषामनालोकावत इत्यर्थः, 'संघाटी' निर्धन्वि-  
काप्रच्छदविशेषः सा बद्धा-निवेशिता काये इति गम्यते यया सा संघाटीबद्धिका तस्याः, णमित्यलङ्कारे समतले द्वयोरपि  
शुवि विन्यस्तत्वात् पदे-पादौ यस्याः सा समतल्पदिका तस्याः 'आतापयितुं' आतापनां कर्तुं कल्पते इति योगः ॥११९॥

तत्थ णं चंपाए ललिया नाम गोड्डी परिवसति, नरवइदिण्णचि(प)यारा अम्ममापिहनिययनिप्पिवासा  
वेसविहारकयनिकेया नाणाविहअविणयप्पहाणा अड्डा जाव अपरिभूया, तत्थ णं चंपाए देवदत्ता नामं  
गणिया होत्था, सुक्कुमाला जहा अंडणाए; तते णं तीसे ललियाए गोड्डीए अन्नया पंच गोड्डिछगपुरिसा देव-  
दत्ताए गणियाए सद्धिं सुभूमिभागस्स उज्जाणस्स उज्जाणसिरिं पच्चणुंभवमाणा विहरंति, तत्थ णं एगे  
गोड्डिछगपुरिसे देवदत्तं गणियं उच्छंणे धरति, एगे पिट्ठो आयवत्तं धरेइ, एगे पुक्कपूरयं रएइ, एगे पाए  
रएइ, एगे चामरुक्खेवं करेइ; तते णं सा सूमालिया अज्जा देवदत्तं गणियं तेहिं पंचहिं गोड्डिछपुरिसेहिं सद्धिं  
उरालाहं माणुस्सगाहं भोगभोगाहं सुंजमाणीं पासति २ इमेयारूवे संकप्पे समुप्पज्जित्था-अहो णं इमा  
इत्थिया पुरा पोरानाणं कम्मणं जाव विहरइ, तं जति णं केइ इमस्स सुचरियस्स तवनियममंचेरवास-  
स्स कल्लणो फलवित्ति विसेसे अत्थि तो णं अहमचि आगमिस्सेणं भवग्गहणेणं इमेयारूवाहं उरालाहं जाव  
विहरिज्जामि त्तिकट्टु नियणं करेति २ आयावणभूमिओ पच्चोरुहति ॥ सूत्रम्-१२० ॥ तते णं सा सूमालिया  
अज्जा सरिीरवडसा जाया यावि होत्था, अभिक्खणं २ हत्थे धोवेइ, पाए धोवेइ, सीसं धोवेइ, सुहं धोवेइ, थणं-

१६

अपरकङ्का-  
ज्ञाताप्य०  
देवदत्ता-  
गणिकादि-  
स्वरूपम् ।

॥ २१२ ॥



तराहं घोवेह, ककखंतराहं घोवेह, गोडधंतराहं घोवेह; जत्थ णं ठाणं वा सेल्लं वा निसीहिंयं वा चेएति तत्थवि  
य णं पुठ्ठवामेव उदएणं अब्भुक्खइत्ता ततो पच्छा ठाणं वा ३ चेएति, तते णं तातो गोवालियाओ अल्लाओ  
सूमालियं अल्लं एवं व०-एवं खलु देवा० ! अल्ले अम्हे समणीओ निगंथीओ इरियासमियाओ जाव बंभ-  
चेरधारिणीओ, नो खलु कप्पति अम्हं सरीरबाउसियाए होत्तए, तुमं च णं अल्ले ! सरीरबाउसिया अभि-  
क्खणं २ हत्थे घोवसि जाव चेदेसि, तं तुमं णं देवानुप्पिए ! तस्स ठाणस्स आलोएहि जाव पड्डिवल्लाहि,  
तते णं सूमालिया गोवालियाणं अल्लाणं एयमडुं नो आढाह नो परिजाणति अणाढायमाणी अपरिजाणमाणी  
विहरति, तए णं ताओ अल्लाओ सूमालियं अल्लं अभिक्खणं २ अभिहीलंति जाव परिभवंति, अभि-  
क्खणं २ एयमडुं निवारंति, तते णं तीए सूमालियाए समणीहिं निगंथीहिं हील्लिज्जमाणीए जाव वारिज्ज-  
माणीए इमेयारूवे अब्भत्थिए जाव ससुप्पज्जित्था, जया णं अहं अगारवासमज्झे वसामि तया णं अहं  
अप्पवसा, जया णं अहं सुंढे भवित्ता पठ्ठवइया तया णं अहं परवसा, पुठ्ठिव च णं ममं समणीओ आढा-  
यंति २ इयाणि नो आढंति २ तं सेयं खलु मम कल्लं पाउ० गोवालियाणं अंतियाओ पड्डिनिक्खमित्ता  
पाडिएक्कं उवस्सगं उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तए त्तिकट्टु, एवं संपेहेति २ कल्लं पा० गोवालियाणं अल्लाणं अंति-  
याओ पड्डिनिक्खमति २ ता पाडिएक्कं उवस्सगं उवसंपज्जित्ता णं विहरति, तते णं सा सूमालिया अल्ला  
अणोहट्ठिया अनिवारिया सच्छंदमई अभिक्खणं २, हत्थे घोवेह जाव चेएति; तत्थवि य णं पासत्था पास-

नवाङ्गी-

दृ० दृ०

श्रीज्ञाता-

अर्थकथाङ्गे

॥ २१३ ॥

तथञ्चिह्वसी, ओसण्णा ओसण्णविहारी, कुसीला २ संसत्ता २ बहूणि वासाणि सामणपरियाणं पाउणति  
अङ्गमासिवाए संखेहणाए तस्स ठाणस्स अणमालोइय अपडिक्कता कालमासे कालं किञ्चा ईसाणे कण्पे अण-  
यंखि विमणंखि देवगणियत्ताए उववणणा, तत्थेगलियाणं देवीणं नव पलिओवमाइं ठिती पणत्ता, तत्थ  
णं सुमाल्लियाए देवीए नव पलिओवमाइं ठिती पणत्ता ॥ सूत्रम्-१२१ ॥

‘लल्लिय’चि क्रीडाप्रधाना, ‘गोट्टि’चि जनममुदायविशेषः, ‘नरवहद्विन्नपयार’चि-नृपानुज्ञातकामचारा ‘अम्मा-  
पिहन्नियगनिप्पवास’चि मात्रादिनिरपेक्षा ‘वेसविहारकयनिकेय’चि वेइयाविहारेषु-वेइयामन्दिरेषु कृतो निकेतो-  
निवासो यया सा तथा, ‘नाणाविहअविणययप्पहाणा’ कण्ठयं ‘पुप्फपूरयं रएइ’ति पुष्पशेखरं करोति, ‘पाए रएइ’  
पादावलक्कादिना रञ्जयति, पाठान्तरे-‘रोवेइ’चि घृतजलाभ्यामार्द्रयति, ‘सरीरबाउसियं’ति बकुशः-शुबलचरित्रः स च  
शरीरत उपकरणतथैत्सुकं शरीरबहुञ्जा-तद्विभूषानुवर्त्तिनीति, ‘ठाणं’ति कायोत्सर्गस्थानं निषदनस्थानं वा ‘शरय्यां’-त्वग्घर्त्तनं,  
‘नेषधिका’-स्वाध्यायभूमिं चेतयति-करोति, ‘आलोएहि ज्ञावे’त्यत्र यावत्करणात् ‘निन्दाहि गरिहाहि पडिक्कमाहि विउ-  
द्वुहि विसोदेहि अकरणयाए अब्बुडेहि अहारिहं तवोकम्मं पायच्छिचं पडिवञ्जाहि’चि इइयमिति, तत्रालोचनं-पुरोर्निवेदनं  
निन्दनं-पश्चात्तापो महणं-गुरुसमर्थं निन्दनमेव प्रतिक्रमणं-मिथ्यादुष्कृतदानलक्षणं अकृत्यान्नित्तनं वा वित्रोटनं-अनुबन्ध-  
च्छेदनं विशेषानं-व्रतानां पुनर्नवीकरणं. शेषं कण्ठ्यमिति, ‘पडिएक्क’ति-पृथक्, ‘अणोहट्टिय’चि-अविद्यमानोऽपघट्टको-

१ ०तिः ३. ता अ० अ. १.

१६

अपरकङ्का-

ज्ञाताध्य०

सुकुमालि-

कांतिम-

जीवन-

चर्या ।

॥ २१३ ॥

प्रदच्छया प्रवर्तमानायाः हस्तब्राह्मदिना निवर्तको निवर्तको-यैवं कार्पीरित्येवं निषेधको  
वय्याः सा तथा ॥ १२०-१२१ ॥

तेषां कालेणं २ इहेव जंबुद्वीवे भारहे वासे पंचालेसु जणवएसु कंपिल्लपुरे नामं नगरे होत्था, वन्नओ,  
तत्थ णं दुवए नामं राया होत्था, वन्नओ; तस्स णं बुलणी देवी धट्टज्जुणे कुमारे जुवराया, तए णं सा  
सुम्मल्लिया देवी ताओ देवलोयाओ आउक्खएणं जाव चइत्ता इहेव जंबुद्वीवे २ भारहे वासे पंचालेसु  
जणवएसु कंपिल्लपुरे नगरे दुपयस्स रण्णो बुलणीए देवीए कुच्छिसि दारियत्ताए पचायाया, तते णं सा  
बुलणी देवी नवणं मासाणं जाव दारियं पयाया, तते णं तीसे दारियाए निवत्तवारसाहियाए इमं एया-  
स्सं नामं जमहा णं एस दारिया दुवयस्स रण्णो धूया बुलणीए देवीए अत्तिया तं होउ णं अमहं इमीसे  
दारियाए नाम्मधिल्ले दोवई, तए णं तीसे अम्मपियरो इमं एयारूवं गुणं गुणनिष्फन्नं नामधेज्जं करिंति  
दोवती, तते णं सा दोवई दारिया पंचथइपरिगहिया जाव गिरिकंदरमल्लीण इव चंपगलया निवायनि-  
व्वायात्थंसि सुहंसुहेणं परिवड्ढह । तते णं सा दोवई रायवक्कत्ता उम्मकुबालभावा जाव उक्किट्ठसरीरा  
जाय यानि होत्था, तते णं तं दोवतिं रायवक्कत्तं अण्णया कयाई अंतेउरियाओ पहायं जाव विभूसियं  
दोवति २ दुवयस्स रण्णो पावबंदिउं पेसंति, तते णं सा दोवती राय० जेणेव दुवए राया तेणेव उवाग-  
च्छइ २ दुवयस्स रण्णो पयम्पहणं करेत्ति, तए णं से दुवए राया दोवतिं दारियं अंके निवेसेइ २ दोवईए

रायवरकक्षाए रूवेण य जोव्वणेण य लावणेण य जायविम्हए दोवहं रायवरकक्षं एवं व०-जस्स णं अहं  
 पुत्ता ! रायस्स वा जुवरायस्स वा भारियत्ताए सयमेव दलहस्सामि, तत्थ णं तुमं सुहिया वा दुक्खिया  
 वा भविज्जासि, तते णं ममं जावजीवाए हिययडाहे भविस्सह, तं णं अहं तव पुत्ता ! अज्जयाए सयंवरं  
 विरयामि, अज्जयाए णं तुमं दिण्णं सयंवरा जेणं तुमं सयमेव रायं वा जुवरायं वा वरेहिसि से णं तव  
 भत्तारे भविस्सह त्तिकहु ताहि इट्ठाहिं जाव आसासेह २ पडिधिसज्जेह ॥ सूत्रम्-१२२ ॥ तते णं से दुवए  
 राया दूयं सदावेति २ एवं व०-गच्छह णं तुमं देवा० ! बारवइं नगरिं तत्थ णं तुमं कण्हं वसुदेवं समुह-  
 विजयपामोक्खे दस दसारे, बलदेवपासुक्खे पंच महावीरे, उग्गसेणपामोक्खे सोलस रायसहस्से, पज्जुण-  
 पासुक्खलाओ अद्धुट्ठाओ कुमारकोडीओ, संबपामोक्खलाओ सट्ठि दुइंतसाहस्सीओ, वीरसेणपासुक्खलाओ  
 इक्खवीसं वीरपुरिससाहस्सीओ, महसेणपामोक्खलाओ छप्पन्नं बलवगसाहस्सीओ, अत्ते य बह्वे राईसरतल-  
 वरमाडंभियकोडुंभियहंभसिट्ठिसेणावहसत्थवाहपभिहओ करयलपरिग्गहियं दसनहं सिरसावत्तं अंजलिं  
 मत्थए कहु जएणं विजएणं वद्धावेहि २ एवं वयाहि-एवं खलु देवाणुरिपया ! कं पिछपुरे नयेरे दुवयस्स  
 रण्णो धूयाए बुल्लणीए देवीए अत्तयाए धट्टज्जुणकुमारस्स भगिणीए दोवइए रायवरकणाए सयंवरे भवि-  
 स्सह, तं णं तुब्भे देवा० ! दुवयं रायं अणुगिण्हेमाणा अकालपरिहीणं भेव कं पिछपुरे नयेरे समोसरह; तए  
 णं से दूए करयल जाव कहु दुवयस्स रण्णो एयमट्ठं पडिसुणेंति २ जेणेव सए गिहे तेणेव उवागच्छह २

कोडुंबियपुरिसे सदावेइ २ एवं व०-खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! चाउग्घं आसरहं जुत्तामेव उवट्टवेह  
 जाव उवट्टवेति, तए णं से दूए णहाते जाव अलंकार० सरीरे चाउग्घं आसरहं डुरुहइ २, बह्वहिं पुरिसेहिं  
 सन्नद्ध जाव गहियाऽऽउहपरणेहिं सिद्धिं संपरिवुडे कं पिच्छपुरं नगरं मज्झंमज्जेणं निगगच्छति, पंचाल-  
 जणवयस्स मज्झंमज्जेणं जेणेव देसस्पंते तेणेव उवागच्छइ, सुरट्टाजणवयस्स मज्झंमज्जेणं जेणेव बार-  
 वती नगरी तेणेव उवागच्छइ २, बारवइं नगरिं मज्झंमज्जेणं अणुपविसइ २, जेणेव कणहस्स वासुदेवस्स  
 बाहिरिया उवट्टाणसाला तेणेव उवागच्छइ २ त्ता, चाउग्घं आसरहं ठवेइ २, रहाओ पच्चोरुहति २, मणुस्स-  
 वग्गुरापपरिक्खत्ते पायचारविहारचारेणं जेणेव कणहे वासुदेवे तेणेव उवा० २, कणहं वासुदेवं समुद्विजय-  
 पासुक्खे य दस दसारे जाव बलवगसाहस्सीओ करयल तं चैव जाव समोसरह । तते णं से कणहे वासु-  
 देवे तस्स दूयस्स अंतिए एयमट्टं सोच्चा निसम्म हट्ट जाव हियए तं दूयं सक्कारेइ सम्माणेइ २ पडिचिस-  
 ज्जेइ । तए णं से कणहे वासुदेवे कोडुंबियपुरिसं सदावेइ एवं व०-गच्छह णं तुमं देवाणुप्पिया ! सभाए  
 सुहम्माए सासुदाइयं भेरिं तालेहि, तए णं से कोडुंबियपुरिसे करयल जाव कणहस्स वासुदेवस्स एयमट्टं  
 पडिसुणंति २, जेणेव सभाए सुहम्माए सासुदाइया भेरी तेणेव उवागच्छइ २, सासुदाइयं भेरिं महया २,  
 सइणं तालेइ; तए णं ताए सासुदाइयाए भेरीए तालियाए समाणीए समुद्विजयपामोक्खा दस दसारा  
 जाव महसेणपासुक्खाओ छप्पणं बलवगसाहस्सीओ णहाया जाव चिभूसिया जहा विभवइड्डिसक्कार-

स्वसुप्त्यं अप्येमाइया जाव पायविहारचारेणं जेणेव कण्हे वासुदेवे तेणेव उवागच्छंति २ करयल जाव कण्हे वासुदेवं ज्ञरणं किज्जएणं वद्धावेति, तए णं से कण्हे वासुदेवे कोहुंविप्युरिसे सदावेति २ एवं व०-  
विधयामेव भो ! देवणुरिपया ! अभिसेक्कं हत्थिरयणं पडिकप्येह ह्यगय जाव पच्चपिणंति, तते णं से कण्हे वासुदेवे जेणेव मज्जणघरे तेणेव उवाग० २ स्वसुत्तजालाकुलाभिरामे जाव अंजणगिरिकूडसन्निभं नयवहं नरवहं कुरुढे, तते णं से कण्हे वासुदेवे ससुहविजयपासुक्खेहिं दसहिं दसारहिं जाव अणंगसेणा-  
पासुक्खेहिं, अणेमाहिं गणिघासाहस्सीहिं सद्धिं संपुरियुडे सच्चिद्वीए जाव रवेणं बारवहनयरिं मज्झं-  
मज्झेणं निग्गच्छइ २ सुरहाजणवयस्स मज्झंमज्झेणं जेणेव देसप्यंते तेणेव उवागच्छइ २, पंचालजण-  
वयस्स मज्झंमज्झेणं जेणेव कं पिच्छुरे नयरे तेणेव पहारेत्थगमणाए । तए णं से दुवए राया दोचं दूयं  
सदावेइ २ एवं व०-गच्छ णं तुमं देवाणुपिया ! हत्थिणाउरं नगरं तत्थ णं तुमं पंडुरायं सपुत्तयं जुहि-  
ट्ठिं, भीमसेणं, अज्जुणं, नउलं, सहदेवं, दुज्जोहणं भाइसयसमगं गंगेयं विदुरं दोणं जयइहं सउणीं कीवं  
आसत्थाम्भं करयल जाव कहुं तहेव समोसरह, तए णं से दूए एवं व०-जहा वासुदेवे नवरं भेरी नत्थि  
ज्जण जेणेव कं पिच्छुरे नयरे तेणेव पहारेत्थ गमणाए २ । एणेव कमेणं तच्चं दूयं चंपानयरिं तत्थ णं तुमं  
काहं थंगरत्थं सेच्छं नंदिरावं करयल तहेव जाव समोसरह । चउत्थं दूयं सुत्तिमइं नयरिं तत्थ णं तुमं  
विष्णुआलं दम्भयोस्वसुयं पंचमाहसयसंपरिबुं करयल तहेव जाव समोसरह । पंचमं दूयं हत्थीसीसनयरं

तत्थ णं तुमं दसवंतं रावं करयल तद्देव जाव समोसरह । छटं दूयं महुरं नयरिं तत्थ णं तुमं धरं रायं  
 करयल जाव समोसरह । सत्तमं दूयं रायसिंहं नगरं तत्थ णं तुमं सहदेवं जरासिधुसुयं करयल जाव  
 समोसरह । अट्टमं दूयं कोडिणं नयरं तत्थ णं तुमं रूपिं भेसगसुयं करयल तद्देव जाव समोसरह ।  
 नवमं दूयं विषाडनयरं तत्थ णं तुमं कियं भाउसयसमगं करयल जाव समोसरह । दसमं दूयं अवसे-  
 सेसु य गाकम्मरनभेसु अणेसाइं रायसहस्साइं जाव समोसरह । तए णं से दूए तद्देव निगगच्छइ जेणेव  
 माग्गार जाव समोसरह । तए णं ताइं अणेगाइं रायसहस्साइं तस्स दूयस्स अंतिए एयमट्टं सोच्चा निसम्म  
 इट्ठं तं दूयं सक्कंति २, सम्ममणेंति २, पडिविसज्जिति; तए णं ते वासुदेवपासुकत्वा बहवे रायसहस्सा  
 पत्तयं २ षहाय्य सक्कइहत्थिखंघवरगया हयगयरह० महया भडचडगररहपहकर० सएहिं २ नगरेहितो  
 अभिनिग्यच्छंति २ जेणेव पंचाले जणवए तेणेव पहारेत्थ गमणाए ॥ सूत्रम्-१२३ ॥ तए णं से दुवए राया  
 कोडुबियपुरिसे सदावेइ २ एवं व०-गच्छह णं तुमं देवाणु० ! कंपिछपुरे नयरे बहिया गंगाए महानदीए  
 अदूरसामंते एगं महं सयंवरमंडवं करेह अणेगखंभसयसन्निविट्टं लीलट्टियसालभंजिआगं जाव पच्चिपणंति,  
 तए णं से दुवए राया कोडुबियपुरिसे सदावेइ २ एवं वयासी-खिण्णामेव भो देवाणुपिया ! वासुदेव-  
 पासुक्खणं बहूणं रायसहस्साणं आवासे करेह, तंवि करेत्ता पच्चिपणंति; तए णं दुवए वासुदेवपासु  
 क्खणं बहूणं रायसहस्साणं आगमं जाणेत्ता पत्तयं २ हत्थिखंघजावपरिवुडे अगं च पज्जं च गहाय

सविष्टिपुत्रं कंषिष्ठपुराओ निगच्छह २ जेणेव ते वासुदेवपासुकला बहवे रायसहस्सा तेणेव उवागच्छह २, ताई वासुदेवपासुकलाई अग्नेय य पत्नेय य सक्करेति सम्माणेह २ तेसि वासुदेवपासुकलाणं पत्तेयं २, आवासे वियरति, तए णं ते वासुदेवपासुकला जेणेव सया २ आवासा तेणेव उवा० २ हत्थिखंधाहिंतो पचोरुहंति २ पत्तेयं खंधावारनिवेशं करंति २ सए २ आवासे अणुपविसंति २, सएसु २, आवासेसु आसणेसु य सयणेसु य सन्निसन्ना य संतुयद्वा य बह्विहं गंधर्वेहि य नाडएहि य उवगिज्जमाणा य उवणच्चिज्ज-  
 माणा य विहरंति, तते णं से दुवए राया कंषिष्ठपुरं नगरं अणुपविसति २ विउलं असण ४ उवकखडावेह २ कोडुंबियपुरिसे सदावेह २ एवं व०-गच्छह णं तुमे देवाणुप्पिया ! विउलं असणं ४ सुरं च मज्जं च मंसं च सीधुं च पसणं च सुबहुपुप्फवत्थगंधमल्लालंकारं च वासुदेवपासुकलाणं रायसहस्साणं आवासेसु साहरह, तेधि साहरंति, तते णं ते वासुदेवपासुकला तं विपुलं असणं ४ जाव पसन्नं च आसाएमाणा ४ विहरंति, जिमियसुत्तरागयाविय णं समाणा आयंता जाव सुहासणवरगया बह्विहं गंधर्वेहि जाव विहरंति, तते णं से दुवए राया पुब्बावरहकालसमयसि कोडुंबियपुरिसे सदावेह २ ता, एवं व०-गच्छह णं तुमे देवाणुप्पिया ! कंषिष्ठपुरे संघाडग जाव पहे वासुदेवपासुकलाण य रायसहस्साणं आवासेसु हत्थिखंधवरगया महया २, सरेणं जाव उग्घोसेमाणा २, एवं वदह-एवं खलु देवाणु० कल्लं पाउ० दुवयस्स रणो धूयाए सुलणीए देवीए अत्तयाए धट्टज्जुणस्स भगिणीए दोवईए रायवरकणाए सयंवेरे भविस्सह,



तं तुभ्मे णं देवा० ! दुष्यं रायाणं अणुगिणहेमाणा णहाया जाव विभूसिया हत्थिलंधवरगया सकोरंट०  
 सेयवरचामर० हयगयरह० महया भडचरगरेणं जाव परिक्वित्ता जेणेव सयंवरमंडवे तेणेव उवा० २  
 पत्तेयं नामंकेसु आसणेसु निसीयह २ दोवइं रायकणं पडिवालेमाणा २ चिट्टह, घोसणं घोसेह २ मम  
 एयमाणत्तियं पच्चप्पिणह, तए णं ते कोडुबिया तहेव जाव पच्चप्पिणंति, तए णं से दुवए राया कोडुबिय-  
 पुरिसे सदा० २ एवं व०-गच्छह णं तुभ्मे देवाणु० ! सयंवरमंडपं आसियसंमज्जिओवलित्तं सुगंधवरगंधियं  
 पंचवणपुप्फुंजोवयारकलियं कालागरूपवरकुंडुरुक्कजाव गंधवट्टिभूयं मंचाहमंचकलियं करेह २  
 वासुदेवपासुक्खाणं बहूणं रायसहस्साणं पत्तेयं २ नामंकाइं आसणाइं अत्थुयपच्चत्थुयाइं एह २ एयमाण-  
 त्तियं पच्चप्पिणह, तेवि जाव पच्चप्पिणंति, तते णं ते वासुदेवपासुक्खा बहवे रायसहस्सा कल्लं पाउ०  
 णहाया जाव विभूसिया हत्थिलंधवरगया सकोरंट० सेयवरचामराहिं हयगय जाव परिवुडा सच्चिवट्ठीए  
 जाव रवेणं जेणेव सयंवरे तेणेव उवा० २ अणुपविसंति २ पत्तेयं २ नामंकेसु निसीयंति दोवइं रायवर-  
 कणं पडिवालेमाणा चिट्ठंति, तए णं से पंडुए राया कल्लं णहाए जाव विभूसिए हत्थिलंधवरगए सकोरंट०  
 हयगय० कंप्पिणपुरं मज्झंमज्जेणं निगच्छंति जेणेव सयंवरामंडवे जेणेव वासुदेवपासुक्खा बहवे राय-  
 सहस्सा तेणेव उवा० २ तेसिं वासुदेवपासुक्खाणं करयल० बद्धावेत्ता कणहस्स वासुदेवस्स सेयवरचामरं  
 गहाय उववीयमाणे विट्ठति ॥ सूत्रम्-१२४ ॥ तए णं सा दोवइं रायवरकन्ना जेणेव मज्जणधरे तेणेव उवा-

वच्छाह २ ष्हाया कयबलिकम्मा कयक्रोउयमंगलपायच्छिता सुद्धप्पावेसाइं मंगल्लाहं वत्थाइं पवर प्रसिद्धिया मज्जणघराओ पडिनिक्खमइ २ जेणेव जिणघरे तेणेव उवागच्छइ २ जिणघरं अणुपविसइ २ जिणपडिमाणं आलोए पमाणं करेइ २ लोमहत्थयं परामुसइ एवं जहा सूरियाओ जिणपडिमाओ अब्बइ २ तद्धेत्त भाणियल्लवं जाव धूवं डहइ २ वामं जाणुं अच्चेति दाहिणं जाणुं धरणियलंसि णिवेसेति २ तिक्खुत्तो सुद्धाणं धरणियलंसि नमेइ २ ईसिं पच्चुण्णमति करयल जाव कट्टु एवं वयासी-नमोऽस्थुणं अरिहंताणं अत्रांताणं जाव संपत्ताणं वंदइ नमंसइ २ जिणघराओ पडिनिक्खमति २ जेणेव अंतेउरे तेणेव उव्वमाच्छइ ॥ सूत्रम्-१२५ ॥

‘अज्जयाए’ति अद्यप्रसृति, ‘अग्घं च’ति अर्धं पुष्पादीनि पूजाद्रव्याणि, ‘पज्जं च’ति पादहितं पाद्यं-पादप्रक्षालन-वेहनोद्धर्चनादि, मद्यसीधुप्रसञ्चारुयाः सुरामेदा एव, ‘जिणपडिमाणं अच्चणं करेइ’ति एकस्यां वाचनायामेतावदेव इत्यन्ते, वाचनान्तरे तु ‘ष्हाया जाव सव्वांलंकारविभूसिया मज्जणघराओ पडिनिक्खमइ २ जेणामेव जिणघरे तेणामेव उवागच्छति २ जिणघरं अणुपविसइ २ जिणपडिमाणं आलोए पणामं करेइ २ लोमहत्थयं परामुसइ २ एवं जहा सूरियाओ जिणपडिमाओ अच्चेति तद्देव भाणियल्लवं जाव धूवं डहइ’ति इह यावत्करणात् अर्थत् इदं द्रव्यं-लोमहस्तकेन जिनप्रतिमाः प्रमाथिं सुरभिणा गन्धोदकेन लपयति गोशीर्षचन्दनेनानुलिम्पयति वस्त्राणि निचासयति, ततः पुष्पाणां माल्यानां-ग्रथिताना-मित्यर्थः, गन्धानां चूर्णानां वस्त्राणामावरणानां चारोपणं करोति स्म, मालाकलापावलम्बनं पुष्पप्रकरं तन्दुर्लैर्दर्यणाद्यष्टमङ्ग-

लालेखनं च करोति, 'घामं जाणुं अञ्चेइ'ति उत्थिपतीत्यर्थः, दाहिणं जाणुं धरणीतलंसि निहट्टु-निहल्य स्थापयित्वे-  
 त्यर्थः, 'तिक्खुत्तो सुद्धाणं धरणीतलंसि निवेसेइ-निवेशयतीत्यर्थः, 'ईसिं पच्छुब्बमति २ कतलपरिगगहिंयं  
 अञ्जलिं मत्थए कट्टु एवं वयासी-नमोत्थु णं अरहंताणं जाव संपत्ताणं वंदति नमंसति २ जिणघराओ पडि-  
 निक्खमइ'ति तत्र वन्दते चैत्यवन्दनविधिना प्रसिद्धेन नमस्यति पश्चात् प्रणिधानादियोगेनेति ब्रुद्धाः, न च द्रौपद्याः  
 प्रणिपातदण्डकमात्रं चैत्यवन्दनमभिहितं सूत्रे इति सूत्रमात्रप्रामाण्यादन्यस्यापि श्रावकादेस्तावदेव तदिति मन्तव्यं, चरिता-  
 नुवादरूपस्वादस्य, न च चरितानुवादवचनानि विधिनिषेधसाधकानि भवन्ति, अन्यथा स्वरिकाभादिदेववक्तव्यतायां बहूनां  
 शस्त्रादिवस्तूनामर्चनं श्रूयते इति तदपि विधेयं स्यात्, किञ्च-अविरतानां प्रणिपातदण्डकमात्रमपि चैत्यवन्दनं सम्भाव्यते,  
 यतो वन्दते नमस्यतीति पदद्वयस्य ब्रुहान्तरव्याख्यानेमेवमुपदर्शितं जीवाभिगमवृत्तिकृता-“विरतिमतामेव प्रसिद्ध-  
 चैत्यवन्दनविधिर्मवति, अन्येषां तथाऽभ्युपगमपुरस्सरकायोत्सर्गासिद्धेः, ततो वन्दते सामान्येन नमस्करोति आशयघृद्धेः  
 प्रीत्युत्थानरूपनमस्कारेणे'ति किञ्च-“समणेण सावएण य अवस्स कायघयं हवइ जम्हा । अंतो अहो निसिस्स य तम्हा  
 आवस्सयं नाम ॥ १ ॥” तथा “जणं समणो वा समणी वा सावओ वा साविया वा तच्चित्ते तल्लेसे तम्मणे उभओ  
 कालं आवस्सए चिट्ठति तन्नं लोउत्तरिए भावावस्सए” [श्रमणेन श्रावकेण चावश्यं कर्तव्यं भवति यस्मात् । अन्तरहो  
 निश्चायाश्च तस्मादावश्यकं नाम ॥ १ ॥ यत् श्रमणो वा श्रावको वा श्राविका वा तच्चित्तः तन्मनाः तल्लेइयः  
 उभयस्मिन् काले आवश्यकाय तिष्ठति तत् लोकोत्तरिकं भावावश्यकं] इत्यादेरनुयोगद्वारवचनात्, तथा 'सम्यग्दर्शन-

सम्पन्नः श्रवचनभक्तिमान् षड्विधावश्यकनिरतः षट्स्थानयुक्तश्च श्रावको भवती 'त्युमास्वातिवाचकवचनाच्च श्रावकस्य षड्विधावश्यकस्य सिद्धावावश्यकान्तर्गतं प्रसिद्धं चैत्यवन्दनं सिद्धमेव भवतीति ॥ १२५ ॥

तते णं से दोचइं रायवरकल्लं अंतेउरियाओ सन्वालंकारविभूसियं करंति किं ते ? वरपायपत्तणंउरा जाव वेडियाचक्कवालमयरगविदपरिक्खत्ता अंतेउराओ पड्डिणिक्लममति २ जेणेव बाहिरिया उचट्टाण-  
साला जेणेव चाउग्घंटे आसरहे तेणेव उवा० २ किड्ढावियाए लेहियाए सद्धिं चाउग्घंटे आसरहं दूरूहति,  
तते णं से घट्टज्जुणे कुमारे दोवतीए कण्णाए सारत्थं करेति, तते णं सा दोवती रायवरकण्णा कं पिच्छपुरं  
नयरं मज्झंमज्झेणं जेणेव सयंवरमंडवे तेणेव उवा० २ रहं ठवेति रहाओ पचोरूहति २ किड्ढावियाए  
लेहियाए य सद्धिं सयंवरं मंडपं अनुपविसति करयल तेसिं वासुदेवपामुक्खाणं बहूणं रायवरसहस्साणं  
पणामं करेति, तते णं सा दोवती रायवर० एणं महं सिरिदामगंडं किं ते ? पाडलमल्लियचंपय जाव सत्त-  
च्छयाईहिं गंधद्वणिं सुयंतं परमसुहफासं दरिसणिज्जं गिणहति, तते णं सा किड्ढाविया जाव सुरूवा जाव  
वामहत्थेणं चिच्छलगदप्पणं गहेज्जण सललियं दप्पणसंकंतबिंबं संदंसिए य से दाहिणेणं हत्थेणं दरिसिए  
पवररायसीहे फुडविसयचिसुद्धरिभियगंभीरमहुरभणिया सा तेसिं सन्वेसिं पत्थिवाणं अम्मपिऊणं वंस-  
सत्तसामत्थगेत्ताविकंतिकंतिबहुविहागममाहप्परूवजोव्वणुणालावणुकुलसीलजाणिया कित्तणं करेइ,  
पढमं ताव वणिहंपुंगवाणं दसदसारवीरपुरिसाणं तेलोक्कबलवगाणं सत्तुसयसहस्समाणवमइगाणं भव-

सिद्धिपवरपुंडरीयाणं चिह्नलगाणं बलधीरियरूवजोव्वणगुणलावन्नकित्तिया कित्तणं करोति, ततो पुणो  
 उग्गसेणमार्हणं जायवाणं, भणति य-सोहगगरूवकलिए वरेहि वरपुरिसगंधहत्थीणं । जो ह्नु ते होह  
 हियवइओ, तते णं सा दोवइं रायवरकक्कणा बहूणं रायवरसहस्साणं मज्झमज्झेणं समतिच्छमाणी २  
 पुव्वकयणियाणेणं चोइज्जमाणी २ जेणेव पंच पंडवा तेणेव उवा० २ ते पंचपंडवे तेणं दसद्धवणणेणं  
 कुसुमदाणेणं आवेदियपरिचेदियं करोति २ ता एवं वयासी-एए णं मए पंच पंडवा वरिया, तते णं तेसिं  
 वासुदेवपामोकत्वाणं बहूणि रायसहस्साणि महया २ सदेणं उग्घोसेमाणा २ एवं वयंति-सुवरियं खलु  
 भो ! दोवइए रायवरकक्काए २ त्तिकहु सयंवरमंडवाओ पडिनिक्लमंति २, जेणेव सया २ आवासा तेणेव  
 उवा०, तते णं घट्टज्जुण्णे कुमारे पंच पंडवे दोवतिं रायवरकक्कणं चाउग्घटं आसरहं दूरूहति २ ता  
 कंपिच्छपुरं मज्झमज्झेणं जाव सयं भवणं अणुपविसति, तते णं दुवए राया पंच पंडवे दोवइं रायवरकक्कणं  
 पट्टयं दुरूहेति २ सेयापीएहिं कलसेहिं मज्जावेति २ अग्गिहोमं कारवेति पंचणहं पंडवाणं दोवतीए य  
 पाणिग्गहणं करावेइ, तते णं से दुवए राया दोवतीए रायवरकक्कणयाए इमं एयारूवं पीतिदाणं दलयती,  
 तंजहा-अट्ट हिरण्णकोडीओ जाव अट्ट पेसणकारीओ दासचेडीओ, अण्णं च विपुलं घणकणग जाव  
 दलयति तते णं से दुवए राया ताइं वासुदेवपामोकत्वाइं विपुलेणं असण ४ वत्थगंध जाव पडिविसज्जेति  
 ॥सुत्रम्-१२६॥ तते णं से पंडू राया तेसिं वासुदेवपामोकत्वाणं बहूणं रा० करयल एवं व०-एवं खलु देवा० !

नवाङ्गी-  
३० ३०  
श्रीज्ञाता-  
वर्षक्याने  
॥ २१९ ॥

हृत्थिणाउरे नयरे पंचणहं पंडवाणं दोवतीए य देवीए कल्लणकरे भविस्सति तं तुब्भे णं देवा० ! ममं  
अणुगिणहमाणा अकालपरिहीणं समोसरह, तते णं वासुदेवपामोकखा पत्तेयं २ जाव पहरेतथ गमणाए ।  
तते णं से पंडुराया कोडुंबिययुरिसे सदा० एवं व०-गच्छह णं तुब्भे देवा० ! हृत्थिणाउरे पंचणहं पंडवाणं  
पंच पासायवडिसए कारेह अब्भुगयमूसिय वणणओ जाव पडिरूवे, तते णं ते कोडुंबियपुरिसा पडि-  
सुणेंति जाव करावेंति<sup>१</sup>, तते णं से पंडुए पंचहिं पंडवेहिं दोवईए देवीए सद्धिं हयगयसंपरिवुडे कंषिल्ल-  
पुराओ पडिनिकलमइ २ जेणेव हृत्थिणाउरे तेणेव उवागए, तते णं से पंडुराया तेसिं वासुदेवपामो-  
कखाणं आगमणं जाणित्ता कोडुंबि० सदावेइ २ एवं व०-गच्छह णं तुब्भे देवाणुत्पिया ! हृत्थिणाउरस्स  
नयरस्स बहिया वासुदेवपामोकखाणं बहूणं रायसहस्साणं आवासे कारेह अणेगखंभसय तहेव जाव  
पच्चत्पिणंति, तते णं ते वासुदेवपामोकखा बहवे रायसहस्सा जेणेव हृत्थिणाउरे तेणेव उवागच्छति, तते  
णं से पंडुराया तेसिं वासुदेवपामोकखाणं आगमणं जाणित्ता हट्टुट्टे णहाए कयबलि० जहा तुपए जाव  
जहारिहं आवासे दलयति, तते णं ते वासुदेवपा० बहवे रायसहस्सा जेणेव सयाइं २ आवासाइं तेणेव  
उवां० तहेव जाव विहरंति, तते णं से पंडुराया हृत्थिणाउरं णयरं अणुपविसति २ कोडुंबिय० सदावेति २  
एवं व०-तुब्भे णं देवा० ! विउलं असण ४ तहेव जाव उवणेंति, तते णं ते वासुदेवपामोकखा बहवे राया

१ इ एतदन्तर्गतः फटः अ प्रती नास्ति । १ उवा० २, ता त० अ ।

१६

अपरकङ्का-  
ज्ञाताव्य०  
हस्तिनापुरे  
पाण्डवादि-  
प्रवेशवर्णन-  
खत्रम् ।

॥ २१९ ॥

यथाया कथयलिकम्मा तं विपुलं असणं ४ तहेव जाव विहरंति, तते णं से पंडुराया पंच पंडवे दोवति च  
 देवि पट्टयं दुरुहेति २ सीयापीएहिं कलसेहिं ण्हार्वेति २ कल्लणकारं करेति २ ते वासुदेवपामोकवे बह्वे  
 रायसहस्से विपुलेणं असण ४ पुफवत्थेणं सक्कारेति सम्माणेति जाव पडविसज्जेति, तते णं ताहं वासु-  
 देवपामोकत्ताइं बहुहिं जाव पडिगयति ॥ सूत्रम्-१२७ ॥ तते णं ते पंच पंडवा दोवतीए देवीए सद्धि अंतो  
 अंतेउरपरियाल सद्धिं कल्लाकहिं वारंवारेणं ओरालातिं भोगभोगाहं जाव विहरति, तते णं से पंडू राया  
 अन्नया कयाई पंचहिं पंडवेहिं कौतीए देवीए देवीए य सद्धि अंतो अंतेउरपरियाल सद्धिं संपरि-  
 बुढे सीहासणवरगते यावि विहरति, इमं च णं कच्छुल्लणारए दंसणेणं अइभइए विणीए अंतो २ य कल-  
 सद्धियए मज्झत्थोवत्थिए य अल्लीणसोमपियदंसणे सुरूवे अमइलसगलपरिहिंए कालमियचम्मउत्तरासंग-  
 रइयवत्थे दण्डकमण्डलुहत्थे जडामउडदित्तिसिए जन्नोवइयगणेत्तियमुंजमेहलवागलधरे हत्थकयकच्छ-  
 भीए पियगंधन्वे धरणिगोयरण्णहाणे संवरणावरणओवयणउपपयणिलेसणीसु य संकामणिअभियोग-  
 पणत्तिगमणीथंभणीसु य बहुसु विज्जाहरीसु विज्जासु विस्सुयजसे इहे रामस्स य केसवस्स य पज्जुन्न-  
 पईवसंबअनिरुद्धणिसडम्मुयसारणगयसुहुहुम्मुहातीण जायवाणं अद्धुट्टाण कुमारकोडीणं हिययदइए  
 संथवए कलहजुद्धकोलाहलपिए भंडणाभिलासी बहुसु य समरसयसंपराएसु दंसणए समंतओ कलह-  
 सवक्खिणं अणुगवेसमाणे असमाहिकरे दसारववीरपुरिसिलोक्कबलवगाणं आमंतेजण तं भगवतीं एक्क-

मणि गगणगमणदच्छं उष्णहओ गगणमभिलंघयंतो गामागारनगरखेडकब्बडमडंबदोणमुहट्टणसंवाहसह-  
स्समंडियं थिमियमेहणीतलं वसुहं ओलोहंतो रम्मं हत्थिणाउरं उवागए पंडुराय भवणंसि अहवेगेण समो  
वइए, तते णं से पंडुराया कच्छुल्लनारयं एल्लमाणं पासति २ पंचहिं पंडवेहिं कुंतीए य देवीए सद्धि आस-  
णातो अब्भुट्टेति २ कच्छुल्लनारयं सत्तट्टपयाइं पच्चुग्गच्छइ २ तिकवुत्तो आयाहिणपयाहिणं करेति २  
बंदति णमंसति महुरिहेणं आसणेणं उवणिमंतेति, तते णं से कच्छुल्लनारए उदगपरिफोसियाए दब्भोवरि-  
पच्चत्थुयाए भिसियाए णिसीयति २ पंडुरायं रल्ले जाव अंतैउरे य कुसलोदंतं पुच्छइ, तते णं से पंडुराया  
कोतीदेवी पंच य पंडवा कच्छुल्लणारयं आढति जाव पज्जुवांसति, तए णं सा दोवई कच्छुल्लनारयं अस्स-  
जयं अविरयं अपडिहयपच्चक्खायपावकम्मंतिकहु नो आढति नो परियाणइ नो अब्भुट्टेति नो पज्जु-  
वासति ॥ सूत्रम्-१२८ ॥ तते णं तस्स कच्छुल्लणारयस्स इमेयारूवे अब्भत्थिए चित्तिए पत्थिए मणोगए  
संकप्पे ससुग्गल्लित्था अहो णं दोवती देवी रूवेणं जाव लावणेण य पंचहिं पंडवेहिं अणुबद्धा समाणी  
ममं णो आढति जाव नो पज्जुवासइ तं सेयं खल्लु मम दोवतीए देवीए विप्पियं करित्तएत्तिकहु एवं  
संपेहेति २ पंडुरायं आयुच्छइ २ उप्पयणिं विज्जं आवाहेति २ ताए उक्किट्ठाए जाव विज्जाहरगइए लवण-  
ससुइं मज्झमज्जेणं पुरत्थाभिमुहे वीहवत्तिउं पयत्ते यावि होत्था । तेणं कालेणं तेणं समएणं घायइसंडे  
दीवे पुरत्थिमद्धवाहिणहु भरहवासे अवरकंका णाम रायहाणी होत्था, तते णं अमरकंकाए रायहाणीए पड-



मणासे णामं राया होत्था महया हिमवंतं० बणञ्जो, तस्स णं पउमनाभस्स रत्तो सत्त देवीसयाति  
ओरोहे होत्था, तस्स णं पउमनाभस्स रण्णो सुनाभे नामं पुत्ते जुवरायायावि होत्था, तते णं से पउम-  
णासे राया अंतो अंतोरसि ओरोहसंपरिवुद्धे सिहासणवरगए विहरति, तए णं से कच्छुछणारए जेणेव  
अमरकंका रायहाणी जेणेव पउमनाहस्स भवणे तेणेव उवागच्छति २ पउमनाभस्य रत्तो भवणंसि झत्ति  
वेगेणं समोवहए, तते णं से पउमनासे राया कच्छुछनारयं एज्जमाणं पासति २ आसणातो अब्भुट्टेति २  
अग्घेणं जाव आसणेणं उवणिमंतेति, तए णं से कच्छुछनारए उदयपरिफोसियाए दब्भोचरिपच्चत्थुयाते  
भिसियाए निसीयह जाव कुसलोदंतं आपुच्छह, तते णं से पउमनाभे राया णिअगओरोहे जायविम्हए  
कच्छुछणारयं एवं व०-तुब्भं देवाणुप्पिया ! बहूणि गामाणि जाव गेहाति अणुपविससि, तं अत्थि-  
याहं तं क्हिचि देवाणुप्पिया ! एरिसए ओरोहे दिट्ठपुन्वे जारिसए णं मम ओरोहे !, तते णं से कच्छु-  
छनारए पउमनासेणं रत्ता एवं पुत्ते समाणे ईसि विहसियं करेह २ एवं व०-सरिसे णं तुमं पउम-  
णाभा ! तस्स अगडदुरस्स, के णं देवाणुप्पिया से अगडदहुरे !, एवं जहा मल्लिणाए एवं खलु देवा० !  
जंबूद्दीवे २ भारहे वासे हत्थिणाउरे दुपयस्स रण्णो धूया चूलणीए देवीए अत्तया पंडुस्स सुणहा पंचणहं  
पंडवाणं भारिया दोवती देवी रूवेण य जाव उक्किहसरीरा दोवईए णं देवीए छिन्नस्सवि पायंगुट्टयस्स अयं  
तव ओरोहे सतिमंयि कलं ण अग्घतिक्किहु, पउमणाभं आपुच्छति २ जाव पडिगए २, तते णं से पउम-

नाभे राया कच्छुल्लवारयस्स अंतिए एयमडं सोच्चा णिसम्म दोवतीए देवीए रूवे य ३ सुच्छिए ४ दोवईए अज्झोववसे जेणेव पोसहसाला तेणेव उव० २ पोसहसालं जाव पुव्वसंगतियं देवं एवं व०-एवं खल्लु देवा० ! जंबुद्दीवे २ भारहे वासे हत्थिणाउरे जाव सरीरा तं इच्छामि णं देवा० ! दोवतीं देवीं इहमाणियं, मते णं पुव्वसंगतिए देवे पउमनाभं एवं व०-नो खल्लु देवा० ! एयं भूयं वा भवं वा भविस्सं वा जणं दोवती देवी पंच पंडवे मोत्तूण अन्नेणं पुरिसेणं सद्धिं ओरालतिं जाव विहरिस्सति, तहाविय णं अहं तव पियट्टतयाए दोवतीं देविं इहं हव्वमाणेभि त्तिकहु पउमणाभं आपुच्छइ २ ताए उक्किट्टाए जाव लवणसमुदं मज्झमज्झेणं जेणेव हत्थिणाउरे णयरे तेणेव पहरेतथ गमणाए । तेणं कालेणं २ हत्थिणाउरे छुहिट्टिल्ले राया दोवतीए सद्धिं उप्पि आगासतलंसि सुहपसुत्ते यावि होत्था, तए णं से पुव्वसंगतिए देवे जेणेव छुहिट्टिल्ले राया जेणेव दोवती देवी तेणेव उवाग० २ दोवतीए देवीए ओसोवणियं दलयइ २ दोवतिं देविं णिणइ २ ताए उक्किट्टाए जाव जेणेव अमरकंका जेणेव पउमणाभस्स भवणे तेणेव उवा० २ पउमणाभस्स भवणंसि असोगवणियाए दोवतिं देवीं ठावेइ २ ओसोवणिं अवहरति २ जेणेव पउमणाभे तेणेव उ० २ एवं व०-एस णं देवा० ! मए हत्थिणाउराओ दोवती इह हव्वमाणीया तव असोगवणियाए चिद्धमि, अतो परं तुमं जाणसि त्तिकहु जामेव दिसि पाउभूए तामेव दिसि पडिणए । तते णं सा दोवई देवी मतो छुत्तंतरस्स पडिडुद्धा समाणी तं भवणं असोगवणियं च अपच्चभिजाणमानी एवं व०-नो

खलु अम्हं एसे सए भवणे णो खलु एसा अम्हं सगा असोगवणिया, तं ण णज्जति णं अहं केणइ देवेण  
 वा दाणवेण वा किंपुरिसेण वा किन्नरेण वा महोरगेण वा गंधवेण वा अन्नस्स रण्णो असोगवणियं साह-  
 रिय त्तिकहु ओहयमणसंकप्पा जाव क्षियायति, तते णं से पउमणासे राया णहाए जाव सव्वालंकार भूसिए  
 अंतैउपरियालसंपरिवुडे जेणेव असोगवणिया जेणेव दोवती देवी तेणेव उवा० २ दोवतीं देवीं ओहय०  
 जाव क्षियायमाणीं पासति २ ता एवं व०-किण्णं तुमं देवा० ! ओहय जाव क्षियाहि १, एवं खलु तुमं  
 देवा० ! मम पुव्वसंगतिएणं देवेणं जंबुद्दीवाओ २ भारहाओ वासाओ हत्थिणापुराओ नयराओ जुहि-  
 द्विच्छस्स रण्णो भवणाओ साहरिया तं मा णं तुमं देवा० ! ओहय० जाव क्षियाहि, तुमं मए सद्धिं विपु-  
 लाइं भोगभोगाईं जाव विहराहि, तते णं सा दोवती देवी पउमणाभं एवं व०-एवं खलु देवा० ! जंबूद्दीवे  
 २ भारहे वासे बारवतिए णयरीए कण्हे णामं वासुदेवे ममपियभाउए परिवसति, तं जति णं से छण्हं  
 मासाणं ममं कूवं नो ह०मागच्छइ तते णं अहं देवा० ! जं तुमं वदसि तस्स आणाओवायवयणणिदेसे  
 चिट्ठिस्सामि, तते णं से पउमे दोवतीए एयमट्टं पडिसुणेत्ता २ दोवतिं देविं कण्णतेउरे ठवेति, तते णं सा  
 दोवती देवी छट्टंछट्टेणं अनिक्खित्तेणं आयंबिलपरिग्गहिएणं तवोक्कमेणं अरुपाणं भावेमाणी विहरति  
 ॥सूत्रम्-१२९॥ तते णं से जुहुट्ठिल्ले राया तओ मुहुत्तंतरस्स पडिबुद्धे समाणे दोवतिं देविं पासे अपासमाणो  
 सयणिज्जाओ उट्टेइ २ ता दोवतीए देवीए सव्वओ समंता मग्गणवेसणं करेइ २ ता दोवतीए देवीए

कथए सुहं वा खुहं वा पवति वा अलभमाणे जेणेव पंडुराया तेणेव उवा० २ ता पंडुरायं एवं व०-एवं  
खलु ताओ ! ममं आगासतलंगंसि पसुत्तस्स पासातो दोवती देवी ण गज्जति केणह देवेण वा दाणवेण  
वा किन्नरेण वा महोरगेण वा गंधव्वेण वा हिया वा गीया वा अवक्खित्ता वा !, हच्छामि णं ताओ !  
दोवतीए देवीए सब्वतो समंता मग्गणगवेसणं कयं, तते णं से पंडुराया कोडुंबियपुरिसे सदावेह २ एवं व०-  
गच्छह णं तुब्भे देवा० ! हत्थिणाउरे नयरे सिंघाडगतियचउक्कचरमहापहहेसु महया २ सवेणं उग्घोसे-  
माणा २ एवं व०-एवं खलु देवा० ! जुहिद्विच्छस्स रणो आगासतलंगंसि सुहपसुत्तस्स पासातो दोवती देवी  
ण गज्जति केणह देवेण वा दाणवेण वा किपुरिसेण वा किन्नरेण वा महोरगेण वा गंधव्वेण वा हिया वा  
नीया वा अवक्खित्ता वा, तं जो णं देवाणुप्पिया ! दोवतीए देवीए सुतिं वा जाव पवितिं वा परिकहेति  
त्तस्स णं पंडुराया विउलं अत्थसंपयाणं दाणं दलयति त्तिकहु घोसणं घोसावेह २ एयमाणत्तियं पच्चप्पिणह,  
तते णं ते कोडुंबियपुरिसा जाव पच्चप्पिणंति तते णं से पंडू राया दोवतीए देवीए कत्थति सुहं वा जाव  
अलभमाणे कौतीं देवीं सदावेति २ एवं व०-गच्छह णं तुमं देवाणु० ! बारवतिं णयारिं कणणस्स वासुदेवस्स  
णयमट्टं णिबेदेहि, कणहे णं परं वासुदेवे दोवतीए मग्गणगवेसेणं करेज्जा, अन्नहा न नज्जह दोवतीए देवीए  
सुतीं वा खुतीं वा पवतीं वा उवलभेज्जा, तते णं सा कौती देवी पंडुरण्णा एवं वुत्ता समाणी जाव  
पडिसुणेह २ ण्हाया कयबलिकम्मा हत्थिखंधवरगया हत्थिणाउरं मज्झंमज्जेणं णिग्गच्छह २ कुरु-

जणवयं मज्झमज्झेणं जेणेव सुरहुजणवए, जेणेव बारवती णयरी, जेणेव अग्गुज्जाणे, तेणेव उवा० २ हत्थि-  
खंधाओ पच्चोरुहति २ कोडुंबियपुरिसे सद्दा० २ एवं व०-गच्छह णं तुब्भे देवा० ! जेणेव बारवई णयरिं<sup>१</sup>  
बारवतिं णयरिं अणुपविसहर, कण्हं वासुदेवं करयल एवं वयह-एवं खलु सामी ! तुब्भं पिउच्छा कौती  
देवी हत्थिणाउराओ नयराओ इह हव्वमागया तुब्भं दंसणं कंखति, तते णं ते कोडुंबियपुरिसा जाव  
कहँति, तते णं कण्हे वासुदेवे कोडुंबियपुरिसाणं अंतिए सोच्चा णिसम्मं हत्थिखंधवरगए ह्यगय बार-  
वतीए य मज्झमज्झेणं जेणेव कौती देवी तेणेव उ० २, हत्थिखंधातो पच्चोरुहति २, कौतीए देवीए पाय-  
ग्गहणं करेति २, कौतीए देवीए सद्धि हत्थिखंधं दुरुहति २, बारवतीए णयरीए मज्झमज्झेणं जेणेव सए  
गिहे तेणेव उवा० २, सयं गिहं अणुपविसति । तते णं से कण्हे वासुदेवे कौती देविं प्हायं कयबलिकम्मं  
जिमियशुत्तुरागयं जाव सुहासणवरगयं एवं व०-संदिउड णं पिउच्छा ! किमागमणपओयणं ?, तते णं  
सा कौती देवी कण्हं वासुदेवं एवं व०-एवं खलु पुत्ता ! हत्थिणाउरे णयरे जुहिद्धिस्स आगासतले सुह-  
पसुत्तस्स दोबती देवी पासाओ ण णब्बति केणइ अवहिया जाव अवक्खित्ता वा, तं हच्छामि णं पुत्ता !  
दोबतीए देवीए मग्गणगवेसणं कयं, तते णं से कण्हे वासुदेवे कौती पिउच्छि एवं व०-जं णवरं पिउच्छा !  
दोबतीए देवीए कत्थइ सुइं वा जाव लभामि तो णं अहं पायालाओ वा भवणाओ वा अद्धभरहाओ वा

१ णं x x x x x x x x अं अ । २ म० इट्ट० ह० अ ।

समन्तथो दोषति साहति उवणेमि त्तिक्कट्टु कौतीं पिउत्थि सक्कारेति सम्माणेति जाव पडिविसज्जेति, तते णं सा कौती देवी कण्हेण वासुदेवेणं पडिविसल्लिया समानी जामेव दिसि पाउ० तामेव दिसि पडि० । तते णं से कण्हे वासुदेवे कोडुंबियपुरिसे सदा० २ एवं व०-गच्छह णं तुम्भे देवा० ! बारवति एवं जहा पंडू तहां घोसणं घोसावेति जाव पच्चग्गिणंति, पंडुस्स जहा, तते णं से कण्हे वासुदेवे अन्नया अंतो अंते-उरगए ओरोहे जाव विहरति, इमं च णं कच्छुल्लए जाव समोवइए जाव णिसीहत्ता कण्हं वासुदेवं कुसलोदंतं पुच्छइ, तते णं से कण्हे वासुदेवे कच्छुल्लं एवं व०-तुमं णं देवा० ! बहूणि गामा जाव अणु-पधिससि, तं अत्थि याइं ते कर्हिचि दोवतीए देवीए सुती वा जाव उवलद्धा !, तते णं से कच्छुल्ले कण्हं वासुदेवं एवं व०-एवं खलु देवा० ! अन्नया धायतीसंढे दीवे पुरत्थिमद्धं दाहिणद्धुभरहवासं अवरकंकाराय-हाणि गए, तत्थ णं मए पउमनाभस्स रत्तो भवणंसि दोवती देवी जारिसिया दिट्ठपुब्बा यावि होत्था, तते णं कण्हे वासुदेवे कच्छुल्लं एवं व०-तुम्भं चैव णं देवाणु० ! एवं पुब्बकम्मं, तते णं से कच्छुल्लनारए कण्हेणं वासुदेवेणं एवं बुत्ते समणे उप्पयणि विज्जं आवाहेति २, जामेव दिसि पाउब्भूए तामेव दिसि पडिगए, तते णं से कण्हे वासुदेवे दूयं सदावेइ २, एवं व०-गच्छह णं तुमं देवा० ! हत्थिणाउरं पंडुस्स रत्तो एयंमद्धं निवेदेहि-एवं खलु देवाणु० ! धायइसंढे दीवे पुरच्छिमद्धे अवरकंकारए रायहाणीए पउमणाभ-भवणंसि दोवतीए देवीए पउत्ती उवलद्धा, तं गच्छंतु पंच पंडवा चाउरंगिणीए सेणाए सद्धिं संपुरिबुडा

पुरत्थिमवेयालीए ममं पडिवालेमाणा चिहंतु, तते णं से दूए जाव भणति, पडिवालेमाणा चिह्ह, तेवि  
 जाव चिहंतति, तते णं से कण्हे वासुदेवे कोहुंविपुुरिसे सदावेइ २ ता, एवं व०-गच्छह णं तुब्भे देवा० ।  
 सन्नाहियं भेरिं ताडेह, तेवि तालेंति, तते णं तीसे सण्णाहियाए भेरीए संहं सोच्चा समुहविजयपामोक्खा  
 दसदसोरा जाव छप्पणं बलवयसाहस्सीओ सन्नद्धबद्ध जाव गहियाउहपहरणा अप्पेगतिया ह्यगया  
 गयगया जाव वगुरापपरिक्खत्ता जेणेव सभा सुधम्मा जेणेव कण्हे वासुदेवे तेणेवं २, करयल जाव  
 वद्धावेंति, तते णं कण्हे वासुदेवे हत्थिखंधवरगए सक्कोरेंदमल्लदाभेणं छत्तेणं० सेयवर० ह्यगय० महया  
 भडचडगरपहकरेणं बारवती णयरी मज्झमज्झेणं णिग्गच्छति, जेणेव पुरत्थिमवेयाली तेणेव उवा० २,  
 पंचहिं पंडवेहिं सद्धिं एगयओ मिलइ २, खंधावारणिवेसं करेति २, पोसहसालं अणुपविसति २, सुट्टियं  
 देवं मणसि करेमाणे २, चिह्हति, तते णं कण्हस्स वासुदेवस्स अट्टमभत्तंसि परिणममाणंसि सुट्टिओ  
 आगतो, भण देवा० ! जं मए कायव्वं, तते णं से कण्हे वासुदेवे सुट्टियं एवं व०-एवं खलु देवा० ! दोवती  
 देवी जाव पउमनाभस्स भवणंसि साहरिया तणं तुमं देवा० ! मम पंचहिं पंडवेहिं सद्धिं अप्पच्छट्टस्स  
 छहं रहणं लवणसमुहे मग्गं वियरेहि, जणं अहं अमरकंकारायहाणीं दोवतीए कूवं गच्छामि, तते णं  
 से सुट्टिए देवे कण्हं वासुदेवं एवं वयासी-किण्हं देवा० ! जहा चेव पउमणाभस्स रत्तो पुब्बसंगतिएणं

देवेणं दोवती जाव संहरिया तथा चैव दोवतिं देविं धायतीसडाओ दीवाओ भारहाओ जाव हत्थिणापुरं साहरामि, उदाहु पउमणांभं रायं सपुरबलवाहणं लवणसमुदे पक्खिवामि !, तते णं कण्हे वासुदेवे सुट्टियं देवं एवं व०-मा णं तुमं देवा० ! जाव साहराहि तुमं णं देवा० ! लवणसमुदे अप्पच्छट्टस्स छण्हं रहाणं मगं चियराहि, सयमेव णं अहं दोवतीए कूवं गच्छामि, तए णं से सुट्टिए देवे कण्हं वासुदेवं एवं चयासी-एवं होउ, पंचहिं पंडवेहिं सद्धिं अप्पच्छट्टस्स छण्हं रहाणं लवणसमुदे मगं वितरति, तते णं से कण्हे वासुदेवे चाउरंगिणीसेणं पढिविसल्लेति २, पंचहिं पंडवेहिं सद्धिं अप्पच्छट्ट छहिं रहेहिं लवणसमुदं मज्झमज्झेणं बीतीवयति २, जेणेव अमरकंका रायहाणी जेणेव अमरकंकाए अग्गुज्जाणे तेणेव उवागच्छइ २, रं ठवेइ २, दारुयं सारहिं सदावेति एवं व०-गच्छह णं तुमं देवा० ! अमरकंकारायहाणीं अणुपविसाहि २, पउमणाभस्स रण्णेो वामेणं पाएणं पायपीढं अक्कमित्ता कुंतगेणं छेहं पणामेहि तिवलयं भिउडिं णिडाले साहहु आसुरुत्ते रुढे कुद्धे कुविए चंडिकिए एवं व०-हं भो पउमणाहा ! अपत्थियपत्थिया दुरंतपंतलक्खणा हीणुक्खचाउइसा सिरीहिरिधीपरिवल्लिया अज्ज ण भवसि किन्नं तुमं ण याणासि कण्हस्स वासुदेवस्स भगिणिं दोवतिं देविं इहं हव्वं आणमाणे, तं एयमवि गए पच्चप्पिणाहि णं तुमं दोवतिं देविं कण्हस्स वासुदेवस्स अहव णं कुद्धसल्ले णिग्गच्छाहि, एस णं कण्हे वासुदेवे पंचहिं पंडवेहिं अप्पच्छट्टे दोवतीदेवीए कूवं हव्वमागए, तते णं से दारुए सारही कण्हेणं वासुदेवेणं एवं बुत्ते समाणे हट्टुट्टे जाव पडिसुणेइ २, अमरकंका-



रायहाणि अणुपविसति २, जेणेव पउमनाहे तेणेव उवा० २, करयल जाव वद्धावेत्ता एवं व०-एस णं सामी !  
 मम विणयपखिविची इमा मम सामिस्स ससुहाणत्ति त्तिकट्टु आसुरुत्ते वामपाएणं पायपीढं अणुक्कमति  
 २, कौतगेणं लेहं पणामति २ ता, जाव क्कवं हव्वमागए, तते णं से पउमणाभे दारुणेणं सारहिणा एवं  
 बुत्ते समाणे आसुरुत्ते तिवलिं भिउडिं निडाले साहट्टु एवं व०-णो अप्पिणामि णं अहं देवा० ! कणहस्स  
 वासुदेवस्स दोवति, एस णं अहं सयमेव जुञ्झसज्जो णिग्गच्छामि त्तिकट्टु दारुयं सारहिं एवं व०-केवलं  
 भो ! रायसत्थेसु दूये अबज्जे त्तिकट्टु असक्कारिय असम्मणिय अबदारेणं णिच्छुभावेति, तते णं से दारुए  
 सारही पउमणाभेणं असक्कारिय जाव णिच्छूढे समाणे जेणेव कणहे वासुदेवे तेणेव उ० २, करयल० कणहं  
 जाव एवं व०-एवं खल्लु अहं सामी ! तुंभं वयणेणं जाव णिच्छुभावेति, तते णं से पउमणाभे बलवाउयं  
 सदावेति २ एवं व०-खिप्पामेव भो देवाणु० ! आभिसेक्कं हत्थिरयणं पडिकप्पेह, तयाणंतरं च णं छेया-  
 यरियउवदेसमहविकप्पणाविगप्पेहिं जाव उवणेति, तते णं से पउमनाहे सन्नद्ध० अभिसेयं० दूरूहति २,  
 हयगय जेणेव कणहे वासुदेवे तेणेव पहारेत्थ गमणाए, तते णं से कणहे वासुदेवे पउमणाभं रायाणं  
 एज्जमाणं पासति २, ते पंच पंडवे एवं व०-हं भो दारगा ! किन्नं तुंभे पउमनाभेणं सद्धिं जुञ्झहिह  
 उयाहु पेच्छहिह ? , तते णं ते पंच पंडवा कणहं वासुदेवं एवं व०-अम्हे णं सामी ! जुञ्झामो तुंभे  
 पेच्छह, तते णं पंच पंडवे सणणद्ध जाव पहरणा रहे दुरूहंति २ जेणेव पउमनाभे राया तेणेव उ० २, एवं

व०-अम्हे पउमणाभे वा राय त्तिकहु पउमनाभेणं सद्धिं संपलग्गा यावि होत्था, तते णं से पउमनाभे राया ते पंच पंडवे खिप्पामेव हयमहियपवरविबडियचिन्धद्धयपडागा जाव दिसोदिसि पडिसेहेत्ति, तते णं ते पंच पंडवा पउमनाभेणं रत्ता हयमहियपवरविबडिय जाव पडिसेहिया समाणा अत्थामा जाव अघारणिज्जत्तिकहु जेणेव कण्हे वासुदेवे तेणेव उवा०, तते णं से कण्हे वासुदेवे ते पंच पंडवे एवं व०-कहणं तुंभे देवाणु० ! पउमणाभेण रत्ता सद्धिं संपलग्गा ?, तते णं ते पंच पंडवा कण्हे वासुदेवं एवं व०-एवं खलु देवा० ! अम्हे तुंभेहिं अंभणुत्ताया समाणा सबद्ध० रहे दुरुत्तामो २, जेणेव पउमनाभे जाव पडिसेहेत्ति, तते णं से कण्हे वासुदेवे तं पंच पंडवे एवं व०-जति णं तुंभे देवा० ! एवं वयंता अम्हे णो पउमनाभे राय त्तिकहु पउमनाभेणं सद्धिं संपलगंता तो णं तुंभे णो पउमणाहे हयमहियपवर जाव पडिसेहंते, तं पेच्छह णं तुंभे देवा० ! अहं नो पउमणाभे राय त्तिकहु पउमनाभेणं रत्ता सद्धिं जुज्झामि रहं दुरुहति २ जेणेव पउमनाभे राया तेणेव उवाग० २ सेयं गोखीरहारघवलं तणसोत्थियसिंदुवारकुंदे-दुसन्निगासं निययबलस्स हरिसज्जणं रिउसेणविणासकरं पंचवणं संबं परासुसति २, सुहवायपूरियं करोति; तते णं तस्स पउमणाहस्स तेणं संबसहेणं बलतिभाए हते जाव पडिसेहिए, तते णं से कण्हे वासुदेवे धणुं परासुसति वेहो धणुं पूरेति २, धणुसहं करोति; तते णं तस्म पउमनाभस्स दोबे बलतिभाए तेणं धणुसहेणं हयमहिय जाव पडिसेहिए, तते णं से पउमणाभे राया तिभागबलावसेसे अत्थामे अबले

अवीरिए अयुरिसकारपरकम्मे आधारणिज्ज त्तिकट्टु सिग्घं तुरियं जेणेव अमरकंका तेणेव उ० २, अमरकंका  
 रायहाणि अणुपचिसति २, दारारतिं पिहेति २, रोहसज्जे चिद्धति; तते णं से कण्हे वासुदेवे जेणेव अमरकंका  
 तेणेव उ० २ रहं ठवेति २, रहातो पच्चोरुहति २, वेउच्चियसमुघाएणं समोहणति; एणं महं णरसीहरूवं  
 चिउच्चति २, महया २, सहेणं पाददहरियं करेति; तते णं से कण्हेणं वासुदेवेणं महया २, सहेणं पाददह-  
 रणं कएणं समणेणं अमरकंका रायहाणी संभग्गपागारगोपुराट्टालयचरियतोरणपल्हत्थियपवरभवण-  
 सिरिधरा सरस्सरस्स धरणिगले सन्निवहया, तते णं से पउमणाभे राया अमरकंका रायहाणि संभग्ग  
 जाव पासित्ता भीए दोवतिं देविं सरणं उवेति, तते णं सा दोवई देवी पउमनाभं रायं एवं व०-किण्णं  
 तुमं देवा० ! न जाणसि कण्हस्स वासुदेवस्स उत्तमपुरिसस्स विप्पियं करेमाणे ममं इह हव्वमाणेसि, तं  
 एवमवि गए गच्छह णं तुमं देवा० ! ण्हाए उल्लपडसाडए अवचूलगवत्थणियत्थे अंतेउरपरियालसंपरिवुडे  
 अग्गहं वराहं रयणाहं गहाय ममं पुरतो काउं कण्हं वासुदेवं करयलपायपडिए सरणं उवेहि, पणिवइय-  
 वच्छला णं देवाणुप्पिया ! उत्तमपुरिसा, तते णं से पउमनाभे दोवतीए देवीए एयमट्टं पडिसुणेति २, ण्हाए  
 जाव सरणं उवेति २, करयल० एवं व०-दिट्ठा णं देवाणुप्पियाणं इट्ठी जाव परक्कमे तं खाभेमि णं देवाणु-  
 प्पिया ! जाव खमंतु णं जाव णाहं सुल्लो २ एवंकरणयाए त्तिकट्टु पंजलिबुडे पायवडिए कण्हस्स वासुदेवस्स  
 दोवतिं देविं साहत्थि उवणेति, तते णं से कण्हे वासुदेवे पउमणाभं एवं व०-हं भो पउमणाभा !

अप्यत्थियपत्थिया ४ किण्णं तुमं ण जाणसि मम भगिणि दोवतीं देवीं इह हव्वमाणमाणे तं एवमवि  
गए णत्थि ते ममाहिंती ह्याणिं भयमत्थि त्तिक्कहु पडमणाभं पड्विसिज्जेत्ति, दोवतिं देविं गिणहति २, गहं  
दुरूहेत्ति २, जेणेव पंच पंडवे तेणेव उवा० २, पंचहं पंडवाणं पंडवाणं दोवतिं देविं साहत्थि उवणेत्ति; तने णं मे  
कणेहं पंचहिं पंडवेहिं सद्धिं अप्पच्छे छहिं रहेहिं लवणससुहं मज्झंमज्जेणं जेणेव जंबुदीवे २, जेणेव  
भारहे धासे तेणेव पहरेत्य गमणाए ॥ सूत्रम्-१३० ॥

‘सारत्थं’ति सारथ्यं सारथिकर्म, ‘तए णं सा किद्धाविए’त्यादौ यावत्करणदेवं दृश्यं-‘साभावियहंमा चोद्दहजणस्म  
उत्सुयकरं विचिचमणिरयणबद्धच्छरुहं’ति, तत्र क्रीडापिका-क्रीडनघात्री ‘साभावियहंस’त्ति साङ्काविकः-अकैतवकृतो घर्षो-  
वर्षणं यस्य स तथा तं दर्पणमिति योगः, ‘बोद्दहजणस्स ऊत्सुयकरे’ति तरुणलोकस्य औत्सुक्यकरं-ग्रेक्षणलम्पटत्वकरं  
‘विचिचमणिरयणबद्धच्छरुहं’ति विचित्रमणिरत्नैर्बद्धः छल्लो-दृष्टिग्रहणस्थानं यस्य स तथा तं ‘चिच्छरुं’-दीप्यमानं  
दर्पणम्-आदर्शम्, ‘दर्पणसंकंत विबसंदंसिए य से’चि-दर्पणे सङ्कान्तानि यानि राज्ञां विम्बानि-प्रतिविम्बानि तैः संद-  
क्षिताः-उपलम्भिता ये ते तथा तांश्च से-तस्या दक्षिणहस्तेन दर्शयति स्म द्रोपद्या इति प्रक्रमः प्रवरराजसिंहान्, स्फुटमर्थतो  
विशदं वर्णतः विशुद्धं शब्दार्थदोषरहितं रिभितं-स्वरघोलनाप्रकारोपेतं गम्भीरं-मेघशब्दवत् मधुरं-कर्णसुखकरं भणितं-भाषितं  
यस्याः क्रीडापिकायाः सा तथा तां, मातापितरौ वंशं-हरिवंशादिकं सत्त्वं-आणत्सवैक्लव्यकरमध्यवसानकरं च सामर्थ्यं-बलं,  
गोभ्रं-गौतमगोत्रादि, विक्रान्तिं-विक्रमं, कान्तिं-प्रभां, पाठान्तरेण कीर्त्तिं वा-प्रख्यातिं बहुविधागमं-नानाविधशास्त्रवि-

शारदमित्यर्थः; महात्स्यं-महाबुभावतां, कुलं-वंशस्यावान्तरमेदं शीलं च-खभावं जानाति या सा तथा कीर्त्तनं करोति स्मेति, वृष्णिपुङ्गवानां-यदुपुङ्गवानां यदुप्रधानानां दशाराणां-समुद्रविजयादीनां दशारस्य वा-वासुदेवस्य ये वरा वीराश्च पुरुषास्ते तथा ते च ते त्रैलोक्येऽपि बलवन्तश्चेति विग्रहस्ततस्तेषां, शत्रुशतसहस्राणां-रिपुलक्षणां मानमवसृद्दन्ति ये ते तथा तेषां तथा भविष्यतीति भवा-भाविनी सा सिद्धिर्षेषां ते भवसिद्धिकास्तेषां मध्ये वरपुण्डरीकाणीव वरपुण्डरीकाणि ये ते तथा तेषां 'चिह्नगाणं'ति-दीप्यमानानां तेजसा तथा बलं-शरीरं, वीर्यं-जीवप्रभवं, रूपं-शरीरसौन्दर्यं, यौवनं-तारुण्यं, गुणान्-सौन्दर्यादीन्, लावण्यं च-स्पृहणीयतां कीर्त्तयति या सा तथा, क्रीडापिका कीर्त्तनं करोति स्म, पूर्वोक्तमपि किञ्चिद्विशेषाभिधाना-याभिहितमिति न दुष्टं, 'समइच्छमाणी'ति समतिक्रामन्ती, 'दसखवणेणं'तीह श्रीदामगण्डेन पूर्वगृहीतेनेति सम्बन्धनीयं 'कल्याणकारे'चि-कल्याणकरणं मङ्गलकरणमित्यर्थः; 'इमं च णं'ति इतश्च 'कण्ठुल्लानारए'चि-एतन्नामा तापसः, इह क्वचिधावत्करणादिदं द्रस्यं, 'दंसणेणं अह भइए' भद्रदर्शन इत्यर्थः; 'विणीए अंतो य कलुसहियए' अन्तरान्तरा दुष्टचित्तः केलीप्रियत्वादित्यर्थः; 'मञ्जस्यउवत्थिए य' माण्यस्थं-समतामभ्युपगतो व्रतग्रहणत इति भावः; 'अल्लीण-सोमपियदंसणे सुरुवे' आलीनानां-आश्रितानां सौम्यं-अरौद्रं प्रियं च दर्शनं यस्य स तथा 'अमइलसगलपरिहिए' अमलिनं सकलं-अखण्डं अकलं वा खण्डं बलकवास इति गम्यते परिहितं-निवसितं येन स तथा, 'कालमियचम्मउत्तरा-संगरइयवत्थे' कालमृगचर्म उत्तरासङ्गेन रचितं वक्षसि येन स तथा 'दंडकमंडलुइत्थे जडामउडदित्तिसिए जन्नोवइयगणेत्तियमुंजमेहलावागलधरे' गणेत्रिका-रुद्राक्षकृतं कलाचिकामरणं मुञ्जमेखला-मुञ्जमयः कटीदवरकः

वरकलं-तरुवक्क, 'हृत्थकयकच्छमीए'-कच्छपिका तदुपकरणविशेषः, 'पियगंघव्वे'-गीतप्रियः, 'घरणिगोयरप्पहाणे'-  
आकाशगामिस्त्वात्, 'संवरणावरणउवयणिलेसणीसु य संकामणिअभिओगपणत्तिगमणीथमणीसु य बहुसु विज्जाहरीसु विआसु  
विस्सुयज्जे' इह सञ्चरण्यादिविद्यामार्थः शब्दानुसारतो वाच्यः, 'विज्जाहरिसु'त्ति-विद्याधारसम्बन्धिनीषु विश्रुतयन्त्राः-  
ख्यातकीर्त्ति, 'इट्टे रामस्स केसवस्स य पज्जुञ्जपईवसंबअनिरुद्धनिसहउम्मयसारणयसुसुहुड्मुद्दाईणं  
जायवाणं अद्धट्टाणं कुमारकोडीणं हिययदइए' बल्लम इत्यर्थः, 'संथवे' एतेषां संस्तावकः, 'कलहजुद्धकोलाह-  
लप्पिए' कलहो-वाग्युद्धं युद्धं तु-आयुधयुद्धं कोलाहलो-बहुजनमहाध्वनिः; 'भंडणाभिलासी'-भंडनं पिष्टातक्रादिभिः  
'बहुसु य समरसंपराएसु'-समरसञ्जामेधित्यर्थः, 'दंसणए समंतओ कलहं सदक्खिणं' सदानमिन्यर्थः,  
'अणुणवेसमाणे असमाहिकरे दसारवरवीरपुरिसतेलोक्कबलवगाणं आमंतेऊणं तं भगवति एकमणिं  
गमणत्थं उप्पइओ गगणतलमभिलंघयंतो गामागरनगरखेडकब्बडमंडबदोणसुहपट्टणसंथाहसहस्समंडियं  
थिमिधमिइणीयं णिब्भरजनपदं बसुहं ओलोयंतो रम्मं हत्थिणपुरं उवागए' 'असंजयअविरयअप्पडिहय-  
पच्चक्वायपावकम्मत्तिक्कु' असंयतः संयभरहितत्वात् अविरतो विशेषतस्तपस्यरत्त्वात् न प्रतिहतानि-न प्रतिषेधितानि  
अतीतकालकृतानि निन्दनतः न प्रत्याख्यातानि च भविष्यत्कालभावीनि पापकर्माणि-प्राणातिपातादिक्रिया येन अथवा  
न प्रतिहतानि साणरोपमकोटीकोट्यन्तःप्रवेशनेन सम्पक्त्वलाभतः न च प्रत्याख्यातानि साणरोपमकोटीकोट्याः सङ्घात-  
साणरोपमैर्न्यूनताकरणेन सर्वविरतिलाभतः पापकर्माणि-ज्ञानावरणादीनि येन स तथेति पदत्रयस्य कर्मधारयः, 'कूव' 'ति-

क्लृप्तकं व्यावर्त्तकबलमिति भावः, 'सुहं च 'चित्-श्रूयते इति श्रुतिः-शब्दः तां, 'सुनि च 'चि श्रुतिः छीत्कारादि-  
 शब्दविशेष एव तां प्रयुक्तिं-वार्त्ता, वार्त्तापर्यायाश्चैते इति, 'हिया च 'चि-हता प्रदेशान्तरे स्थापिता, 'नीता' नेत्रा  
 स्वस्थानं प्रापिता 'आक्षिपिता' आकृष्टेति, 'इमा अणो'त्यादि, इयमन्या अपरा मदीयस्वामिनः सम्बन्धिनी  
 विनयप्रतिपत्तिरिति वर्त्तते, 'समुहाणत्ति त्तिक्कु' स्वमुखेन स्वकीयवदनेन भणिता आज्ञप्तिः-आदेशः स्वगुलाज्ञप्ति-  
 रितिकृत्वा-एवमभिधाय, 'आसुरुते 'चि कुद्धः, 'बलवाउए 'चि-बलव्यापृतः सैन्यव्यापारवाच्, 'अभिसेक्क 'न्ति-  
 अभिषेकमहतीत्याभिषेक्यं मूर्द्धाभिषिक्तमित्यर्थः, 'छेयायरियउवएसमइविगप्पणाविगप्पेहि' 'ति-छेको-निपुणो य  
 आचार्यः-कलाचार्यः तस्योपदेशात्-तत्पूर्विकाया मतेः-बुद्धेयाः कल्पनाः-विकल्पाः कल्पितेदास्ते तथा तैरिति,  
 इह यावत्करणादिदं दृश्यं 'सुनिउणेहि' 'ति-सुनिपुणेनैः, 'उज्जलनेवत्थहव्वपरिवच्छियं'ति उज्वलनेपथ्येन-  
 निर्मलवेषेण 'हव्व'न्ति-शीघ्रं परिक्षिप्तः-परिशुहीतः परिवृतो यः स तथा तं 'सुसज्जं'-सुष्ठु प्रगुणं, 'वम्मिय-  
 सन्नद्धबद्धकवचियउप्पीलियकच्छवच्छबद्धगेवज्जगलयवरभूसणविरायंतं'-वर्मणि नियुक्ता वार्त्तिकस्तेः मन्त्रद्वः-  
 कृतसन्नाहो यः स वार्त्तिकसन्त्रद्वः बद्धं कवचं-सन्नाहविशेषो यस्य स बद्धकवचः, स एव बद्धकवचिकः, अथवा वर्मितः  
 सन्त्रद्वः बद्धस्त्वक्प्राणबन्धनात् कवचितश्च यः स तथा, भेदश्चैतेषां लोकोत्तोऽवसेयः, एकार्थीश्चैते शब्दाः सन्नद्धता-  
 प्रकर्षाभिधानायोक्ता इति, तथा उत्पीडिता-गालीकृता कथा-हृदयरज्जुर्वक्षसि यस्य स तथा त्रैवेकं-ग्रीवाभरणं बद्धं गले-  
 कण्ठे यस्य स तथा वरभूषणैर्विराजमानो यः स तथा, ततो वर्मितादिपदानां कर्मधारयोऽस्तं, 'अहियनेयजुत्तं सललि-

तवरकण्णपूरधिराजितं पलंबंओचूलमहुयरकयंधगारं' प्रलम्बानि अवचूलानि-करक(ट)न्यस्ताडोमुखकूचकाः यस्य सः प्रलम्बावचूलः मधुकैरैः-अमरैर्मदजलगन्धाकृष्टैः कृतमन्धकारं येन स तथा, ततः कर्मधारयोऽतस्तं, चित्तपरिच्छेय-पच्छदं' चित्रो-विचित्रः परिच्छेको-लघुः प्रच्छदो-बद्धविशेषो यस्य स तथा तं, 'पहरणावरभरियजुद्धसज्जं' प्रहरणानां-कुन्तादीनामावरणानां च-कङ्कटानां श्रुतो यः स तथा स च युद्धसज्जश्चेति कर्मधारयः अतस्तं 'सच्छत्तं सज्जयं संघटं पंचामेलयपरिमंडिययाभिरामं' पञ्चभिरापीडैः-शेखरैः परिमण्डितोऽत एवाभिरामश्च-रम्यो यः, 'ओसारियजमल-जुयलघटं'-अवसारितं-अवलम्बितं यमलं-समं युगलं-द्वयं षण्ठयोर्यत्र स तथा तं, 'विज्जुप्पणिद्धं व कालमेहं' षण्ठा-प्रहरणादीनाद्युज्ज्वलत्वेन विद्धूत्कल्पत्वात् हस्तिदेहस्य कालत्वेन महस्वेन वा मेघकल्पत्वादिति, 'उप्पाइयपव्वयं व चंकमंतं' चङ्कममाणमिवोत्पातिकपर्वतं, पाठान्तरेण ओत्पातिकं पर्वतमिव, 'सक्खंति साक्षात्, 'मत्तंति-मदवन्तं 'गुळु २ गुलंतं' 'मणपवणजहणवेगं' मनःपवनजयी वेगो यस्य स तथा तं, 'भीमं संगामियाजोगं' साङ्घामिक आयोगः परिकरो यस्य स तथा तं, 'अभिसेक्कं हत्थिरयणं पडिक्कपंपति २ उवणेंति'त्ति 'हयमहियपवरविवडियचिघघयप डोगे' हतमथिता-अत्यर्थं हताः अथवा हताः प्रहरतो मथिताः मानमथनात् हतमथिताः तथा प्रबरा विपतिताश्चिन्हध्वजा-दयः पताकाश्च तदन्या येषां ते तथा ततः कर्मधारयोऽतस्तान्, यावत्करणात् 'किच्छोवगयप्पाणे'ति इत्थं कष्टगतजीवित-व्यानित्यर्थः, 'अम्हे वा पडमनाभे वा राय त्तिक्कु' इति अस्माकं पद्मनाभस्य च बलवत्त्वादिह सङ्गमे वयं वा भवामः पद्मनाभो वा, नोभयेषामपीह संयुगे श्राणमस्तीतिकृत्वा-इति निश्चयं विधाय सम्प्रलप्राः योद्धमिति शेषः, 'अम्हे नो



पउमनाभे राय त्तिकंठु' वषभेवेह रणे जयामो न पन्नामो राजेति, यदि स्वविषये विजयनिश्चयं कृत्वा पन्नामेन साद्धं  
 योद्धुं सम्प्रालगिष्यथ तमो न पराजयं प्राप्स्यथ, निश्चयसारत्वात् फलप्राप्तेः, आह च- "शुमालुभानि सर्वाणि, निमित्तानि  
 स्युरेकतः । एकतस्तु मनो याति, तद्विशुद्धं जयावहय ॥ १ ॥ तथा-स्यान्निश्चयैकनिष्ठानां, कार्यसिद्धिः पग दृगाय् । संश-  
 यक्षुणाचिचानां, कार्ये संशीतिरेव हि ॥ २ ॥" शङ्खविशेषानि क्वचिद् दृश्यन्ते- 'सेयं गोखीरहारधवलं तणसोच्छिय-  
 सिंदुवारकुंभेसुसन्निगासं' 'तणसोच्छिय'न्ति मल्लिका सिंदुवारो-निर्गुण्डिः, 'निययस्स बलस्स हरिसज्जणं  
 रिउसेण्णधिणासकरं पंचजण'न्ति-पाञ्चजन्याभिधानं, 'वेढो'त्ति-वेष्टकः एकवस्तुविषया पदपद्धतिः, स चेह धनुर्विषयो  
 जम्बूद्वीपप्रज्ञसिप्रासिद्धोऽभ्येतव्यः, तद्यथा- 'अहरुगयबालचंदंद्धणुसन्निकासं' अचिरोद्गतो यो बालचन्द्रः-शुक्लपक्षद्वि-  
 तीयाचन्द्रः तैनेन्द्रवसुषा च वक्रतया सन्निकाशं-सदृशं यत्तथा 'वरमहिसदरियदप्पियददधणसिगगहयसारं' वरमहिवस्य  
 हसदपितस्य-सञ्जातदप्पोतिशयस्य यानि दृढानि घनानि च शृङ्गाग्राणि तै रचितं सारं यत्तथा, 'उरगवरपरगवलपवर-  
 परहुयमसरकुलनीलधंतचोयपट्टं' उरगवरो-नागवरः प्रवरगवलं-वरमहिवशृङ्गं प्रवरपरशृतो-वरकोकिलो म्रमरकुलं-मधुकरनिकरो  
 नीली-गुलिका एतानीच खिग्धं कालकान्तिमत् ध्मातमिव ध्मातं च-तेजसा ज्वलत् धौतमिव धौतं च-निर्मलं पृष्ठं यस्य  
 तत्तथा, 'निउणोवियमिसिसित्तमणिरयणवंटियाजालपरिक्खित्तं' निपुणेन शिल्पिना ओपितानां-उज्ज्वलितानां मणिरत्न-  
 वण्टिकामां यज्जालं तेन परिक्खित्तं-धेष्टितं यत्तथा 'तद्धितरुणकिरणतचणिज्जबद्धच्चिंचं' तद्धिदिव-विद्युदिव तरुणाः-

प्रत्यग्राः किरणा यस्य तत्तथा तस्य तपनीयस्य सम्बन्धीनि बद्धानि चिह्नानि-लङ्कानि यत्र तत्तथा । 'दहरमलयगिरिसि-  
हरकेसरचामरवालयद्धचंदबिंबं' दर्दरमलयभिधानौ यौ गिरी तयोर्गानि शिखराणि तत्सम्बन्धिनो ये केसरचामरवालाः-  
सिंहस्कन्धचमरपुच्छकेशाः अर्द्धचन्द्राश्च तच्छृणानि चिह्नानि यत्र तत्तथा, 'कालहरियरत्तपीयसुक्लिबहुण्डारुणिसंपिनद्रजीयं'  
कालादिवर्णाः या स्त्रायवः-शरीरान्तर्वर्धस्ताभिः सम्पिनद्धा-बद्धा जीवा-प्रत्यश्चा यस्य तत्तथा 'जीवियान्तकरं'ति शत्रूणा-  
मिति गम्यते, 'संभग्गे'त्यादि, सम्भग्नानि प्राकारो गोपुराणि च-प्रतोल्यः अट्टालकाश्च-प्राकारोपरिस्थानविशेषाः चरिका  
च-नगरप्राकारान्तरेऽष्टहस्तो मार्गः तोरणानि च यस्यां सा तथा, पर्यस्तितानि-पर्यस्तोक्तानि सर्वतः क्षिप्तानि इत्यर्थः प्रवर-  
भवनानि श्रीगृहाणि च-भाण्डागाराणि यस्यां सा तथा, ततः पदद्वयस्य कर्मधारयः, 'सरसरस्स'ति-अनुकरणशब्दोऽयमिति,  
'उल्लपडसाडए'चि सद्यः स्वानेन आद्रौ-पट्टशाटकौ उचरीयपरिधाने यस्य स तथा, 'अवबृल्लगवत्थनियत्ये'त्ति अत्र-  
चूलं-अधोमुखचूलं मुत्कलाञ्चलं यथा भवतीत्येवं वल्लं निवसितं येन स तथा, 'तं एवमवि गए नत्थि ते ममाहितो  
इयाणि भयमत्थि'चि तत-तस्मादित्यमपि गते अस्मिन् कार्ये नास्ति अयं पक्षो यदुत ते-तत्र मत्तो भयमस्ति-भवति ।

तेणं कालेणं २ धायतिसंखे दीवे पुरच्छिमद्धे भारहे वासे चंपा णामं णयरी होत्था, पुण्णभहे चेतिए,  
तत्थ णं चंपाए नयरीए कविले णामं वासुदेवे राया होत्था, महया हिमवंतं वण्णओ; तेणं कालेणं २  
सुणिसुव्वए अरहा चंपाए पुण्णभहे समोसडे, कपिले वासुदेवे धम्मं सुणेति, तते णं से कविले वासुदेवे  
सुणिसुव्वयस्स अरहतो धम्मं सुणेमाणे कणहस्स वासुदेवस्स संखसइ सुणेति, तते णं तस्स कविलस्स

वासुदेवस्स इमेयारूढे अढभत्थिए समुप्पज्जित्था-किं मण्णे धायहसंडे दीवे भारहे वासे दोच्चे वासुदेवे समुप्पण्णे ! जस्स णं अयं संखसेइ ममंपिव सुहवायपूरिते वियंभति, कविले वासु० सद्धातिं सुण्णेह, मुणिसुब्बए अरहा कविलं वासुदेवं एवं व०-से णूणं ते कविला वासुदेवा ! मम अंतिए धम्मं णिसामे-माणस्स संखसेइ आकणित्ता इमेयारूढे अढभत्थिए-किं मन्ने जाव वियंभइ, से णूणं कविला वासुदेवा ! अयमट्टे समट्टे ?, हंता ! अत्थि, नो खलु कविला ! एवं भूयं वा ३ जन्नं एणे खेत्ते एणे जुणे एणे समए दुवे अरहंता वा चक्खदी वा बलदेवा वा वासुदेवा वा उप्पज्जिसु उप्पज्जित्ति उप्पज्जिस्संति वा, एवं खलु वासुदेवा ! जंबुदीवाओ भारहाओ वासाओ हत्थिणाउरणयराओ पंडुस्स रण्णे सुण्हा पंचण्हं पंडवाणं भारिया दोवती देवी तव पउमनाभस्स रण्णे पुब्बसंगतिएणं देवेणं अमरकंकाणयरिं साहरिया, तते णं से कण्हे वासुदेवे पंचहिं पंडवेहिं सद्धिं अप्पच्छट्टे छहिं रेहेहिं अमरकंके रायहाणिं दोवतीए देवीए कूवं हव्वमाणए, तते णं तस्स कण्हस्स वासुदेवस्स पउमणाभेणं रण्णा सद्धिं संगामं, संगामेमाणस्स अयं संखसेइ तव सुहवाया० इव इट्टे कंते इहेव वियंभति, तए णं से कविले वासुदेवे मुणिसुब्बयं वंदति २ एवं व०-गच्छामि णं अहं भंते ! कण्हं वासुदेवं उत्तमपुरिसं सरिसपुरिसं पासामि, तए णं मुणिसुब्बए अरहा कविलं वासुदेवं एवं व०-नो खलु देवा० ! एवं भूयं वा ३ जण्णं अरहंता वा अरहंतं पासंति, चक्खदी वा चक्खदिं पासंति, बलदेवा वा बलदेवं पासंति, वासुदेवा वा वासुदेवं पासंति; तहविय णं तुमं कण्हस्स

वासुदेवस्स लवणसमुद्रं मञ्जुमञ्जुषेणं वीतिवयमाणस्स सेयापीयाहं धयग्गातिं पासिहिसि, तते णं से कविले  
 वासुदेवे सुणिसुव्वयं वंदति २, हत्थिखंधं दुरुहति २, सिग्घं २, जेणेव वेलाउले तेणेव उ० २, कणहस्स  
 वासुदेवस्स लवणसमुद्रं मञ्जुमञ्जुषेणं वीतिवयमाणस्स सेयापियाहिं धयग्गातिं पासति २, एवं वयह-एस  
 णं मम सरिसपुरिसे उत्तमपुरिसे कण्हे वासुदेवे लवणसमुद्रं मञ्जुमञ्जुषेणं वीतीवयति त्तिकडु पंचयन्नं संवं  
 परासुसति सुहवायपूरियं करेति, तते णं से कण्हे वासुदेवे कविलस्स वासुदेवस्स संखसहं आयन्नेति २,  
 पंचयन्नं जाव पूरियं करेति, तते णं दोवि वासुदेवा संखसहसामायारिं करेति, तते णं से कविले वासुदेवे  
 जेणेव अमरकंका तेणेव उ० २ अमरकंकां रायहारिणिं संभग्गतोरणं जाव पासति २, पउणणांभं एवं व०-  
 किन्नं देवाणुप्पिया ! एसा अमरकंका संभग्ग जाव सन्निवइया !, तते णं से पउमणाहे कविलं वासुदेवं एवं  
 व०-एवं खलु सामी ! जंबुदीवाओ दीवाओ भारहाओ वासाओ इहं हव्वमागम्म कण्हेणं वासुदेवेणं  
 तुंभे परिभूय अमरकंका जाव सन्निवाडिया, तते णं से कविले वासुदेवे पउमणाहस्स अंतिए एयमडं  
 सोत्ता पउमणाहं एवं व०-हं ओ ! पउमणाभा ! अपत्थियपत्थिया किन्नं तुमं न जाणसि मम सरिस-  
 पुरिस्सस्स कणहस्स वासुदेवस्स विग्गियं करेमाणे !, आसुरुते जाव पउमणाहं णिच्चिसयं आणवेति,  
 पउमणाहस्स पुत्तं अमरकंकारायहाणीए महया २ रायाभिसेएणं अभिसिचति जाव पडिगते ॥ सूत्रम्-  
 १३१ ॥ तते णं से कण्हे वासुदेवे लवणसमुद्रं मञ्जुमञ्जुषेणं वीतिवयति, ते पंच पडवे एवं व०-गच्छह णं

तुभे देवा० ! गंगामहाणदि उत्तरह जाव ताव अहं सुट्टियं लवणाहिवइं पासासि, तते णं ते पंच पंड वा  
 कण्हेणं वासुदेवणं एवं बुत्ता समाणा जेणेव गंगामहानदी तेणेव उ० २ एगट्टियाए णावाए मग्गणगवेसणं  
 करंति २ एगट्टियाए माथाए गंगामहानदि उत्तरंति २ अण्णमण्णं एवं वयन्ति-पट्ट णं देवा० ! कण्हे  
 वासुदेवे गंगामहाणदिं बाहाहिं उत्तरित्तए उदाहु णो पभू उत्तरित्तए त्तिकट्टु एगट्टियाओ नावाओ णमंति  
 २ कण्हं वासुदेवं पडिचालेमाणा २ चिहंति, तते णं से कण्हे वासुदेवे सुट्टियं लवणाहिवइं पासति २ जेणेव  
 गंगा महाणदी तेणेव उ० २, एगट्टियाए सब्बओ समंता मग्गणगवेसणं करेति २, एगट्टियं अपासमाणे  
 एगाए बाहाए रहं सतुरणं ससारहिं गेण्हइ एगाए बाहाए गंगं महाणदिं बासट्टिं जोयणाति अद्धजोयणं च  
 विच्छिन्नं उत्तरिउं पयत्ते यावि होत्था, तते णं से कण्हे वासुदेवे गंगामहाणदीए बहुमज्झदेसभागं संपत्ते  
 समाणे संते तंते परितंते बद्धमेए जाए यावि होत्था, तते णं कण्हस्स वासुदेवस्स इमे एयारूवे अब्भत्थिए  
 जाव ससुप्पजित्था-अहो णं पंच पंडवा महाबलवगा जेहिं गंगामहाणदी बासट्टिं जोयणाइं अद्धजोयणं  
 च विच्छिण्णा बाहाहिं उत्तिण्णा, इच्छंतएहिं णं पंचहिं पंडवेहि पउमणाभे राया जाव णो पडिसेहिए,  
 तते णं गंगादेवी कण्हस्स वासुदेवस्स इमं एयारूवं अब्भत्थियं जाव जाणित्ता थाहं वितरति, तते णं से  
 कण्हे वासुदेवे सुहुतंतरं समासासति २, गंगामहाणदिं बावट्टिं जाव उत्तरति २, जेणेव पंच पंडवा तेणेव  
 उवा० पंच पंडवे एवं व०-अहो णं तुभे देवा० ! महाबलवगा जेणं तुभेहिं गंगामहाणदी बासट्टिं जाव

उत्तिष्णा, इच्छंतएहिं तुभेहिं पउम जाव णो पडिसेसिए, तते णं ते पंच पंडवा कण्हेणं वासुदेवेणं एवं  
 बुत्ता समाणा कण्हं वासुदेवं एवं व०-एवं खलु देवा० ! अम्हे तुभेहिं विसल्लिया समाणा जेणेव गंगा  
 महाणदी तेणेव उवा० २ एगट्टियाए मरगणगवेसणं तं चेव जाव णमेमो तुभे पडिवालेमाणा चिट्ठामो,  
 तते णं से कण्हे वासुदेवे तेसिं पंचहं पांडवाणं एयमट्ठं सोचा णिसम्म आसुरुते जाव तिवलियं एवं व०-  
 अहो णं जया मए लवणसमुदं दुवे जोयणसयसहस्सा विच्छिणं वीतीवइत्ता पउमणाभं हयमहिय जाव  
 पडिसेहिता अमरकंका संभग्ग० दोवती साहत्थि उचणीया तथा णं तुभेहिं मम माहप्पं ण विण्णायं  
 इयाणि जाणिससह त्तिकट्टु लोहदंडं परासुसति, पंचहं पंडवाणं रहे चूरेति २, णिव्विसए आणवेति २, तत्थ  
 णं रहमद्दणे णामं कोडुं णिविडे, तते णं से कण्हे वासुदेवे जेणेव वा सए खंधावारे तेणेव उवागच्छइ २, सएणं  
 खंधावारेणं सद्धिं अभिसमन्नागए यावि होत्था, तते णं से कण्हे वासुदेवे जेणेव बारवई णयरी तेणेव उवा०  
 २ अणुपविसति ॥ सूत्रम्-१३२ ॥ तते णं से पंच पंडवा जेणेव हत्थिणाउरे तेणेव उवागच्छन्ति २ जेणेव पंडू  
 तेणेव उ० २ करयल एवं व०-एवं खलु ताओ ! अम्हे कण्हेणं णिव्विसया आणत्ता, तते णं पंडुराया ते पंच  
 पंडवे एवं व०-कहणं पुत्ता ! तुभे कण्हेणं वासुदेवेणं णिव्विसया आणत्ता?, तते णं ते पंच पंडवा पंडुरायं  
 एवं व०-एवं खलु ताओ ! अम्हे अमरकंकातो पडिणियत्ता लवणसमुदं दोन्नि जोयणसयसहस्साइं वीति-  
 वत्तित्ता(त्था) तए णं से कण्हे अम्हे एवं वयासि-गच्छह णं तुभे देवा० ! गंगामहाणदि उत्तरह जाव चिट्ठह

ताव अहं एवं तहेव जाव चिद्दामो, तते णं से कण्हे वासुदेवे सुद्वियं लवणाहिवहं ददृण तं चैव सव्वं  
 नवरं कणहस्स चिंता ण जुज्ज (बुच्च)ति जाव अम्हे णिविसए आणवेति, तए णं से पंडुराया ते पंच पंडवे  
 एवं व०-दुदु णं पुत्ता ! कयं कणहस्स वासुदेवस्स विग्पियं करेमाणेहिं, तते णं से पंडू राया कौंति देविं  
 सदावेति २ एवं व०-गच्छ णं तुमं देवा० ! बारवतिं कणहस्स वासु० णिवेदेहि-एवं म्वल्ल देवा० ! तुम्हे  
 पंच पंडवा णिविसया आणत्ता तुमं च णं देवा० ! दाहिणडुभरहस्स सामी तं संदिस्सु णं देवा० ! ते  
 पंच पंडवा कयरं दिसिं वा विदिसं वा गच्छंतु !, तते णं सा कौंती पंडुणा। एवं बुत्ता समाणी हत्थिखंधं  
 दुरूहति २ जहा हेडा जाव संदिस्सु णं पिउत्था ! किमागमणपओयणं !, तते णं सा कौंती कणहं वासु-  
 देवं एवं व०-एवं म्वल्ल पुत्ता ! तुमे पंच पंडवा णिविसया आणत्ता तुमं च णं दाहिणडुभरह जाव वि-  
 दिसं वा० गच्छंतु !, तते णं से कण्हे वासुदेवे कौंति देविं एवं व०-अपूहवयणा णं पिउत्था ! उत्तमपुरिसा  
 वासुदेवा बलदेवा चक्कवदी तं गच्छंतु णं देवाणु० ! पंच पंडवा दाहिणिहं वेयाल्लं तत्थ पंडुमहुरं णिवेस्सु  
 मं अदिदुसेवणा भवंतु त्तिकहु कौंति देविं सक्करोति सम्माणेति जाव पडिविसज्जेति; तते णं सा कौंती  
 देवी जाव पंडुस्स एयमहं णिवेदेति, तते णं पंडू पंच पंडवे सदावेति २ एवं व०-गच्छह णं तुम्भे पुत्ता !  
 दाहिणिहं वेयाल्लं तत्थ णं तुम्भे पंडुमहुरं णिवेसेह, तते णं पंच पंडवा पंडुस्स रणो जाव तहत्ति पडि-  
 सुणंति सबलवाहणा हयगय० हत्थिणाउराओ पडिणिकवमंति २, जेणेव दक्खिणिहं वेयाली तेणेव

उवा० २ पंडुमहुरं नगरिं निवेसेति २ तत्थ णं ते विपुलभोगसमितिसमणगया यावि होत्था ॥ सूत्रम्-  
२३३ ॥ तते णं सा दोवई देवी अन्नया कयाइं आवणसत्ता जाया यावि होत्था, तते णं सा दोवती देवी  
णवणहं आसाणं जाव सुखं दारगं पयाया सूमालं णिव्वत्तबारसाहस्स इमं एयारूवं जम्हा णं अम्हं  
एस दारए पंचणहं पंडवाणं पुत्ते दोवतीए अत्तए तं होउ अम्हं इमस्स दारगस्स णामधेज्जं पंडुसेणे, तते णं  
तस्स दारगस्स अम्मपियरो णामधेज्जं करेह पंडुसेणत्ति, बावत्तरिं कलाओ जाव भोगसमत्थे जाए  
जुवराया जाव चिहरति, थेरा समोसढा परिसा निग्गया पंडवा निग्गया धम्मं सोच्चा एवं व०-जं णवरं  
देवा० ! दोवतिं देविं आपुञ्छामो पंडुसेणं च कुमारं रज्जे ठावेमो ततो पच्छा देवा० ! अंतिए सुंडे भवित्ता  
जाव पव्वयामो, अहासुहं देवा० !, तते णं ते पंच पंडवा जेणेव सए गिहे तेणेव उवा० २ दोवतिं देविं  
सदावेत्ति २ एवं व०-एवं खलु देवा० ! अम्हेहिं थेराणं अंतिए धम्मे णिसंते जाव पव्वयामो तुमं देवाणु-  
त्थिए ? किं करेसि ?, तते णं सा दोवती देवी ते पंच पंडवे एवं व०-जति णं तुम्भे देवा० ! संसारभउ-  
त्थिग्गा पव्वयह ममं के अण्णे आलंभे वा जाव भविस्सति ?, अहंपि य णं संसारभउत्थिग्गा देवाणु-  
त्थिएहिं सदिं पव्वतिस्सामि, तते णं ते पंच पंडवा पंडुसेणस्स अभिसंओ जाव राया जाए जाव रज्जे  
पस्सहेमाणे चिहरति, तते णं ते पंच पंडवा दोवती य देवी अन्नया कयाइं पंडुसेणं रायाणं आपुञ्छंति  
तते णं से पंडुसेणे राया कोइंबियपुरिसे सदावेति २ एवं वयासी-त्थिग्गामेव भो ! देवाणु० ! निक्ख-



अणभिसंयं जाव उचट्टवेह पुरिससहस्रवाहणीओ सिधियाओ उचट्टवेह जाव पचोरुहंति जेणेव थेरा  
 तेणेव० आलित्ते णं जाव समाणा जाया चोइस्स पुब्बाहं अहिज्जंति २ बहूणि वासाणि छट्टट्टमदसमदु-  
 धालसेहिं मासद्धंमासखमणेहिं अप्पणं भावेमाणा विहरंति ॥ सूत्रम्-१३४ ॥ तते णं सा दोवती देवी  
 सीयांतो पचोरुहति जाव पव्वतिया सुव्वयाए अज्जाए सिस्सिणीयत्ताए दलयति, इक्कारस्स अंगाहं  
 अहिज्जं बहूणि वासाणि छट्टट्टमदसमदुधालसेहिं जाव विहरति ॥ सूत्रम्-१३५ ॥ तते णं थेरा भगवंतो  
 अन्नया कथाहं पंडुमहुरातो णयरीतो सहसंबवणाओ उज्जाणाओ पड्डिणिकवमंति २, बहिया जणवय-  
 विहारं विहरति, तेणं कालेणं २, अरिहा अरिट्टनेमी जेणेव सुरट्टाजणवए तेणेव उवा० २, सुरट्टाजणवयंसि  
 संजमेणं तंक्खसा अप्पणं भावेमाणे विहरति तते णं बहुजणो अन्नमन्नस्स एवमात्तिकखह०-एवं खल्ल  
 देवाणुप्पिया ! अरिहा अरिट्टनेमी सुरट्टाजणवए जाव वि०, तते णं से लुहिट्टिष्णपामोक्खा पंच अणगारा  
 बहुजणस्स अंतिए एयमट्टं सोच्चा अन्नमन्नं सदावति २, एवं व०-एवं खल्ल देवाणु० ! अरहा अरिट्टनेमी  
 पुब्बाणु० जाव विहरह, तं सेयं खल्ल अमहं थेरा आयुच्छित्ता अरहं अरिट्टनेमिं वंदणाए गमित्तए, अन्न-  
 मन्नस्स एयमट्टं पड्डिसुग्गेति २ जेणेव थेरा भगवंतो तेणेव उवा० २, थेरे भगवंते वंदंति णमंसंति २ त्ता,  
 एवं व०-इच्छामी णं तुब्भेहिं अन्नभणुत्ताया समाणा अरहं अरिट्टनेमिं जाव गमित्तए, अहासुहं देवा० !,  
 तते णं ते लुहिट्टिष्णपामोक्खा पंच अणगारा थेरेहिं अन्नभणुत्ताया समाणा थेरे भगवंते वंदंति णमंसंति २

धेरानं अंतियाओ पडिणिक्खमंति मासंमासेणं अणिक्खित्तेणं तवोकम्भेणं गामाणुगामं दूईज्जमाणा जाव जेणेव हत्थकप्पे नयरे तेणेव उवा० हत्थकप्पस्स बहिया सहसंबवणे उज्जाणे जाव विहरंति, तते णं ते जुहिट्ठिक्खज्जा चत्तारि अणगारा मासखमणपारणए पढमाए पोरसीए सज्जायं करेति बीयाए एवं जहा गोयमसामी णवरं जुहिट्ठिक्खं आपुच्छंति जाव अडमाणा बहुजणसहं णिसामेत्ति, एवं खलु देवा० ! अरहा अरिद्धनेमी उल्लितसेलसिहरे मासिएणं भत्तेणं अपाणएणं पंचहिं छत्तीसेहिं अणगारसएहिं सद्धिं कालगए जाव पहीणे, तते णं ते जुहिट्ठिक्खज्जा चत्तारि अणगारा बहुजणस्स अंतिए एयमट्टं सोच्चा हत्थकप्पाओ पडिणिक्खमंति २, जेणेव सहसंबवणे उज्जाणे जेणेव जुहिट्ठिक्खे अणगारे तेणेव उवा० २, भत्तपाणं पच्छुवेक्खंति २, गमणागमणस्स पडिक्कमंति २, एसणमणेसणं आलोएंति २, भत्तपाणं पडिदंसेंति २, एवं व०-एवं खलु देवाणुप्पिया ! जाव कालगए तं सेयं खलु अम्हं देवाणुप्पिया ! इमं पुब्बगहियं भत्तपाणं परिट्टवेत्ता सेत्तुञ्जं पब्बयं सणियं सणियं दुरूहित्तए संलेहणाए झूसणा सियाणं कालं अणवकं खमाणाणं विहरित्तएत्तिकट्टुअणमणस्स एयमट्टं पडिसुणेंति २, तं पुब्बगहियं भत्तपाणं एगंते परिट्टवेत्ति २, जेणेव सेत्तुञ्जे पब्बए तेणेव उवागच्छह २ ता, सेत्तुञ्जं पब्बयं दुरूहंति २, जाव कालं अणवकंखमाणा विहरंति । तते णं ते जुहिट्ठिक्खपामोक्खा पंच अणगारा सामाहयमातियंति चोइस पुब्बाहं बहूणि वासाणि दोमासियाए संलेहणाए अत्ताणं झोसित्ता जस्सडाए कीरति णगभावे जाव तमट्टमाराहेति २

अणंते जाव केवलवरणणदंसणे समुत्पन्ने जाव सिद्धा ॥ सूत्रम्-१३६ ॥ तते णं सा दोवती अज्जा सुव्वयाणं अज्जियाणं अंतिए सामाह्यमाहयाइं एक्कारस अंगार्ति अहिज्जति २ बहूणि वासाणि मासियाए संलेहणाए० आलोह्यपडिक्कंता कालमासे कालं किच्चा बंभलोए उववन्ना, तत्थ णं अत्थगनियाणं देवानं दस सागरोवमाइं ठिती प० तत्थ णं दुवतिस्स देवस्स दस सागरोवमाइं ठिती पन्नत्ता, से णं भंते ! दुवए देवे ततो जाव महाविदेहे वासे जाव अंतं काहिति । एवं खलु जंबू ! समणेणं सोलमस्स अयमट्ठे पणत्ते त्तिबेमि ॥ सूत्रम्-१३७ ॥ सोलसमं नायज्झयणं समत्तं ॥ १६ ॥

‘एगट्ठिय’त्ति नोः ‘दूमंति’त्ति-गोपयन्ति, श्रान्तः-स्निग्धः तान्तः-तरकाण्डकाङ्गावान् जातः परितान्तः-सर्वथा स्निग्धः एकार्थिका वैते, ‘इच्छंतएहि’ति इच्छया कयाचिदित्यर्थः, ‘वेयालीए’त्ति वेलातटे इति । इहापि सूत्रे उपनयो न दृश्यते, एवं चासौ द्रष्टव्यः-“सुबहुं पि तत्रकिलेसो नियाणदोसेण दूसिओ संतो । न सिवाय दोवतिए जह किल सुकुमालि-याजम्मे ॥१॥” अथवा-“अमणुत्तमभचीए पत्ते दाणं भवे अणत्थाय । जह कडुपंतुंबदाणं नागसिरिभवंमि दोवइए ॥२॥” चि [सुबहुरपि तपस्केखो निदानदोषेण दूषितः सन् । न सिवाय द्रौपद्या यथा सुकुमारिक्रज्जमनि ॥ १ ॥ अमनोऽज्ञमभक्त्या पात्रे दानं भवेदनर्थाय । यथा कडुतुम्बदानं नागश्रीभवे द्रौपद्या अपि ॥२॥] समाप्तं षोडशज्ञाताध्ययनविवरणम् ॥ १३ ॥



## १७-श्रीअश्वारूयं ज्ञाताध्ययनम् ।

अथ सप्तदशोध्ययनविवरणम् ॥ १७ ॥

अथ सप्तदशं व्याख्यायते, अस्य च पूर्वेण सहायमभिमम्बन्धः-इहानन्तराध्ययने निदानात् कुम्भितदानाद्वा अनर्थ उक्त इह त्विन्द्रियेभ्योऽनियन्त्रितेभ्यः स उच्यते, इत्येवंसम्बद्धमिदम्—

जति णं अंते ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव संपत्तेणं सोलसमस्स णायज्झयणस्स अयमट्ठे पणत्ते सत्तरसमस्स णं णायज्झयणस्स के अट्ठे पत्तत्ते !, एवं खल्ल जंबू ! तेणं कालेणं २ हत्थिसीसे नयरे होत्था, वण्णओ, तत्थ णं कणगकेऊ णामं राया होत्था, वण्णओ; तत्थ णं हत्थिसीसे णयरे बह्वे संजुत्ताणावावाणियाणा परिचसंति अट्ठा जाव बहूजणस्स अपरिभूया यावि होत्था, तते णं तेसि संजुत्ता- णावावाणियाणां अज्जया एगयओ जहा अरहणओ जाव लवणससुइं अणेगाइं जेयणसयाइं ओगाढा थावि होत्था, तते णं तेसि जाव बहूणि उप्पातिचसयाति जहा मार्गंविद्यदारणां जाव कालियवाए य तत्थ संजुत्थिए तते णं सा णावा तेणं कालियवाएणं आघोल्लिज्जमाणी २, संचाल्लिज्जमाणी २, संबोहिल्ल- कंभी २, तत्थेव परिभज्जति; तते णं से णिज्जामए णट्ठमतीते णट्ठसण्णे मूढविसामाए जाए

यावि होत्था, ण जाणह करं देसं वा, विसं वा, विदिसं वा; पोयवहणे अवहित त्तिकहु ओहयमणसंकप्पे  
 जाव झियायति, तते णं ते बहवे कुच्छिधारा य, कणधारा य, गब्भिल्लुगा य, संजुत्ताणावावाणियगा य;  
 जेणेव सं णिज्जामए तेणेव उवा० २, एवं व०-किंनं तुमं देवा० ! ओहयमणसंकप्पा जाव झियायह १,  
 तते णं से णिज्जामए ते बहवे कुच्छिधारा य ४, एवं व०-एवं खलु देवा० ! णट्टमतीते जाव अवहिए त्तिकहु  
 ततो ओहयमणसंकप्पे जाव झियामि, तते णं ते कणधारा, तस्स णिज्जामयस्स अंतिए एयमहुं सोचा  
 णिमम्म भीया ५, एहाया कयबलिकम्मा करयल बहूणं इंदाण य खंधाण य जहा मल्लिनाए जाय उवाय-  
 माणा २, चिट्ठति, तते णं से णिज्जामए ततो मुहुत्तंतरस्स लद्धमतीते ३, अमूढदिसाभाए जाए यावि  
 होत्था, तते णं से णिज्जामए ते बहवे कुच्छिधारा य ४, एवं व०-एवं खलु अहं देवा० ! लद्धमतीए जाव  
 अमूढदिसाभाए जाए, अम्हे णं देवा० ! कालियदीबतेणं संवूढा, एस णं कालियदीवे आलोक्कति, तते णं ते  
 कुच्छिधारा य ४ तस्स णिज्जामस्स अंतिए सोचा हट्टुढा पयक्खिणानुक्खेणं बाएणं जेणेव कालीयदीवे  
 तेणेव उवागच्छंति २ पोयवहणं लंभंति २ एगट्टियाहिं कालियदीवं उत्तरंति, तत्थ णं बहवे हिरण्णगारे य  
 सुवण्णगारे य रयणागारे य बहरागारे य बहवे तत्थ आसे पासंति, किं ते १, हरिरेणुसोणिसुत्तगा आईण-  
 वेढो, तते णं ते आसा ते वाणियए पासंति तेसिं गंधं अग्घायंति २, भीया तत्था उब्बिग्गा, उब्बिग्गमणा;  
 ततो अणेगाइं जोहणाति उब्भमंति, ते णं तत्थ पउरगोयरा पउरतणपाणिया निब्भया निरुब्बिग्गा


सुहृत् सुहृत् विहरति, तेषु संजुत्तानावावाणियगा अणमणं एवं व०-किण्हं अम्हे देवा० ! आसेहिं १,  
 इमे णं बह्वे हिरणांगरा य, सुवणागरा य, रयणागरा य, बहरागरा य; तं सेयं खलु अम्हं हिरणस्स य,  
 सुवणस्स य, रयणस्स य, बहरस्स य, पोयवहणं भरित्तए त्तिकहु अन्नमत्तस्स एयमट्ठं पडिसुणोति २,  
 हिरणस्स य, सुवणस्स य, रयणस्स य, बहरस्स य, तणस्स य, अणस्स य, कट्ठस्स य, पाणियस्स य  
 गोविन्दस्स भरेति ३, पयक्खिणाणुकूलेणं वाएणं जेणेव गंभीरपोयवहणपट्टणे तेणेव उ० २, पोयवहणं लंबोति  
 २, संगंडीसंगंडं संज्जति २, तं हिरणं जाव बहरं च एगट्टियाहिं पोयवहणाओ संचारोति २, सगंडीसागंडं  
 संज्जोइति २, जेणेव हत्थिसीसए नयरे तेणेव उवा० २, हत्थिसीसयस्स नयरस्स बहिया अगुल्लाणे सत्थ-  
 णिविस्स करोति २, संगंडीसागंडं मोएति २; महत्थं जाव पाहुडं गेण्हति २, हत्थिसीसं च नगरं अणुपविस्सति  
 २, जेणेव कणगकेज तेणेव उ० २, जाव उवणोति, तते णं से कणगकेज तेसि संजुत्तानावावाणियगाणं तं  
 महत्थं जाव पेडिच्छति ॥ सूत्रम्-१३८ ॥ ते संजुत्तानावावाणियगा एवं व०-तुम्हे णं देवा० ! गामागर जाव  
 ओहिडंहे लवणसंसुदं च अभिक्खणं २, पोयवहणेणं ओगाहह तं अत्थि याइं केइ मे कहिचि अच्छेरए  
 पिट्ठुब्बे १, तते णं ते संजुत्तानावावाणियगा कणगकेउं एवं व०-एवं खलु अम्हे देवा० ! इहेव हत्थिसीसे  
 नयरे परिवसामो ते चैव जावं कालियदीवंतेणं संबुहा, तत्थ णं बहवे हिरणागरा य जाव बहवे तत्थ आसे,  
 किं ते १, हरिरेणुं जाव अणेगाइं जोयणाइं उम्भमेति, तते णं सामी ! अम्हेहिं कालियदीवे ते आसा अच्छेरए

विद्वपुत्रे, तैर्णै सं कणगकेजु तैसि संजत्तगणं अंतिए एयमट्टं सोच्चा ते संजुत्तए एवं व०-गच्छह णं  
 तुंभे देवा० । मम कोडुंबियपुरिसेहिं सद्धिं कालियदीवाओ ते आसे आणेह, तते णं से संजुत्ता० कणग-  
 केउ एवं व०-एवं सांमि सिक्कहु आणाए विणएणं वयणं पडिसुणेंति, तते णं कणगकेजु कोडुंबियपुरिसे  
 संघवेति २ एवं व०-गच्छह णं तुंभे देवा० ! संजुत्तएहिं सद्धिं कालियदीवाओ मम आसे आणेह, तेवि  
 पडिसुणेंति, तते णं ते कोडुंबिय० सगडीसागडं सज्जेति २, तत्थ णं बहूणं वीणाण य, वल्लकीण य, भाम-  
 रीण य, कच्छभीण य, भंभाण य, छंभामरीण य, विचित्तवीणाण य; अन्नैसिं च बहूणं सोत्तिदियपाउग्गाणं  
 दब्बाणं सगडीसागडं भेरेंति २, बहूणं किण्हाण य जाव सुक्किलाण य कट्टकम्माण य ४, गंधिमाण य ४,  
 जावं संधांमाण य अन्नैसिं च बहूणं चक्खिवियपाउग्गाणं दब्बाणं सगडीसागडं भेरेंति २, बहूणं कोट्ट-  
 पुंडाणं यं केयहपुंडाणं य जाव अन्नैसिं च बहूणं घाणिदियपाउग्गाणं दब्बाणं सगडीसागडं भेरेंति २,  
 बहुस्सं खडस्से य, गुलस्स य, सक्काए य, मच्छंडियाए य, पुक्कुत्तरपउत्तर० अन्नैसिं च जिडिंभियपाउग्गाणं  
 दब्बाणं भेरेंति २, बहूणं कोयवयाण य, कंबलाण य, पावरणाण य, नवतयाण य, मलयाण य, मसूराण य,  
 सिंलावट्टाण जाव हंसगन्भाण य अन्नैसिं च फासिदियपाउग्गाणं दब्बाणं जाव भेरेंति २, सगडीसागडं  
 जाएति २, जैणवं गंभीरए पोयट्टाणे तेणेव य उवा० २, सगडीसागडं मोएति २, पोयवहणं सज्जेति २,  
 तैसि उक्किट्ठाणं सद्धंफेरिं सरं सरुवंघाणं कट्टस्स य, तणस्स य, पाणियस्स य, तंदुलाण य, समियस्स य,

गोरसस्स य जाव अन्नसिं च बहूणं पोयवहणपाउग्गाणं पोयवहणं भरेति २, दक्खिणणुक्कूलेणं वाएणं जेणेव क्वालियदीवे तेणेव उवा० २, पोयवहणं लंबेति २, ताइं उक्किट्ठाइं सहफरिसरसरुवगंधाइं एगट्ठि-  
याहिं क्वालियदीवं उत्तारंति २, जहिं २, च णं ते आसा आसयंति वा, चिट्ठंति वा, तुयट्ठंति वा; तहिं २ च णं ते कोडुंबिययुरिसा ताओ धीणाओ य जाव विचित्तधीणातो य अन्नाणि बहूणि मोहं-  
दियपाउग्गाणि य दब्बाणि समुदीरेमाणा चिट्ठंति, तेसिं परियेरेतेणं पासए ठवेति २, णिच्चला णिष्फंदा  
तुसिणीया चिट्ठंति, जत्थ २ ते आसा आसयंति वा जाव तुयट्ठंति वा तत्थ तत्थ णं ते कोडुंबिय० बहूणि  
किण्हणि य ५ कट्टकम्मणि य जाव संघाइमाणि य अन्नाणि य बहूणि चर्किंबदियपाउग्गाणि य दब्बाणि  
ठवेति तेसिं परियेरेतेणं पासए ठवेति २, णिच्चला णिष्फंदा० चिट्ठंति जत्थ २, ते आसा आसयंति ४, तत्थ  
२, णं तेसिं बहूणं कोट्टपुड्डाण य अन्नसिं च घाणिदियपाउग्गाणं दब्बाणं पुंजे य णियरे य करंति २, तेसिं  
परियेरेते जाव चिट्ठंति जत्थ २, णं ते आसा आसयंति ४, तत्थ २, गुलस्स जाव अन्नसिं च बहूणं जिब्भि-  
दियपाउग्गाणं दब्बाणं पुंजे य निकरे य करंति २, वियए खणंति २, गुलपाणगस्स खंडपाणगस्स पार-  
पाणगस्स अन्नसिं च बहूणि पाणगाणं वियरे भरेति २, तेसिं परियेरेतेणं पासए ठवेति जाव चिट्ठंति; जहिं  
२, च णं ते आसा आस० तहिं २, च ते बहवे कोयवया य जाव सिलावट्टया अण्णाणि य फासिंदिया-  
पाउगाइं अत्थुपच्चत्थुयाइं ठवेति २, तेसिं परियेरेतेणं जाव चिट्ठंति; तते णं आसा जेणेव एते उक्किट्ठा



सहफरिसरसरुवगंधा तेणेव उवा० २, तत्थ णं अत्थेगतिया आसा अपुउवा णं इमे सहफरिसरसरुवगंधा इतिकडु तेसु उक्किट्टेसु सहफरिसरसरुवगंधेसु असुच्छिया ४, तेसिं उक्किट्टाणं सह जाव गंधाणं दूरंदूरेण अवक्कमति, ते णं तत्थ पउरगोयरा पउरतणपाणिया णिउभया णिरुव्विगगा सुहंसुहेणं विहरंति, एवामेव समणाउसो ! जो अमहं णिगंधो वा २, सहफरिसरसरुवगंधा णो सज्जति से णं इहलोए चेव बहूणं मम-णाणं ४ अब्बणिज्जे जाव वीतिवयति ॥ सूत्रम्-१३१ ॥ तत्थ णं अत्थेगतिया आसा जेणेव उक्किट्टसहफरिसरसरुवगंधा तेणेव उवा० २ तेसु उक्किट्टेसु सहफरिस ५, सुच्छिया जाव अज्झोववणणा आसेविउं पयत्ते यावि होत्था, तते णं ते आसा एए उक्किट्टे सह ५, आसेवमाणा तेहिं बहूहिं कूडेहि य पसेहि य गलएसु य बज्झंति, तते णं ते कोडुंबिया एए आसे णिणहंति २ एणट्टियाहिं पोयवहणे संचारंति २, तणस्स कट्टस्स जाव भेरंति, तते णं ते संजुत्ता दक्खिणणाणुकूलं वाएणं जेणेव गंभीरपोयपट्टणे तेणेव उवा० २, पोयवहणं लब्धंति २, ते आसे उत्तारंति २, जेणेव हत्थिसीसे णयरे जेणेव कणगकेऊ राया तेणेव उवागच्छन्ति २ ता करयल जाव बद्धावेंति २, ते आसे उवर्गेति; तते णं से तेसिं संजुत्तावाणियगणं उस्सुक्कं वितरति २ सक्कारेति संमाणेति २ ता, पड्डिविसज्जेति, तते णं से कणगकेऊ कोडुंबियपुरिसं सदावेह २, सक्कारेति० पड्डिविसज्जेति, तते णं से कणगकेऊ आसमइए सदावेति २ एवं व०-तुम्भे णं देवा० ! मम आसे विणएह, तते णं ते आसमइगा तहत्ति पड्डिसुणंति २, ते आसे बहूहिं सुहबंधेहि य कणबंधेहि य



नयात्री-  
१० ३०  
बीजात-  
वर्णक्याले  
॥ २३७ ॥

गौसीबंधेहि य बालबंधेहि य खुरबंधेहि य कडगबंधेहि य खल्लिगबंधेहि य अहिलाणेहि य पडियाणेहि य अकणाहि य वेल्पहारेहि य चित्तपहारेहि य लयपहारेहि य कसपपहारेहि य छिवपपहारेहि य विजयंति २, कणकेउस्स रसो उवणेति २; तते णं से कणकेऊ ते आसमए सक्कारेति २, पडिविसज्जेति, तते णं ते आसा बहूहि सुहबंधेहि य जाव छिवपपहारेहि य बहूणि सारीरमाणसाणि दुक्खातिं पावेति, एवमेव समणाउसो ! जो अम्हं णिगंगथो वा २, पव्वइए समाणे इट्ठेसु सइफरिस जाव गंधेसु य सज्जेति रज्जेति णिज्जेति सुज्जेति अज्जेववज्जेति से णं इहलोए चेव बहूणं समणाण य जाव सावियाण य हीलणिल्ले जाव अणुपरियट्ठिस्सति ॥ सूत्रम्-१४० ॥

सर्व सुगमं, नवरं नट्टमतीएति-बहुज्ञानस्य विषयानिश्चायकत्वात् नष्टुतिकी-निर्यामकशब्देन दिगादिविवेचनस्य करणे अशकत्वात्, नष्टसंज्ञी मनसो भ्रान्तत्वात्, किमुक्तं भवति ?-मूढः-अविनिश्चितो दिशां भागो-विभागो यस्य स प्रुढदिग्भागः, कुक्षिधारादयो यानपात्रव्यापारविशेषनियोगिनः, 'हिरण्णागरे'त्यादि, हिरण्याकरांश्च सुवर्णाकरांश्च रत्नाकरांश्च वेराकरांश्च तदुत्पत्तिभूमित्यर्थः, बहुधात्राश्चान्-घोटकान् पश्यन्ति स्म, 'किंते'ति किंभूतात् ? अत्रोच्यते- 'हरी'त्यादि, 'आइल्लवेढो'ति-आकीर्णी-जात्याः अद्याः तेषां 'वेढो'ति-वर्णनार्था वाक्यपद्धतिराकीर्णवेषकः, स चायं- 'हरिरेणुसोणिमुत्तग सकविलमज्जारपायकुडवोडसमुग्गयसामवजा । गोडुमगोरंगोरीपाडलगोरा पवालवण्णा य धूमवण्णा य केह ॥१॥ तल्पच रिडुवण्णा सालोवजा य भासवजा य । केहं जंपियतिलकीडगा य सोलोपरिडुगा य पुंडपइया य कणगपट्टा य केह ॥२॥

१७ श्री-  
अश्वारूढ-  
ज्ञाताध्य०  
इन्द्रिया-  
सक्ताश्वक-  
दर्शनादि-  
वर्णन-  
सूत्रम् ।

॥ २३७ ॥

चक्रांगपट्टवर्णा सारसवर्णा य इंसवर्णा य केई । केइत्थ अबभवत्ता पकत्तलमेइवत्ता य बहुवत्ता य केइ ॥३॥ संझाणुराग-  
 सारसा सुययुहगुज्जरागमसिउत्थ केइ । एलापाडलगोरा सामलयगवलसामला पुणो केइ ॥४॥ बहवे अत्रे अणिइसा-  
 सामाकासोसरत्तपोया अत्तविमुद्धाविय णं आहणजाइकुलविणीयगयमच्छरा हयवरा जहोवएसकमवाहिणोऽविय णं सिक्खा-  
 विणीयावियया ल्घणवगणधावणधोरणत्तिवईजईणसिक्खियगह, किं ते ? मणसावि उबिइंताइं अणेगाइं आससयाइं पासंति”  
 चि तत्र हरिद्रेणवथ-नीलवर्णपांसवः श्रोणिध्वजकं च-बालकानां वर्मादिदवरकरूपं कटीध्वजं, तद्वि प्रायः कालं भवति, सह  
 कपिलेन-पश्चिविशेषेण यो मार्जारो-बिडालः स च तथा पादकुक्कुटः-कुक्कुटविशेषः स च तथा बोडं-कर्पासीफलं तस्य समुद्-  
 गकं-सम्पुटमभिन्नावस्थं कर्पासीफलमित्यर्थः, तच्चेति इन्द्रस्तव एषामिव श्यामो वर्णो येषां ते तथा, इह च सर्वत्र द्वितीयाथे  
 प्रथमा, अतस्तानिति, तथा गोधूमो-धान्यविशेषः तद्द्रव्यं गौरमङ्गं येषां ते तथा गौरी या पाटला-पुष्पजातिविशेषस्तद्द्रव्ये गो-  
 रास्ते तथा ततः पद्द्रव्यस्य कर्मधारयः, गोधूमगोराङ्गगौरपाटलागौरास्तान्, तथा प्रवालवर्णाश्च-विद्रुमवर्णान् अभिनवपञ्च-  
 ववर्णान् वा रक्तानित्यर्थः, धूमवर्णाश्च-धूमवर्णान् पाण्डुरानित्यर्थः, ‘केइ’त्ति-क्रांश्चिन्न सर्वांनित्यर्थः, इदं च हरीत्यत आर-  
 म्य बोण्डगुब्दे कल्पितार्द्धरूपकं भवति । ? । तल्पत्राणि-तालाभिधानवृक्षपर्णानि रिष्ठा च-मदिरा तद्द्रवणो येषां ते तल्पत्र-  
 रिष्ठावर्णान्तिान्, तथा शालिवर्णाश्च शुक्लानित्यर्थः, ‘भासवर्णा य’त्ति-भ्रमवर्णाश्च भाषो वा पश्चिविशेषस्तद्द्रवणाश्च क्रांश्चि-  
 दित्यर्थः, ‘अंपियतिलकीडगाय’त्ति यापिताः-कालान्तप्रापिता ये तिलाः-धान्यविशेषास्तेषां ये कीटकाः-जीवविशेषास्त-  
 द्द्रव्ये वर्णसाधर्म्यात् ते तथा तांश्च यापिततिलकीटकांश्च ‘सोलोयारिड्डगा य’त्ति-सावलोकं-सोद्योतं यद्रिष्टकं-रत्नविशेष-

स्तद्वधे वर्णसाधम्यति ते सावलोकरिष्ठास्तांश्च 'पुंडपहया व'चि-पुण्डानि-वचलानि पदानि-पादा येषां ते तथा ते एव पुण्ड-  
पदिकास्तांश्च, तथा कनकपृष्ठान् कांश्चिदितिरूपकं ।२। 'चक्रागपिट्टवर्णण'चि-चक्रवाकः-पश्चिविशेषस्तत्पृष्ठस्येव वर्णो येषां  
ते तथा तान् सारसवर्णांश्च हंसवर्णान् कांश्चिद् इति पद्याद्धं, 'केतित्थ अब्भवणणे'ति कांश्चिदत्राप्रवर्णानि 'पक्कतलमेह-  
वणणा य'चि-पकपत्रो यस्तलः-तालवृक्षः स च भेषश्चेति विग्रहस्तस्यैव वर्णो येषां ते तथा तान्, 'पविरलमेहवणण'चि  
क्वचित्पाठः, तथा 'बहुवणणा केह'त्ति-बभ्रुवर्णान् कांश्चित्पिङ्गानित्यर्थः, बाहुवर्णानिति क्वचित् दृश्यते, रूपकमिदं ३। तथा  
'संज्ञानुरागसरिस'चि-सन्ध्यानुरागेण सदृशान् वर्णत इत्यर्थः, 'सुयसुहगुंजद्धरागसरिसत्थ केह'चि-शुकमुसस्य  
गुञ्जाद्धस्य च प्रतीतस्य रागेण-सदृशो रागो येषां ते तथा तान्, अत्र-इह कांश्चिदित्यर्थः, 'एलापाडलगोर'चि एलापाट-  
ला-पाटलाविशेषोऽथवा एला च पाटला च तद्वत् गौरा ये ते तथा तान्, 'सामलयागवलसामला पुणो केह'चि-श्या-  
मलता-प्रियङ्गुलता गवलं च-महिषगुंजं तद्वत् श्यामलान्-श्यामान् पुनः कांश्चिदिति रूपकं ।४। 'बह्वे अन्ने य निद्देस'चि  
एकवर्णेनाव्यपदेश्यानित्यर्थः, अत एवाह 'सामाकासीसरत्तपिय'चि-श्यामकाश्च काशीसं-रागद्रव्यं तद्वधे ते कासीसा-  
स्ते च रक्ताश्च पीताश्च ये ते तथा तान् शबलानित्यर्थः, 'अचंतविसुद्धाविय णं'ति-निर्दोषांश्चेत्यर्थः णमित्यलङ्कारे 'आह-  
ण्णजाइङ्कुलविणीयगयमच्छर'चि-आकीर्णानां-त्रवादिगुणयुक्तानां सम्बन्धिनी जातिकुले येषां ते तथा ते च ते विनी-  
ताश्च गतमत्सराश्च-परस्परसहनवर्जिता निर्भसका वेति तथा तान्, 'हयवर'चि-हयानां-अश्वानां मध्ये वरान् प्रधानानि-  
त्यर्थः, 'जहोवदेसकमचाहिणोऽविय णं'ति-यथोपदेशकममिव-उपदिष्टपरिपाठ्यनतिक्रमेणैव बोद्धुंशीलं येषां ते तथा ता-

नपि च णमित्यलङ्कारे, 'सिक्ख्वाचिणीयविणय'त्ति-शिक्षयेव-अश्वदमकपुरुषशिक्षाकरणादिव विनीतः--अवासः विनयो  
 धैस्ते तथा तान्, 'लंघणवगणघावणधोरणतिवईजइणसिक्खियगइ'त्ति-लङ्घनं गर्त्तादीनां वर्यनं--कूर्द्धनं घावनं--  
 वेगवद् गमनं धोरणं--चतुरत्वं गतिविषयं त्रिपदी--मल्लस्येव रङ्गभूम्यां गतिविशेषः एतद्रूपा ज्विनी--वेगवती शिक्षितेव शि-  
 क्षिता गतिर्यैस्ते तथा तान्, किं ते इति किमपरं, 'मणसावि उच्चिहंताइ'ति-मनसाऽपि-चेतसाऽपि न केवलं वपुषा  
 'उच्चिहंताइ'ति उत्पतन्ति, 'अणेगाइं आससयाइं'ति न केवलमश्वानेकैकशः अपि तु अश्वशतानि पश्यन्ति स्मेति,  
 गमनिकामात्रमेतदस्य वर्णकस्य भावार्थस्तु बहुश्रुतबोध्य इति । 'पउरगोयर'त्ति-प्रचुरचरणक्षेत्राः, 'वीणाण ये'त्यादि,  
 वीणादीनां तन्त्रीसङ्ख्यादिकृतो विशेषः, संभा--ढक्का 'कोट्टपुडे'त्यादि, कोष्ठपुटे ये पच्यन्ते ते कोष्ठपुटाः--वासविशेषाः तेषां  
 च, इह यावत्करणदिदं इत्थं--'पत्तपुडाण य'--पत्राणि तमालपत्रादीनि 'चोयपुडाण य'; 'चोय'त्ति-त्वक्पुटं--पत्रादिमयं  
 तद्भाजनं 'तगरपुडाण य एलापुडाण य हरिबेरपुडाण य चंदणपुडाण य कुंकुमपुडाण य ओसीरपुडाण य  
 चंपगपुडाण य मरुअगपुडाण य दमणगपुडाण य जात्तिपुडाण य जूहियापुडाण य मल्लियापुडाण य  
 नोमालियापुडाण य वासंतियापुडाण य केयहपुडाण य कप्परुपुडाण य पाडलपुडाण य'त्ति, इह तगरादीनि  
 गन्धद्रव्याणि गान्धिकप्रसिद्धानि, हिरिबेरं-वालकः उसीरं-वेरणीमूलं, केचित्तु पुष्पजातिविशेषाः लोकप्रसिद्धाः, पुष्पजातयश्च  
 प्रायो यद्यपि बहुदिनक्षमा न भवन्ति तथाऽप्युपायतः कृतिपयदिनक्षमाः सम्भाव्यन्ते, न च शुष्कतायामपि तासां सर्वथा  
 सुगन्धाभाव इति तद्ग्रहणमिहादृष्टमिति, तथा 'बहुस्स'त्ति-बहोः खण्डादेः पुष्पोत्तरा पबोत्तरा च शर्करामेदावेव, 'कोय-

वर्गाण यं चि-रूतपरितपदानां प्राचाराः-प्रावरणविशेषा नवतानि-जीनानि मलयानि मध्वकाणि चासनविशेषाः, अथवा मलयानि-मलयदेशोत्पन्नाः वस्त्रविशेषाः, पाठान्तरेण 'मसगाण यं चि मशकाः--कृत्सिमण्डिताः वस्त्रविशेषाः शिलापट्टाः-मसुणशिलाः, 'समियस्स' चि-कणिकायाः, 'खल्लिणबंधेहि यं चि-खल्लिनैः--कविकैः. 'उवीलणेहि यं चि-अवपीडना-मिबन्धनविशेषः, पाठान्तरे 'अहिलणेहि' -पुलबन्धनविशेषः 'पडियाणएहि यं चि-पटवानकं पर्याणस्याथो यद्दीयते इति शेष प्रायः प्रसिद्ध । अथेन्द्रियासहजानां स्वरूपस्थेन्द्रियासंभदोषस्य चाभिधायकं गाथाकदम्बकं वाचनान्तरेऽधिकमु-पलभ्यते, तत्र-

कलरिभियमहुरततीतलतालवसकउहाभिरामेसु । सहेसु रज्जमाणा रमंती सोहंदियवसदा ॥ १ ॥  
सोहंदियदुइतत्तणस्स अह एत्तिओ हवति दोसो । दीविगरुयमसहंतो वहबंधं तित्तिरो पत्तो ॥ २ ॥  
थणजहणव्वयणकरवरणयणगव्वियविलासियगतीसु । रूवेसु रज्जमाणा रमंति चक्खिदियवसदा ॥ ३ ॥  
चक्खिदियदुइतत्तणस्स अह एत्तिओ भवति दोसो । जं जलणंमि जलंते पडति पयंगो अबुद्धीओ ॥ ४ ॥  
अगुरुवरपवरव्वरणउडयमल्लणुलेवणविहीसु । गंधेसु रज्जमाणा रमंति घाणिदियवसदा ॥ ५ ॥ घाणि-  
दियदुइतत्तणस्स अह एत्तिओ हवह दोसो । जं ओसहिगंधेणं विलाओ निद्धावती उरगो ॥ ६ ॥ तित्त-  
कडुंयं कंसय्येव महुर बहुल्लज्जेपेज्जल्लेज्जेसु । आसायमि उ गिद्धा रमंति जिडिभदियवसदा ॥ ७ ॥ जिडिभ-  
दियदुइतत्तणस्स अह एत्तिओ हवह दोसो । जं गललगुक्खित्तो फुरह थलविरह्छिओ मच्छो ॥ ८ ॥ उउ-

भयमाणासु हे हि ये सेवि भवहियंगमणिव्वुइकरेसु । फासेसु रत्तमाणा रमंति फासिदियवसट्टा ॥ ९ ॥  
 फासिदियदुइत्तणस्स अहं ऐत्तिओ हवइ दोसो । जं खणइ मत्थयं कुंजरस्स लोहं कुसो तिक्खो ॥ १० ॥  
 कल्लिभिंयमंहु रत्तंतालं वसं कउहाभिरामेसु । सदेसु जे न गिद्धा वसट्टमरणं न ते मरए ॥ ११ ॥  
 थणजं हणं धणं करं चरणं यणं गव्वियविलसियगतीसु । रुवेसु जे न रत्ता वसट्टमरणं न ते मरए ॥ १२ ॥  
 अगुरुं पंवरं घृणं उउयं मल्लं णुलेवणविहीसु । गंधेसु जे न गिद्धा वसट्टमरणं न ते मरए ॥ १३ ॥ तित्त-  
 कडुयं कसौयं ब महुंरं बहुलत्तं पेज्जलेज्जेसु । आसाये जे न गिद्धा वसट्टमरणं न ते मरए ॥ १४ ॥ उउभ-  
 यमाणसु हेसु ये सेवि भवहियंगमणिव्वुइकरेसु । फासेसु जे न गिद्धा वसट्टमरणं न ते मरए ॥ १५ ॥  
 सदेसु ये मद्दं यपावएसु सोयं विसयं उवगएसु । तुहेण व रुहेण व समणेण सया ण होयब्बं ॥ १६ ॥ रुवेसु  
 य मद्दं यपावएसु चक्खु विसयं उवगएसु । तुहेण व रुहेण व समणेण सया ण होयब्बं ॥ १७ ॥ गंधेसु य  
 मद्दं यपावएसु घाण विसयं उवगएसु । तुहेण व रुहेण व समणेण सया ण होयब्बं ॥ १८ ॥ रसेसु य मद्द-  
 यपावएसु जिब्भ विसयं उवगएसु । तुहेण व रुहेण व समणेण सया ण होयब्बं ॥ १९ ॥ फासेसु य मद्द-  
 यपावएसु काय विसयं उवगएसु । तुहेण व रुहेण व समणेण सया ण होयब्बं ॥ २० ॥ एवं खलु जंबू !  
 समणेणं भगवया महावीरेणं जाव संपत्तेणं सत्तरसमस्स णायञ्जयणस्स अयमंहे पन्नते ति वेमि ॥ सुत्रम-  
 १४१ ॥ सत्तरं समं नायञ्जयणं समत्तं ॥ १७ ॥

‘कलरिभियमहुरतंतितलतालंबंसककुहाभिरामेसु’चि-कलाः-अत्यन्तश्रवणहृदयहराः अव्यक्तध्वनिरूपा अथवा कलावन्तः-परिणामवन्त इत्यर्थः रिमिताः-स्वरघोलनाप्रकारवन्तः मधुरा-श्रवणसुखकरा ये तन्त्रीतलतालंबंशाः ते तथा, तत्र तन्त्री-वीणा तलतालाः-हस्ततालाः अथवा तलाः-हस्ताः तालाः-कंसिकाः वंशाः-वेणवः, इह च तन्त्यादयः कला-दिभिः शब्दधर्मैर्विशेषिताः शब्दकारणत्वात् च ते ककुदाः-प्रधानाः स्वरूपेणाभिरामाश्च-मनोज्ञा इति कर्मधारयोऽस्तस्तेषु, रमन्ति-रतिं कुर्वन्तीति इति योगः, ‘सदेसु रज्जमाणा रमन्ति सोइंदियवसट्ट’चि-शब्देषु-मनोज्ञध्वनिषु श्रोतोविषयेषु ख्यमाना-रागवन्तः श्रोत्रेन्द्रियस्य वशेन-बलेन ऋताः-पीडिता इति विग्रहः, ये शब्देषु रज्यन्ते-तत्कारणेषु तन्त्यादिषु श्रोत्रेन्द्रियवशाद्रमन्ते इति वाक्यार्थः, अनेन च कार्यतः श्रोत्रेन्द्रियस्वरूपमुक्तं ॥ ‘सोइंदियदुइंतत्तणस्स अह एत्तिओ हवइ दोसो । दीवियरुयमसहंतो वहंबंधं तित्तिरो पत्तो’ ॥ २ ॥ कण्ठ्या, नवरं शाकुनिकपुरुषसम्बन्धी पञ्जरस्थ-तिचिरो द्वीपिका उच्यते तस्य यो रवस्तमसहमान, स्वनिलयाभिर्गतो बंधं च-पञ्जरबन्धनं प्राप्त इत्यर्थः । ‘थणजघणवयणकरचरणनयणगड्वियचिल्लासियगईसु’चि-स्तनादिषु तथा गर्वितानां-सौभाग्यमानवतीनां स्त्रीणां या विलसिता-जातविलासाः सविकारा गतयस्तासु चेत्यर्थः । ‘रूवेसु रज्जमाणा रमन्ति चक्खिदियवसट्टा’ प्रतीतमेव, ‘चक्खिदियदुइंतत्तणस्स अह एत्तिओ हवइ दोसो । जं जलणंमि जलंते पडइ पयंगो अबुद्धीओ ॥ ४ ॥’ कण्ठ्या, अगुरुवर-पवरधूवणउउयमह्णानुलेवणविहीसु । गंधेसु रज्जमाणा रमन्ति घाणिदियवसट्टा ॥५॥’ कण्ठ्याः, नवरं अगुरुवरः-कृष्णागरुः प्रवरधूपनानि-गन्धयुक्तधूपदेअविरचित्ता धूपविशेषाः, ‘उउय’चि-ऋतौ २ यान्युपचितानि तानि आर्त्तवानि माल्यानि-



जात्यादिक्लुप्तमानि अत्रुलेपनानि च-श्रीखण्डकुङ्कुमादीनि विधयः-एतत्प्रकारा इति ॥ 'घाणिणियदुइन्तत्तणस्स अह  
 एत्तिओ भवति दोसो । जं ओसहिगंधेणं बिलाओ निद्धावई उलगो' ॥६॥ कण्ठ्या; तित्तकडुअं कसायंभमहुरं  
 बहुखज्जपेज्जलेज्जेसु । आसायंसि उ गिद्धा रमंति जिडिभियवसद्दा' ॥७॥ पूर्ववत्, नवरं तिकाणि-निम्बकडु-  
 कादीनि कटुकानि-शुङ्गबेरादीनि कषायाणि-मुद्गादीनि अम्लानि-तक्रादिसंस्कृतानि मधुराणि-खण्डादीनि खाद्यानि-  
 कुरमोदकादीनि पेयानि-जलमद्यदुग्धादीनि लेह्यानि-मधुशित्तरिणीप्रभृतीनि आस्वादे-रसे । 'जिडिभियदुइन्तत्तणस्म अह  
 एत्तिओ भवइ दोसो । जं गललगुणुविस्वतो फुरइ थलविरेछिओ मच्छो ॥८॥ कण्ठ्या, नवरं गलं-विडियं तत्र लभः कण्ठे  
 विद्धत्वात् उत्थिओ-जलादुद्धृतस्ततः कर्मधारयः, स्फुरति-स्पन्दते स्थले-भ्रूतले 'विरेछिओ'ति प्रसारितः क्षिप्त इत्यर्थः  
 यः स तथा ॥ 'उउभयमाणसुहेसु य सविभवहिययमणनिव्वुइकरेसु फासेसु रज्जमाणा रमंति फासिदिय  
 वसद्दा' ॥ ९ ॥ कण्ठ्या, नवरं क्रतुषु-हेमन्तादिषु मज्जमानानि सुखानि-सुखकराणि तानि तथा तेषु,  
 सविभवानि-ससृद्धियुक्तानि महाघनानीत्यर्थः, हितकानि-प्रकृत्यनुकूलानि सविभवानां वा-भीमतां हितकानि यानि तानि  
 तथा मनसो निर्दृष्टिकराणि यानि तानि तथा ततः पदत्रयस्य वा कर्मधारयोऽतस्तेषु, स्रक्चन्दनाङ्गनावसन-  
 तुल्यादिषु द्रव्येष्विति गम्यते, 'फासिदियदुइन्तत्तणस्स अह एत्तिओ हवइ दोसो । जं खणइ मत्थयं कुंजरस्स लोहं कुसो  
 तिक्खो ॥ १० ॥' भावना प्रतीतिव, अथेन्द्रियाणां संवरे गुणमाह-'कलरिभियमहुरंततीतलतालवंसककुहाभिरामेसु । सदेसु  
 जे न गिद्धा वसइमरणं न ते मरए' ॥११॥ पूर्ववत्, नवरमिह तन्व्यादयः शब्दकारणत्वेनोपचाराच्छब्दा एव विवक्षिता

अतः शब्देष्वित्येतस्य विशेषणतया व्याख्येयाः, तथा वशेन-इन्द्रियपारतन्त्र्येण क्रताः-पीडिता वशात्ताः वशं वा-विषय-  
 पारतन्त्र्यं क्रताः-प्राप्ता वशात्ताः, तेषां मरणं वशात्तमरणं वा न ते 'मरण'चि म्रियन्ते छान्दसत्त्वादेकवचन-  
 त्रययोगेऽपि बहुवचनं व्याख्यातमिति, 'अणजघनवयणकरचरणनयणगधियविलासियगईसु । रुत्वेसु जे न रत्ता वसट्टमणं नं ते  
 मरण ॥ १२ ॥' एवमन्यास्तिस्रो गाथाः पूर्वोक्तार्था वाच्याः, उपदेशमिन्द्रियाश्रितमाह- 'सहेसु य मइयपावएसु सोयविसयं  
 उवसएसु । तुष्टेण व रुष्टेण व सम्भणेण सया न होयवं ॥ १६ ॥' कण्ठ्या, नवरं मद्रुकेषु-मनोज्ञेषु पापकेषु-अमनोज्ञेषु क्रमेण  
 तुष्टेन-रागवता रुष्टेन-रोषवतेति, एवमन्या अपि चतस्रोऽध्येतव्या इति । इह विशेषोपनयमेवमाचक्षते- "जह सो कालियदीवो  
 अणुवमसोक्खो तहेव जहधम्मो । जह आसा तह साहू वणियधुण्डुणुकूलकारिजणा ॥ १ ॥ जह सदाइअगिद्धा पत्ता नो पास-  
 वंधणं आसा । तह विसएसु अगिद्धा बज्झंति न कम्मणा साहू ॥ २ ॥ जह सच्छंदविहारो आसाणं तह य इह वरमुणीणं ।  
 जरमरणाइं विवज्जिय संपचाणंदनिघाणं ॥ ३ ॥ जह सदाइसु गिद्धा बद्धा आसा तहेव विसयरया । पावेंति कम्मबंधं परमा-  
 सुहकारणं घोरं ॥ ४ ॥ जह ते कालियदीवा णीया अन्नत्थ दुहगणं पत्ता । तह धम्मपरिब्भट्टा अधम्मपत्ता इहं जीवा ॥ ५ ॥  
 पावेंति कम्मनरवइवसया संसारवाहायालीए । आसप्पमइहि व नेरइयाइहिं दुक्खाइं ॥ ६ ॥" [ यथा स कालिकद्वीपोऽनुपम-  
 सौख्यस्तथा यतिधर्मः । यथाऽश्वास्तथा साधवः वणिज इवानुकूलकारिणो जनाः ॥ १ ॥ यथा शब्दाद्येषु अगृह्याः प्राप्ता न  
 पाक्यन्तं अश्वाः । तथा विषयेषु अगृह्या बध्यन्ते न कर्मणा साधवः ॥ २ ॥ यथा स्वच्छन्दविहारोऽश्वानां तथाचेह वर-  
 मुनीनां । जरामरणानि विवर्त्यं संप्राप्ताऽऽनन्दं निर्वाणं ॥ ३ ॥ यथा शब्दादिषु गृह्या बद्धा अश्वास्तथैव विषयताः ।

प्राप्नुवन्ति कर्मकम्बुं परमासुखकारणं धोरम् ॥ ४ ॥ यथा ते कालकद्वीपात् नीता अन्यत्र दुःखगणं प्राप्तः । तथा धर्मपरिभ्रष्टाः  
 अधर्मप्राप्ता इह जीवाः ॥ ५ ॥ प्राप्नुवन्ति कर्मनरपतिवशगताः संसारवाह्यालौ अश्वप्रमर्दकैरिव नैरथिकादिभिर्दुःखानि ॥ ६ ॥  
 इति सप्तदशं ज्ञातं विवरणतः समाप्तम् ॥ १७ ॥

## १८-श्रीसुसुमाख्यं ज्ञाताध्ययनम् ।

अथाष्टादशमारभ्यते, अस्य चायं पूर्वेण सहायमभिसम्बन्धः-पूर्वस्मिन्निन्द्रियवशवर्तिनामितरेषां चानर्थेतरावुक्ताविह तु  
 लोभवशवर्तिनामितरेषां च तावेवोच्येते इत्येवंसम्बद्धमिदम्—

जति णं अंते ! समणेणं० सत्तरसमस्स अयमट्ठे पणत्ते अट्ठारसमस्य के अट्ठे पन्नत्ते !, एवं खल्ल जंबू !  
 तेणं कालेणं २ रायणिहे णामं नयरे होत्था, वण्णओ, तत्थ णं धणणे सत्थवाहे भद्दा भारिया, तस्स णं  
 धणणस्स सत्थवाहस्स पुत्ता भद्दाए अत्तया पंच सत्थवाहदारगा होत्था, तं०-धणे धणपाले धणदेवे धणगोवे  
 धणरक्खिए, तस्स णं धणणस्स सत्थवाहस्स धूया भद्दाए अत्तया पंचपहं पुत्ताणं अणुमग्गजातीया सुंसु-  
 माणां दारिधा होत्था सुमालपाणिपाया, तस्स णं धणणस्स सत्थवाहस्स चिंलाए नामं दासचेडे होत्था  
 अहीणपंचिदियसरीरे मंसोवचिए बालकीलावणक्कुसले याचि होत्था, तते णं से दासचेडे सुंसुमाए दारियाए  
 बालग्गाहे जाए याचि होत्था, सुंसुमं दारियं कडीए गिण्हति २, बहूहिं दारएहि य दारियाहि य डिंम-

एहि य डिभियाहि य कुमारएहि य कुमारियाहि य सद्धि अभिरममाणे २ विहरति, तते णं से चिलाए दासचेडे तेसि बहूणं दारियाण य ६ अप्पेगतियाणं खल्लए अवहरति, एवं वट्टए आडोलियातो तेदुसए पोत्तुल्लए साडोल्लए अप्पेगतियाणं आभरणमल्लालंकारं अवहरति अप्पेगतिया आउस्सति एवं अवहसइ निच्छेडेति निबभच्छेति तल्लेति अप्पे० तालेति, तते णं ते बहवे दारगा य ६, रोयमाणा ण ५, साणं २, अम्मपिऊणं णिवेदेंति; तते णं तेसि बहूणं दारगाण य ६, अम्मपियरो जेणेव घण्णे सत्थवाहे तेणेव उवा० घण्णं सत्थवाहं बहूहिं खेज्जणाहि य रंढणाहि य उवलंभणाहि य खेज्जमाणा य रंढमाणा य उवलंभेमाणा य घण्णास्स एयमट्टं णिवेदेंति, तते णं घण्णे सत्थवाहे चिलायं दासचेडं एयमट्टं सुज्जो २, णिवारेंति णो चैव णं चिलाए दासचेडे उवरमति, ततेणं से चिलाए दासचेडे तेसि बहूणं दारगाण य ६, अप्पेगतियाणं खुल्लए अवहरति जाव तालेति, तते णं ते बहवे दारगा य ६, रोयमाणा य जाव अम्मपिऊणं णिवेदेंति, तते णं ते आसुरुत्ता ५ जेणेव घण्णे सत्थवाहे तेणेव उवा० २ ता, बहूहिं खिज्ज जाव एयमट्टं णिवेदेंति, तते णं से घण्णे सत्थवाहे बहूणं दारगाणं ६, अम्मपिऊणं अंतिए एयमट्टं सोचा आसुरुत्ते चिलायं दासचेडं उच्चावयाहिं आउसणाहिं आउसति उद्धंसति निच्छेडेति तल्लेति उच्चावयाहिं तालणाहिं तालेति सातो गिहातो णिच्छुभति ॥ सूत्रम्-१४२ ॥ तते णं से चिलाए दासचेडे सातो गिहातो निच्छेडे समाणे रायगिहे नयेर सिंघाडए जाव पहेसु देवकुलेसु य सभासु य पवासु य जूयल्लएसु य

वेसाघरेसु य पाणधरएसु य सुहंसुहेणं परिवड्ढति, तते णं से चिलाए दासचेडे अणोहट्टिए अणिवारिए  
 सच्छंदमई सहरप्पयारी मल्लपसंगी चोळपसंगी मंसपसंगी जूयपसंगी वेसापसंगी परदारप्पसंगी जाए  
 यावि होत्था, तते णं रायगिहस्स नगरस्स अदूरसामंते दाहिणपुरत्थिमे दिसिभाए सीहगुहा नामं चोर-  
 पल्ली होत्था विसमगिरिकडगकोडंबसंनिविट्ठा वंसीकलंकपागारपरिविखत्ता छिण्णसेलविसमप्पवायफरि-  
 होवगूढा एगदुवारा अणेगवंडी विदितजणणिगमपवेसा अडिंभतरपाणिया सुदुल्लभजलपेरंता सुबहुस्सवि  
 कूवियबलस्स आगयस्स दुप्पहंसा यावि होत्था, तत्थ णं सीहगुहाए चोरपल्लीए विजए णामं चोरसेणावती  
 परिवसति अहम्मिए जाव अधम्मे केऊ समुट्टिए बहुणगरणिगयजंसं सूरे दढप्पहारी साहसीए सधंवही,  
 से णं तत्थ सीहगुहाए चोरपल्लीए पंचणहं चोरसयाणं आहेवच्चं जाव विहरति, तते णं से विजए तकरे  
 चोरसेणावती बहूणं चोराण य पारदारियाण य गंठिंभेयगाण य संधिच्छेयगाण य खत्तव्वणगाण य राया-  
 वगारीण य अणधारगाण य बालघायगाण य वीसंभघायगाण य जूयकाराण य खंडरक्खाण य अन्नसिं च  
 बहूणं छिन्नभिन्नबहिराहयाणं कुडंगे यावि होत्था, तते णं से विजए तकरे चोरसेणावती रायगिहस्स  
 दाहिणपुरच्छिमं जणवयं बहूहिं गामघाएहि य नगरघाएहि य गोग्गहणेहि य बंदिग्गहणेहि य पंथ-  
 कुट्टणेहि य खत्तखणणेहि य उचीलेमाणे २, विद्धंसेमाणे २, गित्थाणं गिद्धणं करमाणे विहरति; तते णं से  
 चिलाए दासचेडे रायगिहे बहूहिं अत्थाभिसंकीहि य चोळ्ळाभिसंकीहि य दाराभिसंकीहि य घणिएहि य

बहूकरेहि य परब्रह्मवमणे २ रायगिहाओ नगरीओ णिगगच्छति २ जेणेव सीहगुफा चोरपल्ली तेणेव उवा०  
२ विजयं चोरसेणावतीं उवसंपल्लित्ताणं विहरति, तते णं से चिलाए दासचेडे विजयस्स चोरसेणावहस्स  
अग्गे असिलट्टुग्गाहे जाए यावि होत्था, जाहेविय णं से विजए चोरसेणावती गामघायं वा जाव पंथकोट्टिं  
वा काउं वच्चति ताहेविय णं से चिलाए दासचेडे सुबहुंपि हु कूचियबलं हयविमहिय जाव पडिसेहिति,  
पुणरवि लद्धटे कयकज्जे अणहसमग्गे सीहगुहं चोरपल्लिं हवमागच्छति, तते णं से विजए चोरसेणावती  
चिलायं तक्करं बहूइओ चोरविज्जाओ य चोरमंते य चोरमायाओ चोरनिगडीओ य सिक्खावेहं, तते णं से  
विजए चोरसेणावहस्स अन्नया कयाइं कालधम्मुणा संजुत्ते यावि होत्था, तते णं ताइं पंचचोरसयातिं विजयस्स  
चोरसेणावहस्स महया २, इड्डीसक्कारसमुदएणं णीहरणं करेति २, बहूइं लोइयातिं मयकिच्चाइं करेइ २, जाव  
विगयसोया जाया यावि होत्था, तते णं ताइं पंच चोरसयातिं अन्नमन्नं सदावेति २ एवं व०-एवं खलु  
अम्मं देवा० ! विजए चोरसेणावहस्स कालधम्मुणा संजुत्ते अयं च णं चिलाए तक्करे विजएणं चोरसेणावइणा  
बहूइओ चोरविज्जाओ य जाव सिक्खाविए तं सेयं खलु अम्मं देवाणुप्पिया ! चिलायं तक्करं सीहगुहाए  
चोरपल्लीए चोरसेणावइत्ताए अभिसिंचित्तए त्ति कहु अन्नमन्नस्स एयमट्टं पडिसुणेंति २, चिलायं तीए सीह-  
गुहाए चोरसेणावइत्ताए अभिसिंचति, तते णं से चिलाए चोरसेणावती जाए अहम्मिणए जाव विहरति,

तए णं से चिलाए चोरसेणावती चोरणायगे जाब कुडगे यावि होत्था, से णं तत्थ सीहगुहाए चोरपल्लीए  
 पंचणहं चोरसयाण य एवं जहा विजओ तहेव सबवं जाव रायगिहस्स दाहिणपुरच्छिमिल्लं जणवयं जाव  
 गित्थानं निद्धणं करेमाणे विहरति ॥ सूत्रम्-१४३॥ तते णं से चिलाए चोरसेणावती अन्नया कयाहं विपुलं  
 असण ४, उवक्खडावेत्ता पंच चोरसए आमंतेइ तओ पच्छा एहाए कयबलिकम्मं भोगणमंडवंसि तेहिं  
 पंचहिं चोरसएहिं सद्धिं विपुलं असणं ४ सुरं च जाव पसणं च आसाएमाणे ४, विहरति; जिमिय-  
 सुत्ततराणए ते पंच चोरसए विपुलेणं धूवपुष्फगंधमल्लालंकारेणं सक्कारेति सम्माणेति २, एवं व०-एवं खलु  
 देवा० ! रायगिहे णयेरे धणणे णामं सत्थवाहे अहे, तस्स णं धूया भहाए अत्तया पंचणहं पुत्ताणं  
 अणुमगजातिया सुंभुमाणामं दारिया यावि होत्था अहीणा जाव सुरूवा, तं गच्छामो णं देवा० !  
 धणस्स सत्थवाहस्स गिहं विळुंपामो तुभं विपुले धणकरण जाव सिलप्पवाले ममं सुंभुमा दारिया,  
 तते णं ते पंच चोरसया चिलायस्स० पडिसुणंति, तते णं से चिलाए चोरसेणावती तेहिं पंचहिं  
 चोरसएहिं सद्धिं अल्लचम्मं दुरुहति २, पुब्बावरणहकालसमयंसि पंचहिं चोरसएहिं सद्धिं सणणद्ध जाव  
 गहियाउहपहरणा माइयगोसुहिएहिं फलएहिं णिकट्टाहिं असिलट्टीहिं अंसगएहिं तोणेहिं सजीवेहिं  
 घणूहिं सभुक्खित्तेहिं सेरेहिं सभुल्लालियाहिं दीहाहिं ओसारियाहिं उरुधंटियाहिं छिप्पतुरेहिं वज्जमाणेहिं  
 महया २ उक्किट्टसीहणायचोरकलकलरवं जाव सहरवभूयं करेमाणा सीहगुहातो चोरपल्लीओ पडिनि-

क्वमति २, जेणेव रायगिहे नगरे तेणेव उवा० २, रायगिहस्स अदूरसामंते एगं महं गहणं अणुपविसति २, दिवसं खवेमाणा चिद्धति, तते णं से चिलाए चोरसेणावई अद्धरत्तकालसमयंसि निसंतपडिनिसंतंसि पंचहिं चोरसएहिं सद्धिं माइयगोसुहिहेहिं फलएहिं जाव सूहआहिं उरुयंटियाहिं जेणेव रायगिहे पुरत्थिमिल्ले दुवारे तेणेव उवा० २, उदगवत्थि परासुसति आयंते ३ तालुगघाडणिविज्जं आवाहेइ २, रायगिहस्स दुवारकवाडे उदएणं अच्छोडेति कवाडं विहाडेति २, रायगिहं अणुपविसति २, महया २, सदेणं उग्घोसेमाणे २, एवं व०-एवं खलु अहं देवा० ! चिलाए णामं चोरसेणावई पंचहिं चोरसएहिं सद्धिं सीहगुहातो चोरपल्लीओ इह हव्वमागए धणणस्स सत्थवाहस्स गिहं घाउकामे तं जो णं णवियाए माउयाए दुद्धं पाउकामे से णं निग्गच्छउ त्ति कहु जेणेव धणणस्स सत्थवाहस्स गिहे तेणेव उवा० २, धणणस्स गिहं विहाडेति, तते णं से धण्णे चिलाएणं चोरसेणावतिणा पंचहिं चोरसएहिं सद्धिं गिहं घाइल्लमाणं पासति २, भीते तत्थे ४, पंचहिं पुत्तेहिं सद्धिं एगंतं अवक्कमति, तते णं से चिलाए चोरसेणावती धणणस्स सत्थवाहस्स गिहं घाएति २ सुबहुं धणकणण जाव सावएल्लं सुंसुमं च दारियं गेणहति २ ता रायगिहाओ पडिणिक्खमति २ जेणेव सीहगुहा तेणेव पहारेत्थ गमणाए ॥ सूत्रम्-१४४ ॥

सर्वं सुगमं नवरं 'खुल्लए'ति-कपर्दकविशेषान् 'वर्त्तकान्'-जत्वादिमयगोलकान् 'आडोलियाउ'ति-रुद्धा उन्नहया इति वा योच्यते, 'तेंदूसए'ति-कन्दुकात्, 'पोत्तुल्लए'ति-वज्रमयपुत्रिका अथवा परिधानवस्त्राणि, 'साडोल्लए'ति-



उत्तरीयवस्त्राणि, 'खेज्जणाहि य 'ति-खेदनाभिः-खेदसंस्त्रचिकाभिः वाग्भिः, रुदनादिभिः-रुदितप्रायाभिरुपलम्भनाभिः-  
 युक्तमेतद्गुणवाद्वादिभिरिति 'अणोहृट् ए 'ति-वकार्ये प्रवर्त्तमानं तं हस्ते गृहीत्वा योऽपहरति-व्यावर्त्तयति तदभावा-  
 दनपहर्त्तकः अनपघट्टको वा वाचा निवारयितुरभावादनिवारकः, अत एव स्वच्छन्दमतिः-निरर्गलबुद्धिरत एव स्वैरप्रचारी  
 स्वच्छन्दविहारी, 'चोल्जपसंगे'ति-चौर्यप्रसक्तः, अथवा 'चोल्ज 'ति-आश्रयेषु कुहेटकेषु प्रसक्त इत्यर्थः, 'विसमगिरिकडग-  
 कोलंबसञ्चिचिट्ट 'ति-विषमो योऽसौ गिरिकटकस्य-पर्वतनितम्बस्य कोलम्बः-ग्रान्तस्तत्र सञ्चिविष्टा-निवेशिता या सा तथा,  
 कोलम्बो हि लोकेऽवनतं वृक्षशाखाग्रमुच्यते इह चोपचारतः कटकान्त्रं कोलम्बो व्याख्यातः, 'वंसीकलंकपागारपरि-  
 क्लिप्त 'ति वंशीकलङ्का-वंशजालीमयी वृत्तिः सैव प्राकारस्तेन परिशिप्ता-वेष्टिता या सा तथा, पाठान्तरे तु वंशीकृत-  
 प्राकारेति, 'छिन्नसेलविसमपवायपरिहोवगूढ 'ति-छिन्नो-विभक्तोऽवयवान्तरापेक्षया यः शैलस्तस्य सम्बन्धिनो ये  
 विषमाः प्रपाता-गर्चाः त एव परिखा तयोपगूढा-वेष्टिता या सा तथा, एकद्वारा-एकप्रवेशनिर्गममार्गी, 'अणोगखंडि'ति-  
 अनेकनश्यकरनिर्गमापद्वारा विदितानामेव-प्रतीतानां जनानां निर्गमप्रवेशौ यस्यां हेरिकादिभयात् सा तथा, अभ्यन्तरे पानीयं  
 यस्याः सा तथा, सुदुर्लभं जलं पर्यन्तेषु-बहिःपार्श्वेषु यस्याः सा तथा, सुबहोरपि 'कूवियबलस्त 'ति-भोषव्यावर्त्तकसैन्य-  
 स्यागतस्य दुष्प्रखंस्या, वाचनान्तरे पुनरेवं पठ्यते-'जत्थ चउरंगबलनिउत्तावि कूवियबला हयमहियपवरवीर-  
 घाइयनिवडियचिन्धघयवडया कीरंति 'ति-अत्र चतुर्णामिङ्गानां हस्त्यश्वरथपदातिलक्षणानां यद्वलं-सामर्थ्यं तेन  
 नियुक्तानि-नितरां सङ्गतानि यानि तानि तथा, 'कूवियबल 'ति-निवर्त्तकसैन्यानीति, 'अघम्भिम्'ति-अघमेण चरतीत्य-

धार्मिकः, यावत्करणात् 'अधर्मिमद्वे'- अधर्मिष्ठोऽतिशयेन निर्द्धर्मा निस्तृशकर्मकारित्वात्, 'अधर्ममक्त्वाई'-अधर्ममाख्यातुं शीलं यस्य स तथा, 'अधम्ममाणुए'-अधर्मे कर्तव्येऽनुज्ञा-अनुमोदनं यस्य सोऽधर्मानुज्ञः अधर्मानुगो वा 'अधम्मपलोई' अधर्ममेव प्रलोकयितुं शीलं यस्यासावधर्मप्रलोकी 'अधम्मपलज्जेण'-अधर्मप्रायेषु कर्मसु प्रकषेण रत्यते इत्यधर्मप्रजनः, रलयोरैक्यमितिकृत्वा रस्य स्थाने लकारः, 'अधम्मसीलसमुदायारे'-अधर्म एव शीलं-स्वभावः समुदाचारश्च यतिकञ्चनानुष्ठानं यस्य स तथा, 'अधम्मणेण चव वित्ति कप्पेमाणे विहरति'-अधर्मेण-पापेन सावधानुष्ठानैव दहनाङ्कनलिञ्छनादिना कर्मणा वृत्ति-वर्तनं कल्पयन्-कुर्वाणो विहरति-आस्ते स्म 'हणञ्छिदिभिदवियत्तए'-हन-विनाशय छिन्द-द्विधा कुरु भिद-कुंतादिना मेदं विधेहीत्येवं परानपि प्रेरयन् प्राणिनो विक्रन्ततीति हनञ्छिन्दभिन्द-विकर्त्तकः, हनेत्यादयः शब्दाः संस्कृतेऽपि न विरुद्धाः, अनुकरणरूपत्वाद्वा, 'लोहियपाणि'-प्राणविकर्त्तनो (नतो) लोहितौ रक्तरक्तया पाणी-हस्तौ यस्य स तथा, 'चंडे'-चण्डः उत्कटरोषत्वात्, 'रुदे'-रौद्रो निस्तृशत्वात्, शुद्रः शुद्रकर्मकारित्वात्, साहसिकः-असमीक्षितकारित्वात्, 'उक्कंचणवंचणमायानियडिकवडकूडसाइसंपओगबहुले' उत्कञ्चनशुक्लोवा, मुग्धं प्रति तत्प्रतिरूपदानादिकमसद्व्यवहारं कर्तुं प्रवृत्तस्य पार्श्ववर्त्तिविचक्षणमयात् क्षणं यत्तदकरणं तदुत्कञ्चनमित्यन्ये, वञ्चनं-प्रतारणं माया-परवञ्चनबुद्धिः निकृतिः-बकहृत्पया कुर्कुटादिकरणं अधिकोपचारकरणेन परञ्छलनमित्यन्ये मायाप्रच्छादनार्थं मायान्तरकरणमित्यन्ये कपटं-वेषादिविपर्ययकरणं कूटं कार्षापणतुलाव्यवस्थापत्रादीनामन्यथाकरणं 'साह'सि-अविश्रम्भः, एषां सम्प्रयोगः-प्रवर्त्तनं तेन बहुलः स वा बहुलो यस्य स तथा, 'निस्सीले'-अपगतशुभ-

स्वभावः 'निष्कण्ट'—अणुप्रतरहितः, 'निर्गुणो'—गुणप्रतरहितः, 'निष्पञ्चक्लाणपोसहोववासे'—अविद्यमानपौरुष्यादि-  
 प्रत्याख्यानोऽसस्पर्वदिनोपवासधेत्यर्थः, 'बहूणं द्रुपपचउप्यभियपमुपक्लिखिसिरीसत्राणं वायाए वहाए उच्छायणयाए अधम्म-  
 केऊसमुट्टिण्'चि प्रतीरं नवरं घातः—प्रहारो वधो—हिंसा व्यत्ययो वा उच्छादना—जातेरपि व्यञ्छेदने तदर्थं 'अधम्मकेतुः'  
 पापप्रधानः केतुः—ग्रहविशेषः स इव यः स तथा, द्विपदादिसन्धानां हि क्षयाय यथा केतुर्ग्रहः समुद्रच्छति तथाऽयं समुत्थित  
 इति भावना, बहुनगरेषु निर्गतं—जनमुखाभिःस्युतं यशः—ख्यातिर्यस्य स तथा, घुरो—विक्रमी दृढप्रहारी—गाढप्रहारः, शब्दं  
 लक्ष्मीकृत्य विष्यति यः सः शब्दवेधी, चौरादीन्येकादशपदानि प्रतीतानि, नवरं ग्रन्थिभेदकाः—न्यासकान्यथाकारिणः  
 घुर्घुरकादिना वा ये ग्रन्थीन् छिन्दन्ति, सन्धिच्छेदका ये गृहमिचिसन्धीन् विदारयन्ति, क्षात्रखानका ये सन्धानवर्जितभिचीः  
 काणयन्ति, 'अणधारयं'ति ऋणं—व्यवहरकदेयं द्रव्यं तद्ये तेषां धारयन्ति, खंडरथा—दण्डपाशिकाः, तथा छिन्ना—हस्तादिषु  
 भिन्ना नासिकादौ बाह्याः देशात् आहता—दण्डादिभिः ततो इन्द्रः, कुडंगं—वंशादिगहनं तद्रथो दुर्गमत्वेन रक्षार्थमाश्रयणीय-  
 त्वसाधयति स तथा, 'नित्थाणं'ति—स्थानभ्रष्टं, 'अगगअसिलट्टिगाहि'चि—पुरस्तात् खड्गयष्टिग्राहः अथवा अण्यः—प्रधानः,  
 'अल्लचम्मं दुरुहति'चि आर्द्रं चम्मरोहति माङ्गल्यार्थमिति, 'माइयं'चि—क्रकारस्य स्वार्थिकत्वात्, 'माइ'चि—रुश्यादिवाल-  
 युक्तत्वात् पक्ष्मलानि तानि च तानि 'गोसुहीअ'चि—गोमुखवदुरःप्रच्छादकत्वेन कृतानि गोमुखितानि चेति कर्मधारय-  
 लतस्तैः फलकैः—सुरकैः, अत्रार्थे वाचनान्तरण्यधि सन्ति तानि च विमर्शनीयानीति, गमनिकेयेयं, निष्ठाभिः—कोशा-  
 द्रहिकृताभिरसियष्टिभिः असङ्गतैः—स्कन्धावस्थितैस्तूणैः—शरभस्त्रादिभिः सजीवैः—कोट्यारोपितप्रत्यब्देर्दुर्भः समुत्थितैः—

निसर्गार्थमाकृष्टैः शरधैः सकाशाच्छरैः-बाणैः 'ससुल्लासियाहिं'ति-ग्रहरणविशेषाः, 'ओसारियाहिं'ति-प्रलम्बीकृताभिः ऊरुषंटाभिः-जङ्घाचण्डाभिः 'छिप्पतूरेणं'ति-क्षिप्ततूरेण, दुतं वाद्यमानेन तूरेणेत्यर्थः, प्रतिनिःक्रामन्ति, इह बहुवचनं चौरव्यक्त्यपेक्षया अन्यथा चौरसेनापतिप्रक्रमादेकवचनमेव स्यादिति ।

तते णं से घणणे सत्थवाहे जेणेव सए गिहे तेणेव उवा० २, सुबहुं घणकणगं सुंसुमं च दारियं अव-हरियं जाणिता महत्थं ३, पाहुडं गहाय जेणेव णगरशुत्तिया तेणेव उवा० २, तं महत्थं पाहुडं जाव उवणेति २ एवं व०-एवं लल्लु देवा० ! चिलाए चोरसेणावती सीहशुहातो चोरपल्लीओ इहं हव्वमागम्म पंचहिं चोरसएहिं सद्धिं मम गिहं घाएत्ता सुबहुं घणकणगं सुंसुमं च दारियं गहाय जाव पडिगए, तं इच्छामो णं देवा० ! सुंसुमादारियाए कूवं गमित्तए, तुम्भे णं देवाणुप्पिया ! से विपुले घणकणगे ममं सुंसुमा दारिया, तते णं ते णयरशुत्तिया घणणास्स एयमडं पडिसुणेति २, सन्नद्ध जाव गहियाउहपहरणा महया २, उक्किट्ट० जाव ससुहरवभूर्यपिव करेमाणा रायगिहाओ गिगच्छंति २, जेणेव चिलाए चोरे तेणेव उवा० २, चिलाएणं चोरसेणावतिणा सद्धिं संपल्लगा याचि होत्था, तते णं णगरशुत्तिया चिलायं चोरसेणावतिं हयमहिया जाव पडिसेहेति, तते णं ते पंच चोरसया णगरगोत्तिएहिं हयमहिय जाव पडिसेहिया समाणा तं विपुलं घणकणगं विच्छेदुमाणा य विप्पकिरेमाणा य सव्वतो समंता विप्पलाइत्था, तते णं ते णयरशुत्तिया तं विपुलं घणकणगं गेण्हंति २ जेणेव रायगिहे तेणेव उवा०, तते ण से चिलाए तं चोरसेणं

तेहि णयरगुत्तिएहि हयमहिय जाव भीते तत्थे सुंसुमं दारियं गहाय एणं महं अगामियं दीहमद्धं अडविं  
 अणुपविट्ठे, तते णं घण्णे सत्थवाहे सुंसुमं दारियं चिलाएणं अडवीमुद्धिं अवहीरमार्णिं पासित्ताणं पंचविं  
 पुत्तेहिं सद्धिं अप्पच्छे सत्थद्धबद्धं चिलायस्स पदमग्गविहिं अभिगच्छति, अणुगज्जेमाणे हक्कारेमाणे  
 पुक्कारेमाणे अभितज्जेमाणे अभितासेमाणे पिट्ठओ अणुगच्छति, तते णं से चिलाए तं घण्णं सत्थवाहं  
 पंचविं पुत्तेहिं अप्पच्छं सत्थद्धबद्धं समणुगच्छमाणं पासति २, अत्थामे ४, जाहे णो संचाएति सुंसुमं  
 दारयं णिब्बवाहित्तए ताहे संते तंते परिसंते नीलुप्पलं असिं परासुसति २ सुंसुमाए दारियाए उत्तमंगं  
 छिंदति २ तं गहाय तं अगामियं अडविं अणुपविट्ठे, तते णं चिलाए तीसं अगामियाए अडवीए तण्हाते  
 अभिमृते समणे पम्हुट्ठदिसाभाए सीहगुहं चोरपल्लिं असंपत्ते अंतरा चेव कालगए । एवामेव समणा-  
 डसो ! जाव पव्वतिए समणे इमस्स ओरालियसीरस्स वंतासवस्स जाव चिद्धंसणधम्मरस वण्णहेउं  
 जाव आहारं आहारेति से णं इहलोए चेव बहूणं समणाणं ४, हीलणिल्ले जाव अणुपरियट्ठिस्सति जहा  
 व से चिलाए तक्करे । तते णं से घण्णे सत्थवाहे पंचविं पुत्तेहिं अप्पच्छे चिलायं परिधाडेमाणे २,  
 तण्हाए छुहाए य संते तंते परितंते नो संचाइए चिलातं चोरसेणावतिं साहत्थिं णिणित्तए, से णं तओ  
 पडिनियत्तइ २, जेणेव सा सुंसुमा दारिया चिलाएणं जीवियाओ ववरोविह्लिया तेणंतेणेव उवागच्छति २,  
 सुंसुमं दारियं चिलाएणं जीवियाओ ववरोविह्यं पासइ २, परसुनियंतेव चंपगपायवे, तते णं से घण्णे

सत्यमाहे अप्यच्छेदे आसत्थे क्लृप्तमाने क्लृप्तमाने विलक्षमाणे महया २, सद्देणं कुह २, सुपरुत्रे सुचिरं कालं  
 बल्यमोक्ष्यं करेति, तते णं से घणणे पंचहिं पुत्तेहिं अप्यच्छेदे चिलायं तीसे अगामियाए सञ्चवतो समंता  
 परिघाडेस्सणा तणहाए छुहाए य परिभं(रद्धं)ते समाणे तीसे आगाभियाए अडवीए सबतो समंता उद-  
 गस्स मग्गणयवेसणं करेति २, संते तंते परितंते णिञ्चिन्न तीसे आगाभियाए अडवीए उदगस्स मग्गण-  
 यवेसणं करेमाणे नो चेष णं उदगं आसादेति, तते णं उदगं अणासाएमाणं जेणव सुंसमा जीवियातो  
 बवरोएल्लिया तेणेव उवा० २, जेठं पुत्तं घणणे सद्देवेह २ एवं वयासी-एवं खलु पुत्ता ! सुंसुमाए दारियाए  
 अट्टाए चिलायं तक्करं सञ्चवतो समंता परिघाडेमाणा तणहाए छुहाए य अभिभूया समाणा इमीसे आगा-  
 भियाए अडवीए उदगस्स मग्गणयवेसणं करेमाणा णो चेष णं उदगं आसादेमो, तते णं उदगं अणा-  
 साएमाणा णो संचाएमो रायणिहं संपावित्तए, तणं तुभं ममं देवा० ! जीवियाओ ववरोवेह मंसं च  
 सोणियं च आहारेह २ तेणं आहारेणं अवहिट्टा समाणा ततो पच्छा इमं आगाभियं अडविं णित्थरि-  
 हिह रायणिहं च संपाधिहिह मित्तणाइय अभिसमागच्छिहिह अत्थस्स य धम्मस्स य पुण्णस्स य  
 आभागी भविस्सह, तते णं से जेठुपुत्ते घणणेणं एवं बुत्ते समाणे घणं सत्थवाहं एवं व०-तुभे णं ताओ !  
 अम्मं पिया गुरुज्जण्या देवयभूया ठावका पतिट्ठावका संरक्खाणा संगोवणा तं कहणं अम्हे तातो ! तुभे  
 जीविचाओ ववरोवेमो तुभं णं मंसं च सोणियं च आहारेमो ? तं तुभे णं तातो ! ममं जीवियाओ

बवरोवेह मंसं च सोणियं च आहारेह आगामियं अडविं णित्थरह तं चेव सन्वं भणइ जाव  
 अत्थस्स जाव पुणस्स आभागी भविस्सह, तते णं धणं सत्थं दोवे पुत्ते एवं व०-मा णं  
 ताओ ! अम्हे जेहं भायरं गुहं देवयं जीवियाओ ववरोवेमो तुब्भे णं ताओ ! मम जीवि-  
 याओ ववरोवेह जाव आभागी भविस्सह, एवं जाव पंचमे पुत्ते, तते णं से धणे सत्थवाहे  
 पंच पुत्ताणं हियइच्छियं जाणित्ता ते पंच पुत्ते एवं व०-मा णं अम्हे पुत्ता ! एगमवि जीवियाओ  
 ववरोवेमो एस णं सुंसुमाए दारियाए सरीरए णिप्पाणे जाव जीवियपज्जे तं सेयं बल्ल पुत्ता ! अम्हे  
 सुंसुमाए दारियाए मंसं च सोणियं च आहारेत्तए, तते णं अम्हे तेणं आहारेणं अवत्थद्धा समाणा राय-  
 गिहं संपाडणिस्सामो, तते णं ते पंच पुत्ता धणेणं सत्थवाहेणं एवं बुत्ता समाणा एयमट्ठं पडिसुणेति,  
 तते णं धणे सत्थं पंचहिं पुत्तेहिं सद्धिं अरणिं करोति २, सरगं च करोति २, सरएणं अरणिं महेति २,  
 अग्निं पाडेति २, अग्निं संभुक्खेति २, दाहयाति परिवक्खेवेति २, अग्निं पज्जालेति २, सुंसुमाए दारियाए  
 मंसं च सोणियं च आहारेति, तेणं आहारेणं अवत्थद्धा समाणा रायगिहं नयरिं संपत्ता भित्तणाहंअभि-  
 समण्णागया तस्स य विडलस्स धणकणगरयण जाव आभागी जायाविहोत्था, तते णं से धणे सत्थ-  
 वाहे सुंसुमाए दारियाए बहूहं लोहयाति जाव विगयसोए जाए यावि होत्था ॥ सूत्रम्-१४५ ॥ तेणं कालेणं  
 २, समणे भगवं महावीरे गुणसिलए चेइए समोसडे; से णं धणे सत्थवाहे संपत्ते धम्मं मोच्चा पन्वतिए

एकारसंगवी मासियाए संलेहणाए सोहंमे उववणो महाविदेहे वासे सिद्धिहिति, जहाविय णं जंबू !  
घण्णेणं सत्थवाहेणं णो वण्णेहेउं वा नो रूवहेउं वा णो बलहेउं वा नो विसयहेउं वा सुंमुमाए दारियाए  
मंससोणिए आहारिए नन्नत्थ एगाए रायगिहं संपावणट्टयाए, एवामेव समणाउसो ! जो अम्हं निग्गंथो  
वा २ इमस्स ओरालियसरीरस्स वंतासवस्स पित्तासवस्स सुक्कासवस्स सोणियासवस्स जाव अवस्सं  
विप्पज्जहियव्वस्स वा, नो वण्णेहेउं वा, नो रूवहेउं वा, नो बलं विसयहेउं वा, आहारं आहारेति नन्नत्थ  
एगाए सिद्धिगमणसंपावणट्टयाए; से णं इहभवे चेव बहूणं समणाणं २ बहूणं सावयाणं बहूणं साविगाणं  
अच्चणिज्जे जाव वीतीवतीस्सत्ति, एवं खलु जंबू ! समणेणं भगवया अट्टारसमस्स अयमेट्ठे पण्णत्ते त्तिबेमि  
॥ सूत्रम्-१४६ ॥ अट्टारसमं णायज्झयणं समत्तं ॥ १८ ॥

‘सूहयाहिं’ति-सूकीकृताभिर्निःशब्दीकृताभिरित्यर्थः, ‘उदगवत्थि’ति-जलमृतदृतिः जलाघारचर्ममयभाजन-  
मित्यर्थः, ‘जो णं णवियाए’त्यादि, यो हि नविकायाः-अप्रेतनभवभाविवन्याः मातुर्दुग्धं पातुकामः स निर्गच्छतु, यो  
सुसूरुरित्यर्थः, ‘आगामियं’ति अग्रामिकं ‘दीहमद्धं’ति दीर्घमार्गं, ‘पयमग्गविहिं’ति-पदमार्गप्रचारं, ‘पम्हुट्ट-  
दिसाम्माए’ति-विस्मृतदिग्भागः, ‘अंतरा चेव कालगए’ति-इह एतावदंशोपयोगीति आवश्यकादिप्रसिद्धं तदीयं  
शेषचरितं साधुदर्शनोपशमाद्युपदेशेन सम्यक्त्वपरिभावनवज्जुण्डकीटिकाभक्षणदेवलोकागमनलक्षणं नोक्तमिति न विरोधः  
सम्भावनीयः, उपनयग्रन्थः, पूर्ववत्; ‘वाहपामोक्खं’ति-श्रुविमोचनं; ‘पिया’इत्यादौ, पितोपचारतो लोकेऽ-



न्योऽपि रूढो, यदाह—“ जनेता चोपनेता च, यस्तु विद्यां प्रयच्छति । अन्नदाता मयत्राता, पञ्चते पितरः स्मृताः ॥ १ ॥ ” इति जनकग्रहणं स्थापकाः—गृहस्थधर्मे दारादिसङ्ग्रहणात् प्रतिष्ठापकाः—राजादिसमंशं स्वपदनिवेशनेन संरक्षकाः—  
 नानाव्यसनेभ्यः सङ्क्षोपकाः—यद्दृच्छाचारितायां संवरणात्, ‘ अरणिं ’ ति—अरणिरेयः उत्पादनार्थं निर्मथ्यते यद्द्वारं ‘ सरगं  
 करेद् ’ ति—शरको निर्मथ्यते तद्येनेति, ‘ नो वस्त्रहेतु ’ मित्यादि, अनेन च किमुक्तं भवति ?—‘ नन्नत्थ ’ ति एकस्याः सिद्धि-  
 गमनप्रापणार्थतया अन्यत्र नाहारमाहारयति, तां वर्जयित्वा कारणान्तरेण नाहारयतीत्यर्थः, तत्र सिद्धिगमनस्य—सिद्धि-  
 गतेर्यः प्रापणलक्षणोऽर्थः प्राप्तिरित्यर्थः तस्य भावस्तथा तस्या इति, इह चैवं विशेषोपनयः—“ जह सो चिलाहपुत्रो सुसुम-  
 गिद्धो अकञ्जपण्डिबद्धो । धणपारद्धो पत्तो महाडवि वसणसयकलियं ॥ १ ॥ तह जीवो विमयसुहे छुद्धो काऊण पावकिरियाओ ।  
 कम्मवसेणं पावह भवाडवीए महादुक्खं ॥ २ ॥ धणसेड्डीविव गुरुणो पुत्ता इव साहवो भवो अडवी । सुयमंभमिवाहारो रायगिहं  
 इह सिवं नेयं ॥ ३ ॥ जह अडविनयरनित्थरणपावणत्थं तएहिं सुयमंसं । भुत्तं तहेह साहू गुरुण आणाए आहारं ॥ ४ ॥  
 मवलंघणसिवापावणहेउं सुञ्जंति ण उण गेहीए । वण्णबलरूवहेउं च भावियप्पा महासत्ता ॥ ५ ॥ अज्झयणं सम्मत्तं ॥ १८ ॥

[ सा० यथा स चित्वात्पुत्रः सुसुमाशुद्धोऽकार्यप्रतिबद्धः धन्येन प्रारब्धः प्राप्तो महाटवी व्यसनशतकलिताम् ॥ १ ॥ तथा जीवो विपयसुखं लुब्धः  
 कृत्वा पापक्रियाः । कर्मवशेन प्राप्नोति भवाटव्यां महादुःखम् ॥ २ ॥ धनभ्रेष्टीव गुरवः पुत्रा इव साधवो भवोऽटवी । सुतासांसमिवाहारो राजगृहं इह  
 शिवं ज्ञेयम् ॥ ३ ॥ यथाऽटवीनिस्तरणनगरप्रापणार्थं तैः सुतासांसं । मुक्तं तथेह साधवो गुरुणमात्रयाऽऽहारं ॥ ४ ॥ भवलङ्घनशिवप्रापणहेतोर्भुञ्जन्ति न  
 पुनर्गृह्णन्ति । वर्णबलरूपहेतोश्च भावितात्मानो महासत्त्वाः ॥ ५ ॥ ] अष्टादश ज्ञातिविवरणं समाप्तम् ॥ १८ ॥

## १९-श्री पुण्डरीकाख्यं ज्ञाताध्ययनम् ।

अथैकौनविंशतितमं व्याख्यायते, अस्य च पूर्वेण सहायमभिमन्बन्धः—पूर्वत्रासंवृताश्रवस्येतरस्य चानर्थतरावुक्ताविह तु चिरं संवृताश्रवो भूत्वाऽपि यः पश्चादन्यथा स्यात्तस्य अल्पकालं संवृताश्रवस्य च तावुञ्चेते इत्येवंसम्बद्धमिदम्—

जति णं भंते समणेणं भग० भ० जाव संपत्तेणं अट्टारसमस्स नायञ्छयणस्स अयमट्टे पन्नत्ते एगुण-  
वीसइमस्स नायञ्छयणस्स के अट्टे पन्नत्ते १, एवं खल्ल जंबू ! समणेणं भगवया महावीरिणं तेणं कालेणं  
२ इहेव जंबूदीवे दीवे पुब्बविदेहे सीयाए महाणदीए उत्तरिह्ले कूले नीलवंतस्स दाहिणेणं उत्तरिह्लस्स  
सीतासुहवणसंडस्स पच्छिमेणं एगसेलगरस्स वक्खारपब्बयस्स पुरत्थिमेणं एत्थ णं पुक्खलावई णामं विजए  
पन्नत्ते, तत्थ णं पुंडरिगिणी णामं रायहाणी पन्नत्ता णवजोयणविच्छिण्णा दुवालसजोधनायामा जाव  
पब्वखं देवलोयभूया पासातीया ४ । तीसे णं पुंडरिगिणीए गयरीए उत्तरपुरच्छिमे दिसिभाए णलिणि-  
वणे णामं उज्जाणे, तत्थ णं पुंडरिगिणीए रायहाणीए महापउमे णामं राया होत्था, तस्स णं पउमावती  
णामं देवी होत्था, तस्स णं महापउमस्स रत्तो पुत्ता पउमावतीए देवीए अत्तया दुवे कुमारा होत्था, तं—  
पुंडरीए य कंडरीए य सुकुमालपाणिपाया०, पुंडरीए य जुवराया तेणं कालेणं २, थेरागमणं महापउमे  
एत्थ णिज्जाए यत्थं सोत्था पौंडरीयं रत्ते ठवेत्ता पब्बत्तिए, पौंडरीए राया जाए, कंडरीए जुवराया, महापउमे

अणगारं बोदसपुव्वाहं अहिज्जहं, तते णं थेरा बहिया जणवयविहारं विहरति, तते णं से महापउभे बहूणि  
 वासाणि जाव सिद्धे ॥ सुअम-१४७ ॥ तते णं थेरा अन्नया कयाहं पुणरवि पुंडरिगिणीए रायहाणीए णल्लिणवणे  
 उज्जाणे समोसदा, पुंडरीए राया णिग्गए, कंडरीए महाजणसहं सोच्चा जहा महब्बलो जाव पज्जुवासति,  
 थेरा धम्मं परिकहेंति, पुंडरीए समणोवासए जाए जाव पडिगते, तते णं कंडरीए उट्टाए उट्टेति उट्टाए उट्टेत्ता  
 जाव से जहेयं तुहभे वदह जं णवरं पुंडरीयं रायं आयुच्छामि तए णं जाव पव्वयामि, अहासुहं देवाणु-  
 प्पिया !, तए णं से कंडरीए जाव थेरे वंदइ नमंसइ०, अंतियाओ पडिनिक्खमइ तमेव चाउघंठं आसरहं  
 दुरुहति जाव पचोरुहइ जेगेव पुण्डरीए राया तेणेव उवागच्छति करयल जाव पुंडरीयं एवं वयासी-एवं  
 खलु देवा० ! मए थेराणं अंतिए जाव धम्मे निसंते से धम्मे अमिहइए तए णं देवा० ! जाव पव्वइत्तए, तए  
 णं से पुंडरीए कंडरीयं एवं वयासी-मा णं तुमं देवाणुप्पिया ! इदाणिं सुंड जाव पव्वयाहि अहं णं तुमं महया  
 २ रायाभिसेएणं अभिसिचयामि, तए णं से कंडरीए पुंडरीयस्स रण्णो एयमहुं णो आहाति जाव तुसिणीए  
 संचिद्धति, तते णं पुंडरीए राया कंडरीयं दोचंपि एवं व०-जाव तुसिणीए संचिद्धति, तते णं पुंडरीए  
 कंडरीयं कुमारं जाहे नो संचाएति बहूहिं आघवणाहिं पणवणाहि य ४, ताहे अकामए चेव एयमहुं अणु-  
 मन्निथा जाव णिक्खमणाभिसेएणं अभिसिचति जाव थेराणं सीसिक्खं दलयति, पव्वतिए अणगारं जाए  
 एकारसंगविजु, तते णं थेरा भगवंतो अन्नया कयाहं पुंडरीगिणीओ नयरीओ णल्लिणीवणाओ उज्जाणाओ

पङ्क्तिक्खमंति बहिया जणवयविहारं विहरति ॥ सूत्रम्-१४८ ॥ तते णं तस्स कंडरीयस्स अणगारस्स तेहिं  
अंतेहि य पंतेहि य जहा सेलगस्स जाव दाहवक्कंतीए यावि विहरति, तते णं थेरा अन्नया कयाई जेणेव  
पौंडरिणिणी तेणेव उवागच्छइ २ णल्लिणवणे समोसढा, पौंडरीए णिगए धम्मं सुणेति, तए णं पौंडरीए  
राया धम्मं सोच्चा जेणेव कंडरीए अणगारे तेणेव उवा० कंडरीयं वंदति णमंसति २, कंडरीयस्स अणगारस्स  
सरीरगं सन्वाबाहं सरोयं पासति २, जेणेव थेरा भगवंतो तेणेव उवा० २, थेरे भगवंते वंदति णमंसइ २  
त्ता एवं व०-अहण्णं भंते ! कंडरीयस्स अणगारस्स अहापवत्तेहिं ओसहभेसज्जेहिं जाव तेहच्छं आउट्टामि  
तं तुब्भे णं भंते ! मम जाणसालासु समोसरह, तते णं थेरा भगवंतो पुंडरीयस्स पडिसुणेंति २, जाव  
उवसंपज्जित्ताणं विहरंति, तते णं पुंडरीए राया जहा मंडुए सेलगस्स जाव बलियसरीरे जाए, तते णं थेरा  
भगवंतो पौंडरीयं रायं पुच्छंति २, बहिया जणवयविहारं विहरंति, तते णं से कंडरीए ताओ रोयायंकाओ  
विपमुक्के समणे तंसि मणुण्णंसि असणपाणखाहमसाहंसि सुच्छिए गिद्धे गडिए अब्भोववण्णे णो संचाएइ  
पौंडरीयं आपुच्छित्ता बहिया अब्भुज्जएणं जणवयविहारं विहरित्तए, तत्थेव ओसण्णे जाए, तते णं से  
पौंडरीए इमीसे कहाए लद्धे समणे णहाए अंतेउरपरियालसंपरिवुडे जेणेव कंडरीए अणगारे तेणेव उवा०  
२ कंडरियं तिकसुत्तो आयाहिणं पयाहिणं करेइ २ वंदति णमंसति २ एवं व०-धन्नेसि णं तुमं देवा० ! कयत्थे  
कयपुब्भे कयलक्खणे सुलद्धे णं देवा० ! तव माणुस्सए जम्मजीवियफले जे णं तुमं रज्जं च जाव अंतेउर

च छद्मइत्ता विगोवहत्ता जाव पव्वति १, अहं णं अहण्णे अक-युद्धे रज्जे जाव अंतउरं य माणुस्सएसु य  
 कामभोगेसु सुच्छिण्ण जाव अल्लोववत्ते नो संचाएमि जाव पव्वतित्तए, तं धक्खेऽसि णं तुमं देवा० ! जाव  
 जीवियफले, तते णं से कंडरीए अणगारे पुंडरीयस्स एयमट्टं णो आहाति जाव संच्छिद्धति, तते णं कंडरीए  
 पौडरीएणं दोच्चपि एवं बुत्ते समणे अकामए अवस्सवसे लज्जाए गारवेण य पौडरीयं रायं आपु-  
 क्कति २ थेरेहिं सद्धिं बहिया जणवयविहारं विहरति, तते णं से कंडरीए थेरेहिं सद्धिं किंचि कालं उग्गं-  
 उग्गेणं विहरति, ततो पच्छा समणत्तणपरितंते समणत्तणणिव्विण्णे समणत्तणणिव्विण्णे समणत्तणणसु-  
 क्कजोगी थेराणं अंतियाओ सणियं २, पच्चोसक्कति २, जेणेव पुंडरिगिणी गयरी जेणेव पुंडरीयस्स भवणे  
 तेणेव उवा० असोऽवणियाए असोगवरपायवस्स अहे पुढविसिलापट्टंगसि णिसीयति २, ओहयमण-  
 संकल्पे जाव क्षियायमाणे संच्छिद्धति, तते णं तस्स पौडरीयस्स अम्मघाती जेणेव असोगवणिया तेणेव  
 उवा० २, कंडरीयं अणगारं असोगवरपायवस्स अहे पुढविसिलावट्टयंसि ओहयमणसंकल्पं जाव क्षियाय-  
 माणं पासति २, जेणेव पौडरीए राया तेणेव उवा० २, पौडरीयं रायं एवं व०-एवं खल्ल देवा० ! तव पिउ-  
 माउए कंडरीए अणगारे असोगवणियाए असोगवरपायवस्स अहे पुढविसिलावट्टे ओहयमणसंकल्पे  
 जाव क्षियायति, तते णं पौडरीए अम्मघाइए एयमट्टं सोच्चा णिसम्म तेहेव संभंते समणे उट्टाए  
 उट्टेति २, अंतउरपरियालसंपरिवुडे जेणेव असोगवणिया जाव कंडरीयं तिकखुत्तो० एवं व०-धण्णेसि

णं तुभं देवा० ! जाव पव्वत्तिए, अहणं अधणणे ३ जाव पव्वहत्तए, तं घन्नेऽस्सि णं तुभं देवा० ! जाव  
 जीवियस्सत्थे, तत्ते णं कंडरीए पुंडरीएणं एवं बुत्ते समाणे तुसिणीए संचिट्ठति दोब्बंपि तच्चंपि जाव चिट्ठति,  
 तत्ते णं पुंडरीए कंडरीयं एवं व०-अट्ठो भंते ! भोगेहिं १, हंता ! अट्ठो, तत्ते णं से पौंडरीए राया दोट्टुवि-  
 यपुरिसे सदावेह २, एवं व०-खिप्पामेव भो देवा० ! कंडरीयस्स महत्थं जाव रायाभिंसंअं उवट्टवेह  
 जाव राग्गभिंसंएणं अभिसिंचति ॥ सूत्रम्-१४९ ॥ तत्ते णं पुंडरीए सयमेव पंचसुट्ठियं लोयं करेति सय-  
 मेव चाउज्जामं घम्मं पडिवज्जति २, कंडरीयस्स संतियं आयारभंडयं गेण्हति ३, इमं एयारूवं अभिग्गहं  
 अभिगिण्हइ-कप्पति मे थेरे वंदित्ता णमंसित्ता थेराणं अंतिए चाउज्जामं घम्मं उवसंपज्जित्ता णं ततो पच्छा  
 आहारं आहारित्तए त्तिकहु, इमं च एयारूवं अभिग्गहं अभिगिण्हत्ता णं पौंडरिगिणीए पडिनिक्खमति २  
 पुब्बायुपुडिं व करमाणे गामाणुगामं दूइज्जमाणे थेरा भगवंतो तेणेव पहारेत्थ गमणाए ॥ सूत्रम्-१५० ॥ तत्ते णं  
 तस्स कंडरीयस्स रणणे तं पणीयं पाणभोयणं आहारियस्स समाणस्स अतिजागरिएण य अइभोयणप्प-  
 संणेण य से आहारे णो सम्मं परिणमह, तत्ते णं तस्स कंडरीयस्स रणणे तंसि आहारंसि अपरिणममाणंसि  
 पुब्बत्तावस्तकालसमयंसि सरीरंसि वेयणा पाउब्भूया उज्जला विउला पगाढा जाव दुरहियासा पित्त-  
 ज्जरपरिणयसरीरे दाहक्कंतीए याचि विहरति । तत्ते णं से कंडरीए राया रज्जे य रट्टे य अंतंतरे य जाव  
 अज्जोववसे अट्टुट्टवसट्टे अकामते अवस्सवसे कालमासे कालं किच्चा अहे सत्तमाए पुहवीए उक्कोस-

कालद्विहयंसि नरयंसि नेरहयत्ताए उववणणे । एवामेव समणाउसो ! जाव पव्वतिए समाणे पुणारवि  
 माणुस्सए कामभोगे आसहए जाव अणुपरियद्विस्सति जहा व से कंडरीए राया ( सूत्रम्-१५१ ) तते णं मे  
 पौंडरीए अणगारे जेणेव थेरा भगवंतो तेणेव उवा० २, थेरे भगवंते वंदति नमंसति २ थेराणं अंतिए दोबंवि  
 चाउज्जामं धम्मं पडिबज्जति, छट्ठबमणपारणगंसि पढमाए पोरिसीए सज्झायं करोति २ जाव अडमाणे सीय-  
 लुक्खं पाणभोयणं पडिगाहेति २, अहापज्जत्तमि तिकहु पडिणियत्तति, जेणेव थेरा भगवंतो तेणेव उवा० २,  
 भत्तपाणं पडिदंसेति २, थेरेहिं भगवंतेहिं अब्भणुन्नाए समाणे असुच्छित्ते ४, बिलमिव पण्णगभूएणं अट्पाणेणं  
 तं फासूएसणिज्जं असण ४, सरीरकोट्टगंसि पक्खिवति, तते णं तस्स पुंडरीयस्स अणगारस्स तं कालाहंक्कंतं  
 अरसं विरसं सीयलुक्खं पाणभोयणं आहारियस्स समाणस्स पुव्वरत्तावरत्तकालसमयंसि धम्मजागरियं  
 जागरमाणस्स से आहारे णो सम्मं परिणमति, तते णं तस्स पुंडरीयस्स अणगारस्स सरीरगंसि वेयणा  
 पाउब्भूया उज्जला जाव दुरहियासा पित्तजरपरिगयसरीरे दाहवक्कतीए विहरति, तते णं से पुंडरीए अण-  
 गारे अत्थामे अबले अवीरिए अपुरिसक्कारपरक्कमे करयल जाव एवं व०-णमोस्त्यु णं अरिहंताणं जाव  
 संपत्ताणं णमोस्त्यु णं थेराणं भगवंताणं मम धम्मायरियाणं धम्मोवएसयाणं पुडिबपि य णं मए थेराणं  
 अंतिए सब्बे पाणातिवाए पच्चक्खाए जाव मिच्छादंसणसहे णं पच्चक्खाए जाव आलोइयपडिक्कते काल-  
 मासे कालं किच्चा सब्बद्विसिद्धे उववन्ने । ततो अणंतरं उव्वदित्ता महाविदेहे वासे सिञ्जिहिति जाव

नवाङ्गी-  
शु० वृ०  
भीष्मावा-  
धर्मकथाङ्गे  
॥ २५२ ॥

सञ्चदुक्खाणमंतं काहिति । एवामेव समणाउसो ! जाव पव्वतिए समाणे माणुस्सएहिं कामभोगेहिं णो सज्जति नो रज्जति जाव नो विप्पडिघायमावज्जति से णं इह भवे चेव बहूणं समणाणं बहूणं समणीणं बहूणं सावयाणं बहूणं साविगाणं अच्चणिज्जे वंदणिज्जे पूयणिज्जे सक्कारणिज्जे सम्माणणिज्जे कल्ल्याणं मंगलं देवयं चेइयं पञ्जुवासणिज्जे त्ति कहु परलोएऽविय णं णो आगच्छति बहूणि दंडणाणि य सुंडणाणि य तज्जणाणि य ताडणाणि य जाव चाउरंतं संसारकंतरं जाव वीतीवइस्सति जहा व से पौडरीए अणगारे । एवं खलु जंबू ! समणेणं भगवया महावीरेणं आदिगरेणं तित्थगरेणं जाव सिद्धिगइणामधेज्जं ठाणं संपत्तेणं एगूणवीसइमस्स नायज्झयणस्स अयमट्टे पन्नत्ते । एवं खलु जंबू ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव सिद्धिगइणामधेज्जं ठाणं संपत्तेणं गइणामधेज्जं ठाणं संपत्तेणं छट्टस्स अंगस्स पहमट्टे पणत्ते त्तिबेमि ॥ सूत्रम्-१५२ ॥ तस्स णं सुयक्खंधस्स एगूणवीसं अज्झयणाणि एकसरगाणि एगूणवीसाए दिवसेसु समप्पंति ॥ सूत्रम्-१५३ ॥ एगुणवीसं अज्झयणं सम्मत्तं ॥ पहमो सुयक्खंधो समत्तो ॥

सर्वं सुगमं, नवरं उपनयविशेषोऽयम्-“वाससहस्रं पि जई काळणं संजमं सुविउलं पि । अंते किलिट्ठभावो न विसुज्जइ कंडरीउव्व ॥१॥ तथा-अप्येणवि कालेणं केइ जहागहियसीलसामण्णा । सार्हिति निययकज्जं पुंडरीयमहारिसिब्व जहा ॥२॥” [वर्षसहस्रमपि यतिः कृत्वा संयमं सुविपुलमपि । अन्ते क्लिष्टभावा न विच्छुद्ध्यति कण्ठीक इव ॥१॥ अल्पेनापि कालेन केचित् यथागृहीतशीलसंयुक्ताः । साध्यन्ति निजकार्यं यथैव पुण्डरीकमहर्षिः ॥२॥] इत्येकोनविंशतितमं ज्ञातं विवरणतः प्रथमं श्रुतस्कन्धः समाप्तः ॥

१९ श्री  
पुण्डरी  
काण्ड्य  
ज्ञाताध्य  
अध्ययनो  
पसंहरणा  
दिवर्णन-  
सूत्रम् ।

॥ २५२ ॥



## २. श्रीज्ञाताधर्मकथाङ्गे-द्वितीयश्रुतस्कन्धविवरणम् ।



अथ द्वितीयो व्याख्यायते, अस्य च पूर्वेण सहायमभिसम्बन्धः-पूर्वत्रासोपालम्भादिभिर्ज्ञातिधर्मार्थं उपनीयते, इह तु स एव साक्षात्कथाभिरभिधीयते इत्येवंसम्बन्धोऽयम्—

तेणं कालेणं २ रायगिहे नामं नयरे होत्था, वण्णओ, तस्स णं रायगिहस्स बहिया उत्तरपुरच्छिमे विसिभाए तत्थ णं गुणसीलए णामं चेइए होत्था वण्णओ, तेणं कालेणं २ समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतेवासी अज्जसुहम्ममा णामं धेरा भगवंतो जातिसंपन्ना कुलसंपन्ना जाव चउइसपुब्बी चउगणणोवगया पंचहिं अणगारसएहिं सद्धिं संपरिवुडा पुब्बाणुपुब्बिच चरमाणा गामाणुगामं दुइज्जमाणा सुहंसुहेणं विहरमाणा जेणेव रायगिहे णयरे जेणेव गुणसीलए चेइए जाव संजमेणं तवसा अग्गाणं भावेमाणा विहरंति, परिसा निग्गया, धम्मो कहिओ, परिसा जामेव विसं पाउब्भूया तामेव विसिं पडिगया, तेणं कालेणं २ अज्जसुहम्मस्स अणगारस्स अंतेवासी अज्जजंबू णामं अणगारे जाव पज्जुवासमाणे एवं व०-जति णं भंते ! समणेणं जाव संपत्तेणं छट्ठस्स अंगस्स पढमसुयकबंधस्स णायसुयाणं अयमट्ठे पन्नत्ते दोच्चस्स णं भंते ! सुयकबंधस्स धम्मकहाणं समणेणं जाव संपत्तेणं के अट्ठे पन्नत्ते !, एवं खलु जंबू ! समणेणं जाव

संज्ञेणं धम्मकहाणं दस वग्गा पं०, तं०-चमरस्स अग्गमहिस्सीणं पढमे वग्गे १ बलिस्स  
बहोयणिंदस्स बइरोयणरत्तो अग्गमहिस्सीणं बीए वग्गे २ असुरिंदवज्जाणं दाहिणिल्लणं इंदवाणं अग्गमहि  
स्सीणं तइए वग्गे ३ उत्तरिल्लणं असुरिंदवज्जियाणं भवणवासिइंदवाणं अग्गमहिस्सीणं चउत्थे वग्गे ४  
दाहिणिल्लणं वाणमंतराणं इंदवाणं अग्गमहिस्सीणं पंचमे वग्गे ५ उत्तरिल्लणं वाणमंतराणं इंदवाणं अग्ग-  
महिस्सीणं छट्ठे वग्गे ६ चंदस्स अग्गमहिस्सीणं सत्तमे वग्गे ७ सूरस्स अग्गमहिस्सीणं अट्टमे वग्गे ८  
सक्खस्स अग्गमहिस्सीणं णवमे वग्गे ९ ईसाणस्स अग्गमहिस्सीणं दसमे वग्गे १० । जति णं भंते ! समणेणं  
जाव संपत्तेणं धम्मकहाणं दस वग्गा पं० पढमस्स णं भंते ! वग्गस्स समणेणं जाव संपत्तेणं के अट्ठे  
पक्कत्ते !, एवं खलु जंबू ! समणेणं जाव संपत्तेणं पढमस्स वग्गस्स पंच अज्झयणा पं० तं०-काली राई  
रयणी विज्जू मेहा, जइ णं भंते ! समणेणं जाव संपत्तेणं पढमस्स वग्गस्स पंच अज्झयणा पं० पढमस्स  
णं भंते ! अज्झयणस्स समणेणं जाव संपत्तेणं के अट्ठे पं० ?, एवं खलु जंबू ! तेणं कालेणं २ रायणिहे  
णयरे शुणसीलए चेइए सेणिए राया चेलणा देवी सामी समोसरिए परिसा णिग्गया जाव परिसा पज्जु-  
वासति, तेणं कालेणं २ काली नामं देवी चमरचंचाए रायहाणीए कालवडिंसगभवणे कालंसि सीहासणंसि  
चउहिं सामाणियसाहस्सीहिं चउहिं मयहरियाहिं सपरिवाराहिं तिहिं परिसाहिं सत्तहिं अणिएहिं  
सत्तहिं अणियाहिवतीहिं सोलसहिं आयरक्खदेवसाहस्सीहिं अण्णेहिं बहुएहि य कालवडिंसयभवण-

वासीहि असुरकुमारेहि देवीहि देवेहि य सद्धिं संपरिवुडा महयाहय जाव विहरइ, इमं च णं केवलकप्पं  
 जंबुद्वीवं २ विउलेणं ओहिणा आभोएमाणी २ पासइ, तत्थ समणं भगवं महावीरं जंबुद्वीवे २ भारहे  
 वासे रायणिहे नगरे गुणसिलए वेइए अहापडिरूवं उगगहं उगिण्हत्ता संजमेणं तवसा अत्पाणं भावे-  
 माणं पासति २ ता हट्टुट्टच्चित्तमाणंदिया पीतिमणा जाव हयहियया सीहासणाओ अञ्जुट्टेति २  
 पायपीढाओ पचोरुहति २ पाउया ओसुयति २ तित्थगराभिमुही सत्तट्ट पयाइं अणुगच्छति २ वामं जाणुं  
 अंबेति २ दाहिणं जाणुं धरणियलंसि निहइडु तिकखुत्तो सुद्धाणं धरणियलंसि निवेसेति २ ईसिं पञ्चुण-  
 मइ २ कळयतुडियंभियातो सुयातो साहरति २ करयल जाव कडु एवं व०-णमोञ्जु णं अरहंताणं जाव  
 संपत्तार्णं णमोञ्जु णं समणस्स भगवओ महावीरस्स जाव संपाविउकामस्स वंदाभि णं भगवंतं तत्थ-  
 गयं इह गए पासउ मे समणे भगवं महावीरे तत्थ गए इह गयंति कडु वंदति २ नमंसति २ सीहासण-  
 वरंसि पुत्थाभिमुहा निसण्णा, तते णं तीसे कालीए देवीए इमेयारूवे जाव समुप्पज्जित्था-सेयं खलु मे  
 समणं भगवं महावीरं वंदित्ता जाव पज्जुवासित्तए त्तिकडु एवं संपेहेति २ आभिओगिए देवे सदावेति २  
 एवं व०-एवं खलु देवा० ! समणे भगवं महावीरे एवं जहा सुरियाभो तहेव आणत्तियं देह जाव दिव्वं  
 सुरवराभिगमणजोगं करेह २ जाव पच्चप्पिण्ह, तेवि तहेव करेत्ता जाव पच्चप्पिणंति, णवरं जोयणसह-  
 स्सविच्छिण्णं जाणं सेसं तहेव तहेव णामगोयं साहेइ तहेव नट्टविहिं उवदंसेइ जाव पडिगया । भंतेत्ति

भगवं गोयमे समणं भगवं महावीरं वंदति णमंसति २ एवं व०-कालिए णं भंते ! देवीए सा दिव्वा देविड्डी ३ कहिं गया० कूडागारसालाविट्ठतो, अहो णं भंते ! काली देवी महिड्ढिया, कालिए णं भंते ! देवीए सा दिव्वा देविड्डी ३ किण्णा लद्धा किण्णा अभिसमणणागया !, एवं जहा स्वरियाभस्स जाव एवं खलु गोयमा ! तेणं कालेणं २ इहेव जंबुदीवे २ भारहे वासे आमलकप्पा णाम णयरी होत्था वण्णओ अंबसालवणे चेइए जियसत्तू राया, तत्थ णं आमलकप्पाए, नयरीए काले नामं गाहावती होत्था अहे जाव अपरिभूए, तस्स णं कालस्स गाहावहस्स कालसिरी णामं भारिया होत्था, सुकुमाल जाव सुलुवा, तस्स णं कालगस्स गाहावतिस्स धूया कालसिरीए भारियाए अत्तया काली णामं दारिया होत्था, वड्ढा वड्ढुकुमारी लुण्णा लुण्णकुमारी पडियपुयत्थणी णिव्विक्कवरा वरपरिवज्जियवि होत्था, तेणं कालेणं २ पासे अरहा पुरिसादाणीए आइगरे जहा वद्धमाणसामी णवरं णवहत्युस्सेहे सोलसहिं समणसाहस्सीहिं अट्टत्तीसाए अज्जियासाहस्सीहिं सद्धिं संपरिवुडे जाव अंबसालवणे समोसठे परिसा णि० जाव पज्जुवासति, तते णं सा काली दारिया इमीसे कहाए लद्धा समाणी हट्ट जाव हियया जेणेव अम्मपियरो तेणेव उवा० २ करयल जाव एवं व०-एवं खलु अम्मयाओ ! पांमे अरहा पुरिसादाणीए आइगरे जाव विहरति, तं हच्छामि णं अम्मयाओ ! तुंभेहिं अंबणुत्ताया समाणी पासस्स अरहओ पुरिसादाणीयस्स पायवंदिया गमित्तए, अहासुहं देवा० ! मा पडिबंधं करेहि, तते णं

सा कालिया दारिया अम्मापिईहि अ०भणुवाया समाणी हड्ड जाव हियया णहाया कयबलिकम्मा कय-  
कोउयमंगलपायच्छिता सुद्धप्पवेसाइं मंगछातिं वत्थतिं पवर परिहिया अप्पमहग्घाभरणालंक्रियसरीरा  
वेडियाबक्कवालपरिकिणा सातो गिहातो पड्डिणिकलमति २ जेणेव बाहिरिया उवट्टाणसाला जेणेव  
धम्मिए जाणप्पवरे तेणेव उवा० २ धम्मियं जाणपवरं दुरुढा, तते णं सा काली दारिया धम्मियं जाण-  
पवरं एवं जहा बोवती जाव पज्जुवासति, तते णं पासे अरहा पुरिसादाणीए कालीए दारियाए तीसे य  
महतिमहालयाए परिसाए धम्मं कहेइ, तते णं सा काली दारिया पासस्स अरहओ पुरिसादाणीयस्स  
अंतिए धम्मं सोढा णिसम्म हड्ड जाव हियया पासं अरहं पुरिसादाणीयं तिकवुत्तो वंदति नमंसति  
२ एवं व०-सइहामि णं भंते ! णिगंथं पावयणं जाव से जहेयं तुब्भे वयह, जं णवरं देवा० !  
अम्मापियरो आपुच्छामि, तते णं अहं देवाणुप्पियाणं अंतिए जाव पव्वयामि, अहासुहं देवा० !, तते णं  
सा काली दारिया पासणं अरहया पुरिसादाणीएणं एवं बुत्ता समाणी हड्ड जाव हियया पासं अरहं वंदति  
२ तमेव धम्मियं जाणप्पवरं दुरुहति २ पासस्स अरहओ पुरिसादाणीयस्स अंतियातो अंबसालवणाओ  
वेइयाओ पड्डिणिकलमति २ जेणेव आमलकप्पा नयरी तेणेव उवा० २ आमलकप्पं णयरिं मज्झमज्झेणं  
जेणेव बाहिरिया उवट्टाणसाला तेणेव उवा० २ धम्मियं जाणपवरं ठवेति २ धम्मियाओ जाणप्पवराओ  
पवोरुहति २ जेणेव अम्मापियरा तेणेव उवा० २ करयल एवं व०-एवं खल्ल अम्मयाओ ! मए पासस्स

अरहतो अंति ए धम्मे णिसंते सेऽविद्य धम्मे इच्छिए पडिच्छिए अभिरुहति ए, तए णं अहं अम्मयाओ ! संसारभउच्चिग्गा भीया जम्मणमरणाणं इच्छामि णं तुम्भेहिं अब्भणुत्ताया समाणी पासस्स अरहतो अंति ए मुंडा भविता आगारातो अणगारियं पव्वतित्तए, अहासुहं देवा० ! मा पडिबंधं क०, तते णं से काले गाहावई विपुलं असणं ४ उवक्खडावेति २ मित्तणाइणियगसयणसंबंधिपरियणं आमंतेति २ ततो पच्छा पहाए जाव विपुलेणं पुफ्फवत्थंगंधमल्लालंकारेणं सक्कारेत्ता सम्माणेत्ता तस्सेव मित्तणातिणियगसयणसंबंधिपरियणस्स पुरतो कालियं दारियं सेयापीएहिं कलसेहिं पहावेति २ सव्वालंकारविभ्रसियं करेति २ पुरिससहस्सवाहिणीयं सीयं दुरुहेति २ मित्तणाइणियगसयण-संबंधिपरियणेणं सद्धिं संपरिवुडा सच्चिद्वृष्टीए जाव रवेणं आमलकप्यं नयरिं सज्झंमज्झेणं णिग्गच्छति २ जेणेव अंबसालवणे चेइए तेणेव उवा० २ छत्ताइए तित्थगराइसए पासति २ सीयं ठवेइ २ कालियं दारियं अम्ममापियरो पुरओ काउं जेणेव पासे अरहा पुरिसा० तेणेव उवा० २ वंदइ नमंसइ २ ता एवं व०-एवं खल्ल देवा० ! काली दारिया अमहं धूया इट्ठा कंता जाव किमंग पुण पासणयाए ?, एस णं देवा० ! संसारभउच्चिग्गा इच्छइ देवाणुप्पियाणं अंति ए मुंडा भवित्ताणं जाव पव्वइत्तए, तं एयं णं देवाणुप्पियाणं सिस्सिणिभिकखं दलयामो पडिच्छंतु णं देवाणुप्पिया ! सिस्सिणिभिकखं, अहासुहं

१ ० इ २ कालियं दारियं सीयातो पक्कोरुहति २ ततेणं कालियं अ ।

देवाणुष्पिया ! मा पडिबंधं, तते णं काली कुमारी पासं अरहं वंदति २ उत्तरपुरच्छिमं दिसिभागं अवक्क-  
 मति २ सयमेव आभरणमल्लालंकारं ओसुयति २ सयमेव लोयं करेति २ जेणेव पासे अरहा पुरिसादाणीए  
 तेणेव उवा० २ पासं अरहं तिकखुत्तो वंदति २ एवं व०-आलिस्ते णं भंते ! लोए एवं जहा देवाणंदा  
 जाव सयमेव पव्वाविडं, तते णं पासे अरहा पुरिसादाणीए कालिं सयमेव पुष्फचूलाए अज्जाए सिस्सिणि-  
 यत्ताए दलयति, तते णं सा पुष्फचूला अज्जा कालिं कुमारिं सयमेव पव्वावेति, जाव उवसंपल्लित्ताणं  
 विहरति, तते णं सा काली अज्जा जाया ईरियासमिया जाव गुत्तबंधयारिणी, तते णं सा काली अज्जा  
 पुष्फचूलाअज्जाए अंतिए सामाहयमाहयति एक्कारस अंगाहं अहिज्जइ बहूहिं चउत्थ जाव विहरति, तते  
 णं सा काली अज्जा अन्नया कयतिं सरीरबाउसिया जाया यावि होत्था, अभिक्खणं २ हत्थे धोवइ पाए  
 धोवइ सीसं धोवइ इहं धोवइ थणंतराहं धोवइ कक्खंतराणि धोवति गुड्ढंनराहं धोवइ जत्थ २ विय णं  
 ठाणं वा सेज्जं वा णिसीहियं वा चेत्तेइ तं पुव्वामेव अञ्जुक्खेत्ता ततो पच्छा आसयति वा सयइ वा, तते  
 णं सा पुष्फचूला अज्जा कालिं अज्जं एवं व०-नो खल्ल कप्पति देवा० ! समणीणं णिगंगीणं सरीरबाउ-  
 सियाणं होत्तए तुमं च णं देवाणुष्पिया ! सरीरबाउसिया जाया अभिक्खणं २ हत्थं धोवसि जाव  
 आसयाहि वा सयाहि वा तं तुमं देवाणुष्पिए ! एयस्स ठाणस्स आलोएहि जाव पायच्छित्तं पडिवज्जाहि,  
 तते णं सा काली अज्जा पुष्फचूलाए अज्जाए एयमड्डं नो आढाति जाव तुमिणीया संचिद्वति,

तते णं ताओ पुष्फचूलाओ अज्जाओ कालिं अज्जं अभिक्खणं २ हीलेंति णिंदंति खिसंति गरिहंति  
अवमणंति अभिक्खणं २ एयमहं निवारेंति, तते णं तीसे कालीए अज्जाए समणीहिं णिग्गंथीहिं  
अभिक्खणं २ हील्लिज्जमाणीए जाव वारिज्जमाणीए इमेयरूवे अब्भत्थिए जाव समुप्पज्जित्थाजया णं  
अहं आगारवासं मज्जे वसित्था तथा णं अहं संयवसा जप्पिभिइं च णं अहं सुंढे भवित्ता आगाराओ  
अणगारियं पव्वतिया तप्पिभिइं च णं अहं परवसा जाया, तं सेयं खलु मम कल्लं पाउप्पभायाए रयणीए  
जाव जलंते पाडिक्खियं उवस्सयं उवसंपज्जित्ता णं विहरित्तए त्ति कट्ठु एवं संपेहेति २ कल्लं जाव जलंते पाडि-  
एकं उवस्सयं णिणहति, तत्थ णं अणिवारिया अणोहट्टिया सच्छंदमती अभिक्खणं २ हत्थे घोवेति जाव  
आसयह वा सयह वा, तए णं सा काली अज्जा पासत्था पासत्थविहारी ओसण्णा ओसण्णाविहारी  
कुसीला २ अहाछंदा २ संसत्ता २ बहूणि वासाणि सामन्नपरियागं पाउणह २ अद्धमासियाए संछेहणाए  
अत्ताणं द्यूसेति २ तीसं भत्ताइं अणसणाए छेएइ २ तस्स ठाणस्स अणालोइय अपडिक्कंता कालमासे कालं  
किच्चा चमरचंचाए रायहाणीए कालवडिंसए भवणे उववायसभाए देवसयणिज्जंसि देवदूसंतरिया अंगुलस्स  
असंत्वेज्जाइभागमेत्ताए ओगाहणाए कालीदेवीत्ताए उववण्णा, तते णं सा काली देवी अहुणोववण्णा  
समाणी पंचविहाए पज्जत्तीए जहा सुरियाभो जाव भासामणपज्जत्तीए, तते णं सा काली देवी चउण्हं  
सामाणियसाहस्सीणं जाव अणोसिं च बहूणं कालवडेंसगभवणवासीणं असुरकुमाराणं देवाण य देवीण य



आहेवचं जाव चिहरति, एवं खल्लु गो० ! कालीए देवीए सा दिव्वा देविङ्की ३ लद्धा पत्ता अभिसमण्णागया, कालीए णं भंते ! देवीए केवत्तियं कालं ठित्ती पन्नत्ता १, गो० ! अट्टाहज्जाइं पलिओवमाहं ठिई पन्नत्ता, काली णं भंते ! देवी ताओ देवलोगाओ अणंतं उववड्डित्ता कहिं गच्छिहिति कहं उववज्जिहिति १, गो० ! महाविदेहे वासे सिञ्जिहिति, एवं खल्लु जंबू ! समणेणं जाव संपत्तेणं पढमवग्गस्स पढमज्झयणस्स अयमट्ठे पण्णत्ते त्ति बेमि । धम्मकहाणं पढमज्झयणं समत्तं ॥ सूत्रम्-१५४ ॥

सर्वः सुगमः, नवरं 'क्रिण्णा लद्ध'त्ति प्राकृतत्वात् केन हेतुना लब्धा-भवान्तरे उपाजिता प्राप्ता-देवभवे उपनीता अभिसमन्वागता-परिमोगतः उपयोगं प्राप्तेति, 'वड्डु'त्ति बृहती वयसा सैव बृहन्वादपरिणीतत्वाच्च बृहत्कुमारी जीर्णा शरीर-ज्रणाद्बुदेत्यर्थः सैव जीर्णत्वापरिणत्वाभ्यां जीर्णकुमारी जीर्णशरीरत्वादेव पतितपुतस्तनी-अवनतिगतनितम्बदेशवक्षोजा निर्विण्णाश्च वराः-परिणेतारो यस्याः सा निर्विण्णवरा अत एव वरपरिवर्जितेति शेषं सूत्रसिद्धम् ॥

जति णं भंते ! समणेणं जाव संपत्तेणं धम्मकहाणं पढमस्स वग्गस्स पढमज्झयणस्स अयमट्ठे प० चित्तियस्स णं भंते ! अज्झयणस्स समणेणं भगवया महावीरेणं जाव संपत्तेणं के० अट्ठे पण्णत्ते १, एवं खल्लु जंबू ! तेणं कालेणं २ रायगिहे नगरे गुणसीलए चेइए सामी समोसढे परिसा णिगगया जाव पज्जु-वासत्ति, तेणं कालेणं २ राई देवी चमरचंचाए रायहाणीए एवं जहा काली तहेव आगया णट्टविहिं उववंसेत्ता पड्डिगया, भंतेत्ति भगवं गो० ! पुबभवपुच्छा, एवं खल्लु गो० ! तेणं कालेणं २ आमलकप्पा

णयरी अंबसालवणे चेइए जियसत्तू राया राई गाहावती राईसिरी भारिया राई दारिया पासस्स समो-  
सरणं राई दारिया जहेव काली तहेव निकलंता तहेव सरीरबाउसिया तं चेव सळवं जाव अंतं काहिति ।  
एवं खल्लु जंबू ! बिइयज्झयणस्स निकखेवओ २ । जति णं भंते ! तइयज्झयणस्स उक्खेवतो, एवं खल्लु  
जंबू ! रायगिहे णयरे गुणसिलए चेइए एवं जहेव राती तहेव रयणीवि, णवरं आमलकप्पा नयरी रयणी  
गाहावती रयणसिरी भारिया रयणी दारिया सेसं तहेव जाव अंतं काहिति ३ । एवं विज्जूवि आमल-  
कप्पा नयरी विज्जुगाहावती विज्जुसिरिभारिया विज्जुदारिया सेसं तहेव ४ । एवं मेहावि आमलकप्पाए  
नयरीए मेहे गाहावती मेहसिरि भारिया मेहा दारिया सेसं तहेव ५ । एवं खल्लु जंबू समणेणं जाव संप-  
त्तेणं धम्मकहाणं पढमस्स वग्गस्स अयमट्ठे पणत्ते ॥ सूत्रम्-१५५ ॥ जति णं भंते ! समणेणं जाव संपत्तेणं  
दोच्चस्स वग्गस्स उक्खेवओ, एवं खल्लु जंबू ! समणेणं जाव संपत्तेणं दोच्चस्स वग्गस्स पंच अज्झयणा पं०,  
तं०-सुंभा निंसुंभा रंभा निरंभा मदणा, जति णं भंते ! समणेणं जाव संपत्तेणं धम्मकहाणं दोच्चस्स  
वग्गस्स पंच अज्झयणा पं०, दोच्चस्स णं भंते ! वग्गस्स पढमज्झयणस्स के० अट्ठे पं० ? एवं खल्लु जंबू !  
तेणं कालेणं २ रायगिहे णयरे गुणसीलए चेइए सामी समोसढो परिसा णिग्गया जाव पज्जुवासति, तेणं  
कालेणं २ सुंभा देवी बलिचंचाए रायहाणीए सुंभवडंसए भवणे सुंभंसि सीहासणंसि कालीगमएणं जाव  
णट्ठविहिं उचवंसेत्ता जाव पडिगया, पुव्वभवपुच्छा, सावत्थी णयरी कोट्टए चेइए जियसत्तू राया सुंभे

गाहावती सुंभसिरी भारिया सुंभा वारिया सेसं जहा कालिया णवरं अद्धुद्धातिं पलिओवमाहं ठिती,  
 एवं खलु जंबू ! निक्खेवओ अज्झयणस्स एवं सेसावि चत्तारि अज्झयणा, सावत्थीए नवरं माया पिया  
 सरिसनामया, एवं खलु जंबू ! निक्खेवओ वितीयवग्गस्स २ ॥सूत्रम्-१५६॥ उक्खेवओ तइयवग्गस्स एवं  
 खलु जंबू ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव संपत्तेणं तइयस्स वग्गस्स चउपणं अज्झयणा पन्नत्ता,  
 तं०-पहमे अज्झयणे जाव चउपणत्तिमे अज्झयणे, जत्ति णं भंते ! समणेणं जाव संपत्तेणं धम्मकहाणं  
 तइयस्स वग्गस्स चउपपन्नज्झयणा पं० पहमस्स णं भंते ! अज्झयणस्स समणेणं जाव संपत्तेणं के अहे  
 पणत्ते १, एवं खलु जंबू ! तेणं कालेणं २ रायणिहे णयरे गुणसीलए चेइए सामी समोसहे परिसा णिग्गया  
 जाव पज्जुवासत्ति, तेणं कालेणं २ इला देवी घरणीए रायहाणीए इलावडंसए भवणे इलंसि सीहासणंसि  
 एवं कालीणमएणं जाव णट्ठविहिं उवदंसत्ता पडिगया, पुब्बभवपुच्छा, वाणारसीए णयरे काममहावणे  
 चेइए इले गाहावती इलसिरी भारिया इला वारिया सेसं जहा कालीए णवरं धरणस्स अग्गमहिसित्ताए  
 उववाओ सातिरणअद्धपलिओवमठिती सेसं तहेव, एवं खलु निक्खेवओ पहमज्झयणस्स, एवं कमा सतेरा  
 सोयामणी इंदा घणा विज्जुयावि, सब्बाओ एयाओ धरणस्स अग्गमहिसीओ एव, एते छ अज्झयणा वेणु-  
 देवस्सवि अविसेसिया भाणियन्वा एवं जाव घोसस्सवि एए चेव छ अज्झयणा, एवमेते दाहिणिच्छाणं इंदाणं  
 चउपपणं अज्झयणा भवंति, सब्बाओवि वाणारसीए काममहावणे चेइए तइयवग्गस्स णिक्खेवओ ॥सूत्रम्-

नवाङ्गी-  
३० वृ०  
भीष्माता-  
धर्मकथाङ्गे

॥ २५८ ॥

१५७ ॥ चउत्थस्स उक्खेवओ, एवं खलु जंबू ! समणेणं जाव संपत्तेणं धम्मकहाणं चउत्थवग्गस्स चउ-  
त्पण्णं अज्झयणा पं०, तं०-पढमे अज्झयणे जाव चउत्पण्णहेमे अज्झयणे, पढमस्स अज्झयणस्स उक्खे-  
वओ गो० ! एवं खलु जंबू ! तेणं कालेणं २ रायणिहे समोसरणं जाव परिसा पज्जुवासति, तेणं कालेणं २  
रूया देवी रूयाणंदा रायहाणी रूयगवडिंसए भवणे रूयगंसि सीहासणंसि जहा कालीए तहा नवरं पुब्ब-  
भवे चंपाए पुण्णभहे चेतिए रूयगगाहावई रूयगसिरी भारिया रूया दारिया सेसं तहेव, णवरं भूयाणंद-  
अग्गमहिसित्ताए उववाओ देसुणं पलिओवमं ठिई णिकखेवओ, एवं खलु सुरूयावि रूयंसावि रूयगावतीवि  
रूयकंतावि रूयणभावि, एयाओ चैव उत्तरिच्छाणं इंदाणं भाणियव्वाओ जाव महाघोसस्स, णिकखेवओ  
चउत्थवग्गस्स ॥ सूत्रम्-१५८ ॥ पंचमवग्गस्स उक्खेवओ, एवं खलु जंबू ! जाव वत्तीसं अज्झयणा पं०,  
तं-कमला कमलप्पभा चैव, उत्पला य सुदंसणा । रूववती बहुरूवा, सुरूवा सुभगाविय ॥ १ ॥ पुण्णा  
बहुपुत्तिया चैव, उत्तमा भारियाविय । पउमा वसुमती चैव, कणगा कणग्गप्पभा ॥ २ ॥ बडेसा केउमती  
चैव, वइरसेणा रयिप्पिया । रोहिणी नमिया चैव, हिरी पुप्फवतीतिय ॥ ३ ॥ सुयगा सुयगवती चैव,  
महाकच्छाऽपराइया । सुघोसा विमला चैव, सुस्सरा य सरस्सती ॥ ४ ॥ उक्खेवओ पढमज्झयणस्स,  
एवं खलु जंबू ! तेणं कालेणं २ रायणिहे समोसरणं जाव परिसा पज्जुवासति, तेणं कालेणं २ कमला देवी  
कमलाए रायहाणीए कमलवडेसए भवणे कमलंसि सीहासणंसि सेसं जहा कालीए तहेव णवरं पुब्बभवे

२. द्वितीय-

श्रु०

चतुर्थ-

वर्गीय-

अध्ययना-

दिसन्नम् ।

॥ २५८ ॥

नागपुरे नयरे सहसंबवणे उज्जाने कमलस्स गाहावत्तिस कमलसिरीए भारियाए कमला दारिया पासस्स०  
 अंतिए निकखंता कालस्स पिसायकुमारिंदस्स अगगमहिंसी अद्धपलिओवमं ठिती, एवं सेसावि अज्झ-  
 यणा दाहिणिह्छाणं बाणमंतरीदाणं, भाणियब्बाओ सब्बाओ णागपुरे सहसंबवणे उज्जाने माया पिया  
 धूया सरिसनामया, ठिती अद्धपलिओवमं । पंचमो वग्गो समत्तो ॥ सूत्रम्-१५९ ॥ छट्ठोवि वग्गो पंचम-  
 वग्गसरिसो, णवरं महाकालिंदाणं उत्तरिह्छाणं इंदाणं अगगमहिंसीओ पुब्बभवे सागेयनयरे उत्तरकुह-  
 उज्जाने माया पिया धूया सरिसणामया सेसं तं चेव । छट्ठो वग्गो समत्तो ॥ सूत्रम्-१६० ॥ सत्तमस्स  
 वग्गस्स उक्खेवओ, एवं खल्ल जंबू ! जाव चत्तारि अज्झयणा पं०, तं०-सूरप्पभा आयवा अब्बिमाली  
 पभंकरा, पढमज्झयणस्स उक्खेवओ, एवं खल्ल जंबू ! तेणं कालेणं २ रायगिहे समोसरणं जाव परिसा  
 पज्जुवासह, तेणं कालेणं २ सूरप्पभा देवी सूरंसि विमाणंसि सूरप्पभंसि सीहासणंसि सेसं जहा कालीए  
 तथा णवरं पुब्बभवो अरक्खुरीए नयरीए सूरप्पभस्स गाहावहस्स सूरसिरीए भारियाए सूरप्पभा दारिया  
 सूरस्स अगगमहिंसी ठिती अद्धपलिओवमं पंचहिं वाससएहिं अब्बहिंयं सेसं जहा कालीए, एवं सेसा-  
 ओवि सब्बाओ अरक्खुरीए णयरीए । सत्तमो वग्गो समत्तो ॥ सूत्रम्-१६१ ॥ अट्ठमस्स उक्खेवओ, एवं  
 खल्ल जंबू ! जाव चत्तारि अज्झयणा पं०, तं०-चंदप्पभा दोसिणाभा अब्बिमाली पभंकरा, पढमस्स  
 अज्झयणस्स उक्खेवओ, एवं खल्ल जंबू ! तेणं कालेणं २ रायगिहे समोसरणं जाव परिसा पज्जुवासति,

तेणं कालेणं २ चंदप्पभा देवी चंदप्पभंसि विमाणंसि चंदप्पभंसि सीहासणंसि सेसं जहा कालीए,  
णवरं पुब्बभवे महुराए णयरीए भंडिवडेंसए उज्जाणे चंदप्पभे गाहावती चंदसिरी भारिया  
चंदप्पभा दारिया चंदस्स अग्गमहिंसी ठिती अद्धपलिओवमं पणणासाए वाससहस्सेहिं अब्भहियं सेसं  
जहा कालीए, एवं सेसाओवि महुराए णयरीए मायापियरोवि धूयासरिसणामा, अट्टमो वग्गो समत्तो ।  
॥ सूत्रम्-१६२ ॥ णवमस्स उक्खेवओ, एवं खलु जंबू ! जाव अट्ट अज्झयणा पं०, तं०-पउमा सिवा सती  
अंजू रोहिणी णवमिया अचला अच्छरा, पढमज्झयणस्स उक्खेवओ, एवं खलु जंबू ! तेणं कालेणं रायगिहे  
समोसरणं जाव परिसा पज्जुवासह, तेणं कालेणं २ पउमावई देवी सोहम्मे कप्पे पउमवडेंसए विमाणे  
सभाए सुहम्माए पउमंसि सीहासणंसि जहा कालीए एवं अट्टवि अज्झयणा कालीगमणं नायब्बा,  
णवरं सावत्थीए दो जणीओ हत्थिणाउरे दो जणीओ कंपिल्लपुरे दो जणीओ सागेयनयरे दो जणीओ  
पउमे पियरो विजया मायराओ सव्वाओऽवि पासस्स अंतिए पव्वतियाओ सक्कस्स अग्गमहिंसीओ ठिई  
सत्त पालिओवमाहं महाविदेहे वासे अंतं काहिति । णवमो वग्गो समत्तो ॥ सूत्रम् १६३ ॥ दसमस्स  
उक्खेवओ, एवं खलु जंबू ! जाव अट्ट अज्झयणा पं०, तं०-कणहा य कणहराती रामा तह रामरक्खिया  
वसू या । वसुगुत्ता वसुमित्ता वसुंधरा चेव ईसाणे ॥ १ ॥ पढमज्झयणस्स उक्खेवओ, एवं खलु जंबू !  
तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे समोसरणं जाव परिसा पज्जुवासति, तेणं कालेणं २ कणहा देवी

ईसाणे कल्पे कण्हवहेंसए चिमाणे सभाए सुहम्माए कण्हंसि सीहासणंसि सेसं जहा कालीए एवं अट्टवि  
अज्झयणा कालीगमएणं णेयब्बा, णवरं पुब्बभवे वाणारसीए नयरीए दो जणीओ रायणिहे नयरे दो  
जणीओ सावत्थीए नयरीए दो जणीओ कोसंबीए नयरीए दो जणीओ रामे पिया धम्मा माया सब्वाओऽवि  
पासस्स अरहओ अंतिए पब्बइयाओ पुक्कचूलाए अज्जाए सिस्सिणीयत्ताए ईसाणस्स अगमहिंसीओ ठिती  
णव पलिओवमाइं महाविदेहे बासे सिज्झिंहिति बुज्झिंहिति सुच्चिंहिति सब्बदुक्खाणं अंतं कांहिति । एवं  
खलु जंबू ! णिवखेवओ दसमवग्गस्स । दसमो वग्गो समत्तो ॥ सूत्रम् १६४ ॥ एवं खलु जंबू ! समणेणं  
भगवया महाधीरेणं आदिगरेणं नित्थगरेणं सयंसंबुद्धेणं पुरिसोत्तमेणं जाव संपत्तेणं० । धम्मकहा सुयक्खंधो  
समत्तो दसहिं वग्गेहिं नायाधम्मकहाओ समत्ताओ ॥ सूत्रम्-१६५ ॥ समाप्तोऽयं द्वितीयः श्रुतस्कन्धः ॥


नमः श्रीवर्द्धमानाय, श्रीपार्श्वप्रभवे नमः । नमः श्रीमत्सरस्वत्यै, सहायेभ्यो नमो नमः ॥ १ ॥ इह हि गमनिकार्यं  
यन्मया व्यूहयोक्तं, किमपि समयहीनं तद्विशोध्यं सुधीभिः । नहि भवति विधेया सर्वथाऽस्मिन्बुपेक्षा, दयितजिनमतानां  
तायिनां चाङ्गिर्वर्गे ॥२॥ परेषां दुर्लक्षा भवति हि विपक्षाः स्फुटमिदं, विशेषाद् बृद्धानामतुलवचनज्ञानमहसाम् । निराज्ञायाधीभिः  
पुनरतिवरां माहश्चजनैस्ततः श्लाघार्थं मे वचनमनघं दुर्लभमिह ॥३॥ ततः सिद्धान्ततत्त्वज्ञैः, स्वयमूढाः प्रयत्नः । न पुनरस्म-  
दाख्यात, एव ग्राह्यो नियोगतः ॥४॥ तथापि माऽस्तु मे पापं, सङ्घमत्युपजीवनात् । बृद्धन्यायानुसारित्वाद्विदितार्थं च प्रवृत्तितः  
॥ ५ ॥ तथाहि-किमपि स्फुटीकृतमिह स्फुटेऽप्यर्थतः, सकष्टमतिदेशतो ध्रुविधवाचनातोऽपि यत् । समर्थपदसंश्रयाद्दिगुण-

नवाङ्गी-  
दृ० दृ०  
श्रीज्ञाता-  
धर्मकथात्रे

॥ २६० ॥

पुस्तक्रेभ्योऽपि यत्, परात्महितहेतवेऽनभिनिवेशिना चेतसा ॥ ६ ॥ यो जैनाभिमतं प्रमाणमनघं व्युत्पादयामासिवान्,  
प्रस्थानैर्विवेचैर्निरस्य निखिलं बौद्धादि सम्बन्धि तत् । नानावृत्तिकथाकथापथमतिक्रान्तं चक्रे तपो, निःसम्बन्धविहारम-  
प्रतिहर्तुं शास्त्रानुसारात्तथा ॥ ७ ॥ तस्याचार्यजिनेश्वरस्य मद्वद्वादिप्रतिस्पद्धिनः, तद्वन्धोरपि बुद्धिसागर इति ख्यातस्य  
द्वरेर्धुवि । छन्दोबन्धनिबद्धबन्धुरवचःशब्दादिसल्लक्ष्मणः, श्रीसंविद्यविहारिणः श्रुतनिघेथारित्रचूडामणेः ॥ ८ ॥ शिष्येणामय-  
देवाख्यसूरिणा विवृतिः कृता । ज्ञातार्धमकथाङ्गस्य, श्रुतमकस्या समासतः ॥ ९ ॥ निर्धृतककुलनमस्तलचन्द्रदोणारख्यसूरि-  
मुखेन । पण्डितगुणेन गुणवत्प्रियेण संशोधिता चेयम् ॥ १० ॥ प्रत्यक्षरं गणनया, ग्रन्थमानं विनिश्चितम् । अनुदुर्भा  
सहस्राणि, त्रीण्येवाष्टशतानि च ॥ ११ ॥ एकादशसु श्रुतेष्वथ विंशत्यधिकेषु विक्रमसमानाम् । अणहिलपाटकनगरे  
विजयदशम्यां च सिद्धेयम् ॥ १२ ॥ समाप्ता चेयं ज्ञातार्धमकथाप्रदेशटीकेति ॥

॥ समाप्तमिदं चन्द्रकुलनभस्तलोद्भुपतिप्रभश्रीमदभयदेवसूरिविद्वत्तविवरणयुतं श्रीज्ञातार्धमकथाङ्गम् ॥ ॥



२. द्वितीय-

शु०

वृत्तिकार-  
प्रशस्त्यादि-  
निरूपणम् ।

॥ २६० ॥





## हमारा प्रकाशन

	श. आ. पा.	
१ श्री ऐचक्यकलति-कुसुमावली	१-८-०	श. आ. पा.
२ श्री वैश्यामख्योपमाहास्य	३-०-०	३-०-०
३ श्रीपञ्चसिद्धिक्रमण सूत्राणि विधिसह (कमीशन वगर) १-२-०	१-२-०	७-०-०
४ श्रीसिद्धहेमचन्द्र-शब्दानुशासनम् (आनन्द- बोधिनी टीका) भाग १.	३०-०-०	प्रेसमां ”
५ श्रीसिद्धिखरिसम्पत्तयत्राकार	३-०-०	१-१२-०
६ श्रीकृष्णवाक्यप्रकाशसारांश विभाग १.	३-०-०	०-१-०
७ श्रीआनन्दचन्द्रसुधासिन्धु विभाग १.	४-०-०	०-०-०
८ श्रीआनन्दचन्द्रसुधासिन्धु विभाग २.	३-०-०	
९ श्रीअथर्वसुखाशी सुख-प्रस्तावनाशी	६-१२-०	
१० श्रीशास्त्रसूत्रसंग्रह भाग १. सारांशसह.	८-०-०	
११ श्रीआगमोद्धारक		
१२ श्रीज्ञानासूत्रसटीकसारांशसह. द्वितीय विभाग		
१३ श्री मूत्रकृतांगसूत्रसटीक भाग २.		
१४ श्रीसूत्रकृतांग भाग बोजो सारांश		
१५ श्री तपोद्यापन.		
१६ श्रीप्रभासपाटणतीर्थमहात्म्य		
१७ श्री सिद्धहेम-चतुष्कृति-स्यादिसमुच्चययुतम्		

**श्रीसिद्धचक्र-साहित्य-प्रचारक समिति.**

C O संघवी चीमनलाल सवाइचंद,  
गलेमंदी, गोकशेरी-सुरत.





